

**(D)** = DATE STAMP

# **GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

**KOTA (Raj.)**

Students can retain library books only for two weeks at the most.

| <b>BORROWER'S<br/>No.</b> | <b>DUE DTATE</b> | <b>SIGNATURE</b> |
|---------------------------|------------------|------------------|
|                           |                  |                  |


श्रीमन्त सरकार ग्वालियर महाराज द्वारा स्वीकृत

# शासन-शब्द-संग्रह

( शासन-कार्य तथा राजनियमों में प्रयुक्त  
होनेवाले शब्दों का संग्रह )

A

तीन भाग



सम्पादक,

राजराजेन्द्र कर्नल

मालोजीराव नृसिंहराव शितोले.

संग्रहकर्ता,

हरिहर निवास द्विवेदी,

एम. ए., एल-एल. बी.

प्रकाशक,  
विद्यामंदिर-प्रकाशन,  
मुरार,  
(ग्वालियर-राज्य).

प्रथम संस्करण  
संवत् २००० वि०  
मूल्य ३)

मुद्रक,  
अ. खं. शिर्के,  
बालीजाह दरबार प्रेस, ग्वालियर.

प्रजावत्सल, उदारमना, जनवाणी-संरक्षक

श्रीमन्त सरकार महाराजाधिराज

मेजर सर जीवाजीराव शिन्दे

आलीजाह बहादुर

के

कर कमलों में

अत्यन्त विनम्रता से

सादर समर्पित

## संशोधक-मंडल



- जस्टिस श्री० जगमोहनलाल श्रीवास्तव,  
श्री० युधिष्ठिर मार्गव, एम. एस-सी.,  
श्री० प्रभुशंकर मेहता, बी. ए., एल-एल. बी.  
श्री० सूर्यनारायण व्यास, ज्योतिषाचार्य  
श्री० भगवानदास गुप्त, सीनियर एडवोकेट  
श्री० शिवदयाल श्रीवास्तव, एडवोकेट  
बी. एस-सी., एल-एल. बी.



ग्रन्थ तैयार कराया । इसमें उन सब फारसी-अरबी शब्दों के संस्कृत रूप दिए गए थे जो शासन व्यवस्था में काम में आते थे । प्राचीन प्रथा के अनुसार यह ग्रन्थ छन्दबद्ध है । तंजौर के शाहजी राजा ने अनेक कोष-ग्रन्थ स्वयं लिखे तथा दूसरों से लिखवाए । उन्होंने स्वयं 'शब्द-रत्न-समन्वय' और 'शब्दार्थ संग्रह' दो कोष लिखे और अपनी राज-सभा के वैकटेश्वर, नल्ला शास्त्री तथा श्रीधर नामक तीन पंडितों द्वारा 'पदमणिमंजरी' नामक कोष-ग्रन्थ लिखवाया । वैकटेश्वर पंडित ने शाहजी राजा के संरक्षण में 'उणादिनिबंदु' नामक प्रसिद्ध कोष-ग्रन्थ अलग लिखा ।

परन्तु आगे चलकर महाराष्ट्र के सूत्रधारक ऐसी परिस्थितियों में फँस गए कि उन्हें इस भाषा-संस्कार का न तो अवसर ही मिल सका और न वह उत्कट इच्छा ही रही । छत्रपति शिवाजी जैसी भावना तथा प्रखर प्रतिभा भी फिर कम ही देखने में आई ।

इधर कर्मचारी-वर्ग का हाल और भी बुरा हो चला था । वे सप्रयास ऐसी भाषा लिखा करते थे जिसमें अरबी और फारसी के अप्रयुक्त और भारीभरकम शब्दों की भरमार होती थी । बात शब्दों तक ही सीमित नहीं रही, वरन् व्याकरण भी इन्हीं भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा । इस बात का ध्यान रखना उनके लिए व्यर्थ था कि उनके शासक अथवा प्रजाजन उनकी भाषा समझते भी हैं या नहीं ।

इस विषमता की ओर विभिन्न देशी राज्यों में तथा ब्रिटिश भारत के शासन में अधिकारियों का ध्यान गया । ग्वालियर में स्वर्गीय श्रीमन्त जयाजीराव महाराज के समय में इसकी ओर ध्यान दिया गया । कर्मचारी-वर्ग की इस हठवादिता को कम करने का प्रयत्न प्रारम्भ हुआ, और २७ नवम्बर सन् १८५३ ई० में राज्य के मुन्सरिम दीवान शेख गुलाम हुसैन साहब को

यह आज्ञा निकालनी पड़ी कि 'फारसी' के शब्द न लिखे जाय, और यदि लिखे गए तो आगे ऐसे प्रयोगों के लिए दण्ड नियत किया जायगा। यह प्रयत्न चलता रहा और २६ नवम्बर सन् १८८७ ई० में हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि को स्थान देने की आज्ञा प्रचलित की गई। उस समय भी स्थिति-पालक कर्मचारी-वर्ग ने इस प्रयत्न को सफल नहीं होने दिया। कौन्सिल ऑफ रीजेन्सी ने इस ओर ध्यान न दिया और यहाँ तक कि देवनागरी लिपि को फारसी लिपि की अपेक्षा पढ़ने में कठिन बतलाकर देवनागरी के स्थान पर पुनः फारसी लिपि को प्रचलित करा दिया।

स्वर्गीय श्रीमन्त माधवराव महाराज ने शासन में जहाँ अनेक कल्याणकारी और शुभ परिवर्तन किये वहाँ देवनागरी लिपि और हिन्दी भाषा के इस उपेक्षित विषय को पुनः उठाया। स्वर्गीय महाराजा जिम कार्य को करना चाहते थे उसे कराने की इच्छाशक्ति भी उनके पास थी और उसकी युक्तिपूर्ण रीति भी वे निकाल लेते थे। उन्होंने यह स्पष्ट आज्ञा निकाल दी कि संवत् १९६० वि० के प्रारम्भ से ही प्रत्येक शासकीय विभाग में हिन्दी का प्रयोग करना आवश्यक होगा। दो वर्ष पूर्व ही इस आज्ञा का प्रचार प्रारम्भ किया गया और सबको हिन्दी सीख लेने का प्रयत्न करने को प्रेरित किया गया। वह उठाव कुछ ऐसा दृढ़ था कि संवत् १९६० (सन् १९०३ ई०) के प्रारम्भ होते ही देवनागरी लिपि को उसका उपयुक्त और उचित स्थान मिल गया। आधी शताब्दी के सतत प्रयत्न के पश्चात् देवनागरी लिपि निर्विवाद रूप से शासन में प्रतिष्ठा पा सकी।

इस सम्बन्ध में यह लिख देना भी उपयुक्त होगा कि इस विषय में संवत् १९५२ में काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने

सर ऐण्टनी ( लॉर्ड मैकडॉनल ) को नागरी अक्षरों के ब्रिटिश न्यायालयों में उपयोग के लिए प्रार्थनापत्र दिया था । संवत् १९५५ में लाट साहब से इस विषय में प्रसिद्ध डेपूटेशन मिला था और संवत् १९५७ में कचहरियों में नागरी अक्षरों के प्रवेश की घोषणा हुई थी । संवत् १९५८ में ग्वालियर में नागरी लिपि के प्रयोग सम्बन्धी घोषणा जारी की गई थी ।

इतने लम्बे प्रयत्न के पश्चात् भी भाषा के रूप में विशेष भेद न हो सका । फारसी शब्दावली और फारसी व्याकरण लेखक के फारसी-ज्ञान के अनुसार शासकीय भाषा को सर्वसाधारण की भाषा से कम या अधिक दूर किये ही रहे । अधिक प्रवृत्ति कठिनता की ओर ही रही । कभी कभी बड़े विचित्र शब्दों की रचना भी होती रही । 'संस्थान' शब्द का बहुवचन किया गया 'संस्थानहाय' । किसी कम फारसी पढ़े लिखे व्यक्ति के हाथों में पड़कर वह शब्द बन गया 'संस्थान निहाय', और आज भी वह ज्यों का त्यों प्रचलित है ।

भाषा को सरल, सुबोध और जनसाधारण के लिए सुगम बनाने का श्रेय हमारे प्रजावत्सल श्रीमन्त जीवाजीराव महाराज को मिला है । आज भी इसका विरोध अधिकतर इसी स्थिति-पालक कर्मचारी-वर्ग की ओर से ही है । परन्तु श्रीमन्त को इस शुभ कार्य में पूर्ण यश प्राप्त होगा इसमें सन्देह नहीं ।

आजकल प्रत्येक बात को संप्रदाय और धर्म से सम्बन्धित कर देने की भी चाल चल गई है । भोली जनता की धार्मिक वृत्ति को उतेजित कर, उसके धर्म को खतरे में बतलाकर और अपने आपको उसके उद्धार में तत्पर जता कर कुछ व्यक्ति राजनीतिक प्रधानता प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं । इसमें उन्हें सरलता दिखती है । उन्होंने भाषा के प्रश्न को भी एक



राजनीतिक नारा बनाकर उसे भी धर्म से सम्बन्धित कर दिया है। ऐसे व्यक्तियों के सामने तर्क रखना व्यर्थ है। वे उन पर विचार करने के लिए न तो तैयार हैं और न कर ही सकते हैं। हम तो केवल यही कह सकते हैं कि धर्म से भाषा का विलकुल सम्बन्ध नहीं है। मूल में न तो वेद हिन्दी, मराठी या बंगला में थे, न कुरान शरीफ उर्दू में लिखा गया था और न होली बाइबिल अंग्रेजी में लिखी गई थी। धर्म शाश्वत है, भाषा परिवर्तनशील है। धर्म आत्मा का विषय है और भाषा समाज में एक दूसरे पर अपने विचार व्यक्त करने का साधन है। अस्तु।

परन्तु आज हिन्दी के शासन-कार्य में प्रयोग किये जाने के लिए अधिक तर्क प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रिटिश भारत तथा अलवर, इन्दौर, जयपुर, कोटा, ओरछा आदि अनेक देशी राज्यों में प्रजा की सुविधा के लिए हिन्दी का प्रचार प्रारम्भ हो गया है। उसकी उपयोगिता भी मानी जा चुकी है। यह सभी मान चले हैं कि इसका सम्बन्ध न तो धर्म से है और न राजनीति से, यह तो शुद्ध सुविधा का विषय है।

एक प्रश्न और विचारणीय है, वह है पारिभाषिक शब्दों का। ग्रन्थीय भाषाओं में पारिभाषिक शब्दों के लिए देशज शब्दों का प्रयोग अधिक नहीं किया जा सकता। अतः यह शब्द फारसी से लिए जाँय अथवा संस्कृत से? फारसी शब्दों के पक्ष में यह कहा जा सकता है कि वह थोड़े बहुत प्रचलित हो गए हैं। संस्कृत शब्दों के प्रयोग में एक बहुत बड़ा लाभ है। हिन्दी, मराठी, बंगला, गुजराती, उड़िया, पंजाबी, आसामी आदि आर्य भाषाएँ पूर्णतः तथा दक्षिण की तामिल, तेलगू, मलयालम, कन्नड़ आदि द्रविड़ भाषाएँ अंशतः अपना शब्द-कोष संस्कृत के

शब्द-सागर से भरती हैं। इस प्रकार संस्कृत से पारिभाषिक शब्द लेने से हिन्दी इन प्रान्तीय भाषाओं के अधिक निकट होगी।

आज इसी अखिल भारतीय भाषा-एकता के विचार को दृष्टि में रखकर एक ऐसे शब्द-समूह को खोजने की भी कल्पना है जो सम्पूर्ण भारतीय भाषाओं में सामान्य हो और जिसके आधार पर किया गया विचार विनिमय भारतवर्ष की अधिकतम जनसंख्या समझ सके। संस्कृत से लिया गया यह पारिभाषिक शब्दों का संग्रह इस कमी को पूरा कर सकता है। परन्तु प्रस्तुत कोष में यह लक्ष्य प्रधानतः नहीं रहा है। इन दो सहस्र शब्दों में से प्रायः तीन चौथाई ऐसे अवश्य होंगे जो समस्त भारतीय भाषाओं में मान्य किये जा सकें। परन्तु इस विचार को इस समय हम प्रस्तुत मात्र करते हैं, और यहाँ केवल यही संकेत कर सकते हैं कि यद्यपि प्रधानतः हिन्दी को ही ध्यान में रखकर यह संग्रह किया गया है, परन्तु साथ ही संग्रह-कर्ता तथा संशोधकों ने अपने मराठी, बंगला, गुजराती आदि भाषाओं के शब्द-ज्ञान से लाभ अवश्य उठाया है।

इस सम्बन्ध में एक प्रश्न और विचारणीय सम्मुख आता है। काशी के एक अत्यन्त प्रसिद्ध भाषातत्व विशारद तथा संस्कृत और हिन्दी के मान्य विद्वान को इस शब्द-संग्रह के दिखाने पर उन्होंने यह शंका की थी कि प्राचीन स्मृतियों में प्रयोग किये गए शब्दों को इसमें पूर्णतः उन्हीं अर्थों में नहीं लिया गया है। हमने इसके पारिभाषिक शब्दों के लिए याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, कौटिल्य के अर्थ-शास्त्र और राजतरंगिणी के शब्दों और उनके अर्थों को खोजा अवश्य है और उनसे पूर्ण लाभ भी उठाया है, पर अनेक स्थलों पर हम ऐसा नहीं भी कर सके हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में 'व्यवहार' शब्द

सम्पत्ति अथवा अपराध सम्बन्धी 'मामले' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। परन्तु हिन्दी-साहित्य में अनेक शताब्दियों से 'व्यवहार' शब्द का व्यवहार जिस अर्थ में रूढ़ हो गया है वह स्पष्ट है। हमने इस अर्थ से हटना उचित नहीं समझा। यद्यपि 'व्यवहार' से बने हुए अन्य शब्द 'व्यवहार' के स्मृति-सिद्ध अर्थों में ही दिये हैं, जैसे 'व्यवहारी' का प्रयोग हमने 'मुचक्किल' के अर्थ में किया है। 'आसेध' सम्पत्ति का भी हो सकता है, व्यक्ति का भी, परन्तु प्राचीन ग्रन्थों में व्यक्ति के लिए ही अधिक प्रयुक्त है। परन्तु व्यक्ति के लिए 'बन्दी' जैसे प्रचलित शब्द के होते हुए हमने 'आसेध' शब्द का प्रयोग सम्पत्ति के आसेध के अर्थ में किया है। कहीं कहीं, यद्यपि बहुत कम, हमें थोड़ी स्वाधीनता से (जिसे विद्वान लोग चाहें तो उच्छृंखलता भी कह सकते हैं) कार्य करना पड़ा है। "Share" के अर्थ में हमने 'अंश' शब्द रखा इसलिये "Share-holder" के लिए 'अंशधारी' शब्द का प्रयोग किया। हमारे एक संशोधक विद्वान जो संस्कृत के मान्य पंडित हैं हमारे इस प्रयोग से सहमत न हो सके, परन्तु 'धारण' तथा Holding की समानता के कारण हम उसके प्रयोग के प्रलोभन को रोक न सके। इन इने-गिने चार छँ उदाहरणों के अतिरिक्त प्राचीन स्मृतियों के शब्दों तथा उनके अर्थों को उपयुक्त और उचित मान्यता दी गई है।

शब्दों के चयन में यह ध्यान रखा गया है कि शासन-कार्य में तथा विधानों आदि में प्रयोग किये जाने वाले पारिभाषिक शब्दों को ही और प्रायः सभी पारिभाषिक शब्दों को संग्रहीत कर दिया जाय। इसके लिए सम्पत्ति सम्बन्धी, अपराध सम्बन्धी, राजस्व सम्बन्धी तथा सेवा-नियम आदि सब विधानों के अंग्रेजी अथवा फारसी पारिभाषिक शब्दों को एकत्रित कर

उनके हिन्दी पर्यायवाची शब्द दे दिए गए हैं। ग्वालियर राज्य में जितने विधानों के आलेख निकल चुके हैं उनके शब्द छोटने में तो कोई कठिनाई पड़ी ही नहीं, क्योंकि जो आलेख आजकल निकल रहे हैं उनके पारिभाषिक शब्दों का फारसी अथवा अरबी पर्यायवाची शब्द साथ ही कोष्ठक में रहता है और आलेख का अनुवाद समानान्तर स्तम्भ में अंग्रेजी में भी दिया रहता है। अतः इस शब्द-चयन का अधिकांश श्रेय तो ग्वालियर राज्य के न्याय-सचिव श्री गोविन्दराव कृष्णराव जी शिन्दे, वार-एट-लॉ, को है जिन्होंने अपने विधानों को "आमक़हस" बनाने के प्रयास में हनारा कार्य भी अत्यन्त सुगम कर दिया। उसके लिए हम ही क्या, समस्त हिन्दी-भाषी-संसार उनको हार्दिक धन्यवाद देता है और देता रहेगा। बड़ौदा, इन्दौर, अलवर आदि अन्य देशी राज्यों के विधानों से भी हमें अत्यन्त सुन्दर शब्द मिले। हमने उनका संग्रह भी निस्संकोच भाव से कर लिया। उन राज्यों के अधिकारियों के हम अत्यन्त कृतज्ञ हैं।

इस शब्द-संग्रह के कार्य में हमें अभी तक के निकले हुए कोष-ग्रन्थों से भी बहुत सहायता मिली है। बड़ौदा का 'श्री सयाजी-शासन-शब्द-कल्प-तरु' तो इस दिशा में अपने प्रकार का अपूर्व ग्रन्थ है, साथ ही राज्य के प्रतिष्ठित वकील स्वर्गीय श्री परमेश्वरदयाल श्रीवास्तव ने जो कोष-ग्रन्थ तैयार किया है वह भी उनका एकाकी तथा प्रारम्भिक प्रयास होने के कारण स्तुत्य है। इन दोनों ग्रन्थों के अतिरिक्त हिन्दी तथा प्रान्तीय भाषाओं के कोष-ग्रन्थों से हमने सहायता ली है।

इतने कोष-ग्रन्थों के होते हुए भी इस ग्रन्थ की हन्ने उपयोगिता समझी है और उसे प्रकाशित कर रहे हैं। इसके विषय में दो शब्द लिखना उचित है।

प्रस्तुत संग्रह कोई कोष-ग्रन्थ नहीं है। यह तो उपयोगिता की दृष्टि से अधिक से अधिक सफल हो सके इस विचार से निर्मित किया गया शब्द-संग्रह है। प्रत्येक शब्द की विस्तृत व्याख्या, उत्पत्ति आदि कोष के आवश्यक अवयव इसमें नहीं हैं। हिन्दी पारिभाषिक शब्दों के विषय में दो प्रकार की तथा दो वर्गों की कठिनाइयाँ आ सकती हैं। एक तो यूनीवर्सिटी से निकला हुआ उपाधिधारियों का वह वर्ग है जो केवल अँग्रेजी में ही सोच सकता है और उसके विचार में पहिले अँग्रेजी शब्द आता है। उसके लिए इस संग्रह का दूसरा भाग उपयोगी होगा। उसमें खोजने पर मिलेगा कि उन्हें उक्त अँग्रेजी शब्द के स्थान पर किस हिन्दी शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार जो लम्बे अभ्यास के कारण अथवा शिक्षा के कारण अरबी-फारसी शब्दों से अभ्यस्त हो गए हैं उनके लिए तीसरा भाग उपयोगी होगा। पहिले भाग में हिन्दी पारिभाषिक शब्द का अँग्रेजी पर्यायवाची शब्द दिया गया है। अतएव जो भी शासन के व्यवहार में आने वाले हिन्दी पारिभाषिक शब्द सीखना तथा जानना चाहते हैं वे इससे सीख व जान सकते हैं। इसी उपयोगिता के विचार से हमने इस ग्रन्थ को प्रस्तुत करने का माहस किया है।

हम यहाँ यह भी स्पष्ट करें कि हम उस शुभ दिन की रात में हैं जब कि एक ऐसा महान कोष-ग्रन्थ निकले जिसमें शासन सम्बन्धी सभी ऐसे शब्दों का संग्रह हो जिनका प्रयोग सभी प्रान्तीय भाषाओं में किया जा सके। उनकी व्युत्पत्ति, विस्तृत व्याख्या तथा अन्य आवश्यक बातें भी हों। हमारे विद्या-प्रेमी उदारमना श्रीमन्त सरकार महाराज के वरदहस्त रहते हुए यह स्वप्न कठिन भी नहीं दिखता।

अभी तो हमें यही ग्रन्थ पूर्ण और त्रुटि-रहित नहीं ज्ञात होता। इसके संग्रह-कर्ता, संशोधक महोदय तथा अन्य विद्वानों ने भी इस पर पूर्ण प्रयास किया है, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें सब पारिभाषिक शब्द आए हैं और केवल पारिभाषिक शब्द ही आए हैं। इसकी पूर्ति का एक ही उपाय है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह छोटा हो चाहे बड़ा, निस्संकोच भाव से अपने सुझाव भेजे। जो पारिभाषिक शब्द रह गए हैं, उन्हें बतलाए तथा जो शब्द वास्तव में पारिभाषिक नहीं हैं और इस संग्रह में आ गए हैं उनको भी बतलाए। इस प्रकार के सुझाव तथा अन्य सम्मतियाँ अत्यन्त कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार की जायँगी और उनसे लाभ उठाया जायगा। यह सुझाव संग्रह-कर्ता के पास भेजे जावें।

अन्त में हम एक बात और स्पष्ट कर देना चाहते हैं। किसी भी कोष ग्रन्थ द्वारा किसी भाषा का ज्ञान नहीं कराया जा सकता, कोष से शब्दों का ही ज्ञान हो सकेगा। उनका प्रयोग कैसे किया जाय यह अभ्यास और मनन का विषय है।

हिन्दी के विद्वानों की सेवा में भी हम यह विनय करना अपना कर्तव्य समझते हैं कि पारिभाषिक शब्दों को छोड़ कर अन्य स्थलों पर अनगढ़ और अनावश्यक संस्कृत शब्दों के प्रयोग से वे भाषा को बोझिल न बनावें। अन्य भाषाओं के जो शब्द हिन्दी में घुल मिल गए हैं उनका बहिष्कार करने से हिन्दी की जीवन-शक्ति मारी जायगी। साथ ही एक अर्थ में एक ही शब्द का प्रयोग किया जाय। अलग अलग शब्द गड़ने के प्रयास से हिन्दी के हित को भारी हानि पहुँचेगी।

इस संग्रह में जिन सज्जनों ने प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से नहायता दी है उनके हम कृतज्ञ हैं। इसके संग्रोधक महोदय तथा नर्व श्री मिट्ठनलाल मीतल वी० ए० एल-एल० वी०, भानुप्रताप सिंह वी० ए० एल-एल० वी०, बलवन्त दयाल दादू एम० ए० एल-एल० वी०, हिम्मत बहादुर वी० ए० एल-एल० वी०, श्रीनाथ गुप्त वी० ए०, आदि सज्जनों के कार्य की हम प्रशंसा करते हैं। श्री भजनलालजी शर्मा ने इसके प्रूफ देखने में बहुत प्रशंसनीय परिश्रम किया है। हम श्री० अ० खं० शिर्के, मैनेजर ए० डी० प्रेस के भी अत्यन्त आभारी हैं जिन्होंने इस पुस्तक को बड़े परिश्रम से सुन्दर रूप में छाप कर समय पर प्रकाशित कर दिया है।

अन्त में, हम अपने स्वामी श्रीमन्त महाराजा शिन्दे सरकार के समक्ष पुनः एक बार अपना विनम्र अभिवादन प्रस्तुत करते हैं जिन्होंने इस स्वल्प प्रयास को अपना वरदहस्त प्रदान कर तथा इसका समर्पण स्वीकार कर इसे तथा हमें गौरवान्वित किया। परमपिता परमेश्वर से हमारी तथा हमारे सहयोगियों की समवेत प्रार्थना है कि वह हमारे श्रीमन्त महाराज को राजपरिवार सहित चिरायु करे।

—सम्पादक।

# शासन-शब्द-संग्रह



---

---

पहिला भाग

हिन्दी-अंग्रेजी

---

---

# शासन-शब्द-संग्रह

हिन्दी.

अंग्रेजी.

|               |      |      |                          |
|---------------|------|------|--------------------------|
| अंक           | .... | .... | Figure, Data             |
| अंगीकरण       | .... | .... | Admission                |
| अंतर          | .... | .... | Difference               |
| अंश           | .... | .... | Share                    |
| अंशदान        | .... | .... | Contribution             |
| अंशधारी       | .... | .... | Share-holder             |
| अंशिका        | .... | .... | Instalment               |
| अकस्मात्      | .... | .... | Accidentally             |
| अकाट्य        | .... | .... | Conclusive               |
| अकाट्य प्रमाण | .... | .... | <u>Conclusive proof</u>  |
| अकृत्रिम      | .... | .... | Genuine, <u>Natural</u>  |
| अक्षम         | .... | .... | <u>Incompetent</u>       |
| अक्षर         | .... | .... | Letter                   |
| अक्षरशः       | .... | .... | Literal                  |
| अक्षुण्णनीय   | .... | .... | Irrevocable, Irrebutable |
| अग्रक्रयधिकार | .... | .... | Pre-emption              |
| अग्रमान्यता   | .... | .... | <u>Preference</u>        |
| अग्रसर करना   | .... | .... | Furtherance              |
| अग्रसर होना   | .... | .... | Proceed                  |
| अग्रधिकार     | .... | .... | Priority                 |
| अग्रह         | .... | .... | <u>Inadmissible</u>      |

|                   |      |      |                      |
|-------------------|------|------|----------------------|
| अग्रिम            | .... | .... | Prior, Advance       |
| अचानक             | .... | .... | Sudden               |
| अतिक्रम           | .... | .... | Trespass             |
| अतिरिक्त          | .... | .... | Additional           |
| अतिरिक्त लाभ      | .... | .... | Bonus                |
| अत्याचार          | .... | .... | Tyranny              |
| अत्यधिक           | .... | .... | Exorbitant           |
| अधिकता            | .... | .... | Excess               |
| अधिकतम            | .... | .... | Maximum              |
| अधिकार            | .... | .... | Authority            |
| अधिकार-क्षेत्र    | .... | .... | Jurisdiction ✓       |
| अधिकार-पत्र       | .... | .... | Charter, Instrument  |
| अधिकृत            | .... | .... | Authorised           |
| अधिवास            | .... | .... | Occupancy            |
| अधिवासी           | .... | .... | Occupant             |
| अधिवेशन ✓         | .... | .... | Session              |
| अधीन राज्य        | .... | .... | Dependency           |
| अधीनस्थ ✓         | .... | .... | Subordinate          |
| अधीनस्थ स्थल      | .... | .... | Servient-heritage    |
| अध्यक्ष           | .... | .... | Chairman             |
| अध्याय            | .... | .... | Chapter              |
| अनधिकृत           | .... | .... | Unauthorised         |
| अनधिकार-अवरोध     | .... | .... | Wrongful confinement |
| अनधिकार-पूर्ण     | .... | .... | Wrongful             |
| अनधिकार रोक       | .... | .... | Wrongful restraint   |
| अनधिकार-पूर्ण लाभ | .... | .... | Wrongful gain        |

|                     |      |                                     |
|---------------------|------|-------------------------------------|
| अनधिकार-पूर्ण हानि  | .... | Wrongful loss                       |
| अनभिज्ञ             | .... | Ignorant                            |
| अनवधानता            | .... | Inadvertence                        |
| अनाथ                | .... | Orphan                              |
| अनादर               | .... | Indignity                           |
| अनावश्यक            | .... | Unnecessary                         |
| अनियमित             | .... | Anomalous ( T. P. A ),<br>Irregular |
| अनिवार्य            | .... | Inevitable, Compulsory              |
| अनिश्चित            | .... | Indefinite, Uncertain               |
| अनुकम्पा            | .... | Favour                              |
| अनुग्रह             | .... | Grace.                              |
| अनुचित              | .... | Illicit                             |
| अनुचित प्रभाव       | .... | Undue influence                     |
| अनुचित संयोजन       | .... | Mis-joinder                         |
| अनुपयुक्त           | .... | Inappropriate, Improper             |
| अनुपस्थित           | .... | Absent                              |
| अनुपस्थिति          | .... | Non-appearance,<br>Absence          |
| अनुपात              | .... | Proportion                          |
| अनुबन्ध             | .... | Contract                            |
| अनुबन्ध-भंग         | .... | Breach of contract                  |
| अनुभव               | .... | <u>Experience</u>                   |
| अनुमति              | .... | Permission                          |
| अनुमति-पत्र         | .... | License                             |
| अनुमति-पत्र-ग्रहीता | .... | Licensee                            |
| अनुमति-पत्र-दाता    | .... | Licensor                            |

|                            |      |      |                         |
|----------------------------|------|------|-------------------------|
| अनुमान                     | .... | .... | Presumption, Inference  |
| अनुमान करेगा               |      | .... | Shall presume           |
| अनुमान कर सकना             |      | .... | May presume             |
| अनुमान-पत्रक               |      | .... | Budget                  |
| अनुमोदक                    | .... | .... | Secunder, Corroborative |
| अनुमोदन                    | .... | .... | Ratification            |
| अनुरूप                     | .... | .... | Compatible, Consistent  |
| अनुरूपता                   | .... | .... | Conformity              |
| अनुवादक                    | .... | .... | Translator              |
| अनुशासनात्मक               |      | .... | Disciplinary            |
| अनुसन्धान                  | .... | .... | Investigation           |
| अनुसरण                     | .... | .... | Pursuance, Follow       |
| अनैतिक                     | .... | .... | Immoral                 |
| अन्तर्भूत लाभ              |      | .... | Mesne profit            |
| अन्तर्भूत लाभ सम्बन्धी वाद |      | .... | Suit for mesne profit   |
| अन्तर्राष्ट्रीय            | .... | .... | International           |
| अन्तर्वर्ती                | .... | .... | Interlocutory, Interim  |
| अन्तर्वर्ती आज्ञा          |      | .... | Interlocutory order     |
| अन्तिम                     | .... | .... | Final, Ultimate         |
| अन्त्येष्टि                | .... | .... | Funeral                 |
| अन्याय                     | .... | .... | Injustice               |
| अन्वेषण                    | .... | .... | Search                  |
| अपमान                      | .... | .... | Insult, Contempt        |
| अपयश कारक                  |      | .... | Disgraceful             |
| अपराधशील जाति              |      | .... | Criminal tribe          |
| अपराध सम्बन्धी             |      | .... | Criminal                |

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| अपराध-सिद्धि ....           | .... Conviction               |
| अपराध-स्वीकृति              | .... Confession               |
| अपराध ....                  | .... Offence                  |
| अपराधी ....                 | .... Convict, Offender        |
| अपराधी-समर्पण               | .... Extradition              |
| अपरिपक्व ....               | .... Premature                |
| अपरिहार्य ....              | .... Indispensable            |
| अपर्याप्त ....              | .... Inadequate, Insufficient |
| अपर्याप्त प्रतिफल-प्रतिज्ञा | .... Unconscionable bargain   |
| अपवाद ....                  | .... Exception                |
| अपहृति ....                 | .... Forfeiture               |
| अपूर्ण ....                 | .... Imperfect                |
| अप्रकट ....                 | .... Latent                   |
| अप्रचलित ....               | .... Obsolete                 |
| अप्रतिबन्ध दाय              | .... Unobstructed heritage    |
| अप्रतिरोध्य ....            | .... Irresistible             |
| अप्रत्यक्ष ....             | .... Non apparent             |
| अप्रत्यक्ष रूप में          | .... Indirectly               |
| अप्रस्तुत ....              | .... Deferred                 |
| अप्रस्तुत स्त्री-शुल्क      | .... Deffered dower           |
| अप्राकृतिक ....             | .... Unnatural                |
| अप्राकृतिक अपराध            | .... Unnatural offence        |
| अभद्र ....                  | .... Indecent                 |
| अभिप्राय-पूर्वक             | .... Intentionally            |
| अभिभाषक ....                | .... Pleader                  |
| अभिभाषक-संघ                 | .... Bar                      |

|                  |      |  |
|------------------|------|--|
| अभिभाषण-व्यवसायी | .... | Legal Practitioner                           |
| अभियुक्त         | .... | Accused                                      |
| अभियोग-पक्ष      | .... | Prosecution                                  |
| अभियोग चलाना     | .... | Prosecute                                    |
| अभियोग लगाना     | .... | Accusation                                   |
| अभियोगी          | .... | Complainant                                  |
| अभिव्यक्ति       | .... | Disclosure                                   |
| अभ्यास           | .... | Practice                                     |
| अयुक्त संयोजन    | .... | Mis-joinder                                  |
| अयोग्यता         | .... | Inability, Disability,<br>Disqualification   |
| अराजकता          | .... | Anarchy                                      |
| अवशिष्ट भोक्ता   | .... | Residuary                                    |
| अर्थ-दण्ड        | .... | Fine   |
| अर्थ-पूर्ण       | .... | Significant                                  |
| अर्थ-विभाग       | .... | Finance Department                           |
| अर्थ-शास्त्र     | .... | Economics                                    |
| अर्थ-सम्बन्धी    | .... | Pecuniary                                    |
| अर्ध भाग         | .... | Moiety                                       |
| अर्पित करना      | .... | Assign                                       |
| अल्पमत           | .... | Minority                                     |
| अवज्ञा           | .... | Disobedience, Insubor-<br>dination, Defiance |
| अवधि             | .... | Duration, Limitation,<br>Term                |
| अवनति            | .... | Degradation                                  |

|                  |      |      |                       |
|------------------|------|------|-----------------------|
| अवयव             | .... | .... | Ingradient, Component |
| अवयस्क           | .... | .... | Minor                 |
| अवयस्कता         | .... | .... | Minority              |
| अवरोध            | .... | .... | Confinement           |
| अवशिष्ट          | .... | .... | Remaining             |
| अवसर             | .... | ..   | Occasion, Opportunity |
| अविभक्त          | .... | .... | Undivided             |
| अविभाज्य         | .... | .... | Impartible            |
| अविनिमय-साध्य    | .... | .... | Inconvertible         |
| अविश्वसनीय       | .... | .... | Incredible            |
| अवैतनिक          | .... | .... | Honorary              |
| अवैध             | .... | .... | Illegal               |
| अव्यवस्था        | .... | .... | <u>Disorder</u>       |
| अव्यवहार्य       | .... | .... | Void                  |
| अशक्तता          | .... | ...  | Incapacity            |
| अशासकीय          | .... | .... | Non-Official          |
| अशुद्ध           | .... | .... | Incorrect             |
| अश्लील           | .... | .... | Obscene               |
| असत्य सिद्ध करना | .... | .... | Disprove              |
| असन्तोष          | .... | .... | Discontent            |
| असफल             | .... | .... | Unsuccessful          |
| असफलता           | .... | .... | Failure               |
| असंयोजन          | .... | .... | Non-joinder           |
| असम्बद्ध         | .... | .... | Irrelevant            |
| असम्भव           | .... | .... | Impossible            |
| असम्भाव्य        | .... | .... | Improbable            |



|                      |      |                               |
|----------------------|------|-------------------------------|
| असहमति               | .... | ... Dissent                   |
| असाधारण              | .... | ... Extra-ordinary            |
| असाध्य               | .... | ... Impracticable             |
| असावधानी             | .... | ... Negligence                |
| असंगत                | .... | ... Inconsistent              |
| असिद्ध               | .... | ... Not proved                |
| असीमित               | .... | ... Unlimited                 |
| असुविधा              | .... | ... Inconvenience             |
| अस्त्र               | .... | ... Arms                      |
| अस्तित्व             | .... | ... Existence                 |
| अस्थायी              | .... | ... Temporary                 |
| अस्थि-भंग            | .... | ... Fracture                  |
| अस्पष्ट              | .... | ... Illegible, Vague, Obscure |
| अस्पर्शनीय           | .... | ... Intangible                |
| अस्वस्थ              | .... | ... Unsound                   |
| अस्वीकार करना        | .... | ... Reject                    |
| अस्वीकृति            | .... | ... Rejection, Denial         |
| अँकना                | .... | ... Estimate                  |
| आकस्मिक              | .... | ... Casual, Accidental        |
| आकस्मिक आवश्यकता     | .... | ... Emergency                 |
| आक्रमण               | .... | ... Invasion                  |
| आग्रह करना           | .... | ... Insist                    |
| आघात                 | .... | ... Injury, Wound             |
| आचरण                 | .... | ... Conduct                   |
| आचार                 | .... | ... Custom                    |
| <u>आजन्म कारावास</u> | .... | ... <u>Life imprisonment</u>  |

|                   |      |      |                        |
|-------------------|------|------|------------------------|
| आजीविका           | .... | .... | <u>Livelihood</u>      |
| आज्ञा             | .... | .... | Order                  |
| आज्ञा-पत्र        | .... | .... | Process                |
| आज्ञा-पत्र शुल्क  | .... | .... | Process fee            |
| आज्ञा पालन        | .... | .... | Obedience              |
| आइत               | .... | .... | Commission             |
| आतंक              | .... | .... | Panic                  |
| आतंककारी          | .... | .... | Sensational            |
| आत्म-निर्णय       | .... | .... | Self determination     |
| आत्म-रक्षा        | .... | .... | Self defence           |
| आत्म-संयम         | .... | .... | Self control           |
| आत्म-हत्या        | .... | .... | Suicide                |
| आदेश              | .... | .... | Provision, Mandate     |
| आदेशात्मक         | .... | .... | Mandatory              |
| आधार              | .... | .... | Grounds, Basis         |
| आधिपत्य           | .... | .... | Possession, Occupation |
| आधिपत्यच्युत करना | .... | .... | Eject, Evict           |
| आधुनिक            | .... | .... | Modern                 |
| आध्यात्मिक        | .... | .... | Spiritual              |
| आनुपातिक          | .... | .... | Proportionate          |
| आनुषंगिक          | .... | .... | Collateral, Incidental |
| आन्तरिक           | .... | .... | Internal               |
| आन्तरिक आघात      | .... | .... | Contused wound         |
| आन्दोलन           | .... | .... | Movement               |
| आपत्ति            | .... | .... | Objection              |
| आपत्ति-पत्र       | .... | .... | Objection application  |

|                  |      |      |                        |
|------------------|------|------|------------------------|
| आपत्तिजनक        | .... | .... | Objectionable          |
| आभासित अनुबन्ध   |      | .... | Quasi contract         |
| आभासित सुखाधिकार |      | .... | Quasi easement         |
| आमुख             | .... | .... | Preface                |
| आय               | .... | .... | Income, Proceeds       |
| आय-कर            | .... | .... | Income-tax             |
| आय-व्यय-परीक्षक  |      | .... | Auditor                |
| आयात             |      | .... | Import                 |
| आयु              | .... | .... | Age                    |
| आयोजन            | .... | .... | Preparation            |
| आयोजन करना       |      | .... | Convene                |
| आरोप             | .... | .... | Charge ( Cr. P. C. )   |
| आरोपण            | .... | .... | Imputation             |
| आरोप-पत्र        | .... | .... | Charge-sheet           |
| आरोपित           | .... | .... | Imputed                |
| आरोपित करना      |      | .... | Impose                 |
| आरोहण            | .... | .... | Accession              |
| आर्थिक           | .... | .... | Fiscal, Pecuniary      |
| आलेख             | .... | .... | <u>Draft, Bill</u>     |
| आवश्यक           | .... | .... | Essential              |
| आवश्यकता         | .... | .... | Requirement, Necessity |
| आवश्यक सुखाधिकार |      | .... | Easement of necessity  |
| आविष्कार         | .... | .... | Invention              |
| आवेदक            | .... | .... | Applicant              |
| आवेदन-पत्र       | .... | .... | Application            |
| आशय              | .... | .... | Purpose                |


|                            |      |      |                     |
|----------------------------|------|------|---------------------|
| आश्वासन                    | .... | .... | Warranty            |
| आश्रय लेना                 | .... | .... | Resort              |
| आश्रित                     | .... | .... | Dependent           |
| आसन्न                      | .... | .... | Imminent, Impending |
| आसामी                      | .... | .... | Tenant              |
| आसेध                       | .... | .... | Attachment          |
| आह्वान-पत्र                | .... | .... | Summons             |
| इच्छा                      | .... | .... | Volition, Desire    |
| इच्छा पूर्वक               | .... | .... | Wilfully            |
| ईश्वरदत्त स्वत्व           | .... | .... | Divine right        |
| उकसाना                     | .... | .... | Instigate, Seduce   |
| उगाहना                     | .... | .... | Recover, Realize    |
| उचित                       | .... | .... | Expedient, Fit      |
| उचित सिद्ध करना            | .... | .... | Justify             |
| उतार-चढ़ाव                 | .... | .... | Fluctuation         |
| उत्तरकालीन                 | .... | .... | Posterior           |
| उत्तरजीवी                  | .... | .... | Survivor            |
| उत्तरदान                   | .... | .... | Bequest, Legacy     |
| उत्तरदान कर्ता             | .... | .... | Legator, Testator   |
| उत्तरदान ग्रहीता           | .... | .... | Legatee             |
| उत्तरदायित्व               | .... | .... | Responsibility      |
| उत्तर-पत्र ( मृत्यु-पत्र ) | .... | .... | Will, Testament     |
| उत्तर-पत्र-उपांग           | .... | .... | Codicil             |
| उत्तर-पत्र-हीन             | .... | .... | Intestate           |
| उत्तर, उत्तर-पक्ष          | .... | .... | Reply, Defence      |
| उत्तराधिकार                | .... | .... | Inheritance         |

|                     |      |                       |
|---------------------|------|-----------------------|
| उत्तराधिकार-योग्य   | .... | Heritable             |
| उत्तराधिकारी ....   | .... | Heir, Successor       |
| उत्तराधिकार-वंधित   | .... | Disinherited          |
| उत्तराधिकार हीन     | .... | Unclaimed             |
| उत्तेजक ....        | .... | Incentive, Instigator |
| उत्तेजित करना....   | .... | Excite, Agitate       |
| उत्पन्न होना ....   | .... | Accrue                |
| उत्पादक ....        | .... | Producer              |
| उत्पादन ....        | .... | Out-put               |
| उत्पीड़न ....       | .... | Coercion              |
| उत्साह ....         | .... | Zeal                  |
| उत्साहित करना       | .... | Encourage             |
| उदार ....           | .... | Liberal               |
| उदासीन ....         | .... | Indifferent           |
| उदाहरण ....         | .... | Example               |
| उदाहरणीय ....       | .... | Exemplary             |
| उद्घाटन ....        | .... | Inauguration          |
| उद्घोषणा ....       | .... | Proclamation          |
| उद्देश्य ....       | .... | Object                |
| उद्धरण ....         | .... | Extract, Recital      |
| उद्यत ....          | .... | Ready                 |
| उद्यमी ....         | .... | Painstaking           |
| उद्योग ....         | .... | Industry              |
| उद्विग्न करना ....  | .... | Embarrass             |
| उद्वेजन ( स्त्रीज ) | .... | Annoyance             |
| उन्नति ....         | .... | Promotion             |

|                   |      |      |                         |
|-------------------|------|------|-------------------------|
| उपकरण             | .... | .... | Implement               |
| उपज               | .... | .... | Produce                 |
| उपजाऊ             | .... | .... | Fertile                 |
| उपद्रव            | .... | .... | Revolt                  |
| उप-धारा           | .... | .... | Sub-section             |
| उप-नियम           | .... | .... | Bye-laws                |
| उप-निर्वाचन       | .... | .... | Bye-election            |
| उपनिवेश           | .... | .... | Colony                  |
| उप-पट्टा          | .... | .... | Sub-lease               |
| उपभोग             | .... | .... | Enjoyment               |
| उपभोग करना....    | .... | .... | Enjoy                   |
| उपभोग-ज्ञान्य     | .... | .... | Prescriptive            |
| उपयुक्त           | .... | .... | Proper                  |
| उपयोग             | .... | .... | Use, Appropriation      |
| उपयोग करना....    | .... | .... | Consume                 |
| उपयोगिता          | .... | .... | Utility                 |
| उपवेतन            | .... | .... | Allowance               |
| उपस्थिति          | .... | .... | Appearance              |
| उपाधियाँ          | .... | .... | Titles                  |
| उपाय              | .... | .... | Remedy, Measure         |
| उपार्जित करना.... | .... | .... | Acquire                 |
| उपेक्षा           | .... | .... | Connivance              |
| उपेक्षा करना      | .... | .... | Ignore                  |
| उलट देना          | .... | .... | Over-rule               |
| उल्लंघन           | .... | .... | Infringement, Violation |
| उल्लंघन करना....  | .... | .... | Contravene              |

|               |      |      |                       |
|---------------|------|------|-----------------------|
| उल्लेख        | .... | .... | Reference             |
| ऋण            | .... | .... | Loan, Debt            |
| ऋण-ग्रस्त     | .... | .... | Indebted              |
| ऋण-दाता       | .... | .... | Creditor              |
| ऋण-देना       | .... | .... | Lend                  |
| ऋण-पत्र       | .... | .... | Bond                  |
| ऋण-भार        | .... | .... | Encumbrance           |
| ऋण-भार-कर्ता  | .... | .... | Incumbrancer          |
| ऋणी           | .... | .... | Debtor                |
| एकतंत्र       | .... | .... | Autocracy             |
| एकता          | .... | .... | Unity                 |
| एकत्रित       | .... | .... | Comulative, Aggregate |
| एकत्रित करना  | .... | .... | Consolidate           |
| एकपक्षीय      | .... | .... | Ex-parte              |
| एकाकी         | .... | .... | Exclusive             |
| एकाधिकार      | .... | .... | Monopoly              |
| एकाधिपति      | .... | .... | Dictator              |
| एकान्तता      | .... | .... | Privacy               |
| एकीकरण        | .... | .... | Consolidation         |
| ऐक्य          | .... | .... | Harmony               |
| ऐच्छिक        | .... | .... | Optional              |
| ऐच्छिक छुट्टी | .... | .... | Privilege leave       |
| औचित्य        | .... | .... | Justification         |
| औद्योगिक      | .... | .... | Industrial            |
| औलाती         | .... | .... | Eaves                 |
| कंगाल         | .... | .... | Pauper                |

|                          |      |      |                         |
|--------------------------|------|------|-------------------------|
| कछार                     | .... | .... | Alluvion                |
| कथन                      | .... | .... | Allegation, Deposition  |
| कथन ( लेखा )             |      | .... | Statement               |
| कथन करने वाला            |      | .... | Deponent                |
| कपट                      | .... | .... | Fraud                   |
| कपट करना                 | .... | .... | Defraud                 |
| कपट संव्रण               | .... | .... | Collusion               |
| कपट-मय                   | .... | .... | Fraudulent              |
| कपट-सन्धि-पूर्ण          |      | .... | Collusive               |
| कम करना                  | .... | .... | Extenuate               |
| कमी                      | .... | .... | Deficiency              |
| कमी करना                 | .... | .... | Deduction               |
| कर                       | .... | .... | Cess, Tax               |
| करुणा                    | .... | .... | Compassion, Mercy       |
| कर्तव्य                  | .... | .... | Duty                    |
| कर्तव्यता                | .... | .... | Obligation              |
| कर्मचारी तंत्र           | .... | .... | Bureaucracy             |
| कर्मचारी वर्ग....        |      | .... | Establishment           |
| कर्म-संवत्सर ( कौटिल्य ) |      | .... | Financial year          |
| कल्पना                   | .... | .... | Supposition, Hypothesis |
| कष्टदायक बात             |      | .... | Nuisance                |
| काम                      | .... | .... | Undertaking             |
| काम करने वाला            |      | .... | Employee                |
| काम पर लगाना             |      | .... | Employ                  |
| काम पर लगाने वाला        |      | .... | Employer                |
| कारखाना                  | .... | .... | Factory                 |





|                       |      |      |                        |
|-----------------------|------|------|------------------------|
| कारबार                | .... | .... | Business               |
| कारागृह               | .... | .... | Jail, Prison           |
| कारावास               | .... | .... | Imprisonment           |
| कार्यक्रम             | .... | .... | Agenda                 |
| कार्यकाल              | .... | .... | Term of office...      |
| कार्यभार              | .... | .... | Charge                 |
| कार्यवाही             | .... | .... | Proceeding             |
| काल्पनिक              | .... | .... | Fictitious, Imaginary. |
| किराये पर देना        | .... | .... | Let                    |
| किशोर                 | .... | .... | Juvenile               |
| किसान                 | .... | .... | Agriculturist          |
| कुप्रबन्ध             | .... | .... | Mal-administration     |
| कुप्रसिद्ध            | .... | .... | Notorious              |
| कुमारी                | .... | .... | Virgin                 |
| कुलीन-तंत्र           | .... | .... | Aristocracy            |
| कूटनीति               | .... | .... | Diplomacy              |
| कूट-परीक्षण           | .... | .... | Cross examination      |
| केन्द्र स्थान         | .... | .... | Head quarter           |
| कोलाहल                | .... | .... | Noise                  |
| कोष                   | .... | .... | Treasure               |
| कौशल                  | .... | .... | Skill                  |
| कृत्रिम               | .... | .... | Artificial, Fictitious |
| क्रम                  | .... | .... | Order                  |
| क्रमानुगत             | .... | .... | Consecutive            |
| क्रमानुगत दण्डाज्ञाएँ | .... | .... | Consecutive sentences  |
| क्रमानुसार            | .... | .... | Successively           |

|                 |      |      |                             |
|-----------------|------|------|-----------------------------|
| क्रमिक          | .... | .... | Proforma                    |
| क्रय-धन         | .... | .... | Purchase money              |
| कृषि            | .... | .... | Cultivation                 |
| क्रान्ति        | .... | .... | Revolution                  |
| क्रेता          | .... | .... | Vendee                      |
| क्रोधवेष        | .... | .... | Provocation                 |
| क्लेश           | .... | .... | Distress                    |
| क्षणिक संधि     | .... | .... | Truce                       |
| क्षति           | .... | .... | Damage, Injury              |
| क्षति पहुँचाना  | .... | .... | Damnify, Injure, Do harm to |
| क्षति-पूर्ति    | .... | .... | Compensation, Indemnity     |
| क्षतिपूर्ति-वाद | .... | .... | Suit for damage             |
| क्षमा           | .... | .... | Pardon                      |
| क्षमा-याचना     | .... | .... | Apology                     |
| क्षयशील         | .... | .... | Perishable                  |
| क्षेत्र         | .... | .... | Area                        |
| क्षेत्र-पुस्तक  | .... | .... | Field-book                  |
| क्षेत्र-मापक    | .... | .... | Surveyor                    |
| खण्डन           | .... | .... | Rebuttal, Revocation        |
| खण्डन करना      | .... | .... | Rebut, Supersede, Annul     |
| खण्डनीय         | .... | .... | Revocable                   |
| खण्डित करना     | .... | .... | Revoke, Quash               |
| खरीदने वाला     | .... | .... | Buyer                       |
| खाता            | .... | .... | Account                     |
| खिजाना          | .... | .... | Annoy                       |

|                   |      |                          |
|-------------------|------|--------------------------|
| खेती के योग्य.... | .... | Arable                   |
| खेरीज विक्रय .... | .... | Retail sale              |
| खोज करना ....     | .... | Discover                 |
| खोज निकालना       | .... | Detect                   |
| ख्याति ....       | .... | Reputation               |
| गठन ....          | .... | Formation                |
| गणन-वाद ....      | .... | Suit for accounts        |
| गणना ....         | .... | Computation              |
| गणना करना ....    | .... | Calculate                |
| गति अवरोध ....    | .... | Dead lock                |
| गति शील ....      | .... | Dynamic                  |
| गम्भीर चोट ....   | .... | Grievous hurt            |
| गम्भीर ....       | .... | Grave, Grievous, Serious |
| गम्भीर मामला ...  | .... | Warrant case (Cr. P. C.) |
| गर्भपात ....      | .... | Abortion, Miscarriage    |
| गर्भवती ....      | .... | Pregnant                 |
| गर्भाशय ....      | .... | Womb                     |
| गर्भित ....       | .... | Implied                  |
| गहना रख देने वाला | .... | Pawnor, Pledger          |
| गहना रख लेने वाला | .... | Pawnee, Pledgee          |
| गहना ....         | .... | Pawn, Pledge             |
| गाँठ ....         | .... | Bale                     |
| गिरा-ग्रहण ....   | .... | Hypothecation            |
| गुण ....          | .... | Quality                  |
| गुण-दोष ....      | .... | Merits                   |
| गुदा-मैथुन ....   | .... | Sodomy                   |

|                          |      |                         |
|--------------------------|------|-------------------------|
| गुप्त                    | .... | .... Confidential       |
| गुप्तचर                  | .... | .... Spy                |
| गुप्त-मत-पत्र            | .... | .... Ballot             |
| गुरुतर अपराध             | .... | .... Felony             |
| गुरुतर करना              | .... | .... Aggravate          |
| गोवध                     | .... | .... Cow slaughter      |
| गौण-साक्ष्य              | .... | .... Secondary evidence |
| गृह-अतिक्रम              | .... | .... House trespass     |
| गृह-उद्योग               | .... | .... Home Industry      |
| ग्रहण करना               | .... | .... Entertain          |
| ग्रामोद्धार              | .... | .... Rural uplift       |
| ग्राम्य                  | .... | .... Rural              |
| ग्राह्य                  | .... | .... Admissible         |
| घटना                     | .... | .... Fact, Occurrence   |
| घटना सम्बन्धी (वाद-हेतु) | .... | .... Issue of fact      |
| घटनास्थल                 | .... | .... Spot               |
| घटित होना                | .... | .... Ensue, Occur       |
| घटी                      | .... | .... Deficit, Loss      |
| घातक                     | .... | .... Deadly, Fatal      |
| घूस                      | .... | .... Bribe              |
| घोर असावधानी             | .... | .... Gross negligence   |
| घोषणा                    | .... | .... Notification       |
| घृणा                     | .... | .... Hatred             |
| चुंगी                    | .... | .... Octroi             |
| चक्रवृद्धि व्याज         | .... | .... Compound interest  |
| चतुर                     | .... | .... Skilful            |

|                  |      |      |                                   |
|------------------|------|------|-----------------------------------|
| चतुःसीमा         | .... | .... | Abuttals, Boundary                |
| चरण              | .... | .... | Paragraph                         |
| चरित्र           | .... | .... | Character                         |
| चलन              | .... | .... | Usage                             |
| चलवृत्ति         | .... | .... | Floating capital. Working capital |
| चाल सुद्रा       | .... | .... | Legal tender                      |
| चिकित्सक-अधिकारी | .... | .... | Medical officer                   |
| चिन्ह            | .... | .... | Sign, Token, Mark                 |
| चिन्हित          | .... | .... | Impressed                         |
| चुक्रा           | .... | .... | Payment                           |
| चुनना            | .... | .... | Selection                         |
| चुनौती देना      | .... | .... | Challenge                         |
| चूक              | .... | .... | Omission                          |
| चेतावनी          | .... | .... | Warning, Admonition               |
| चेष्टा           | .... | .... | Attempt                           |
| चोट              | .... | .... | Hurt                              |
| चोर              | .... | .... | Thief                             |
| चोरी             | .... | .... | Theft                             |
| चोरी से लाना.... | .... | .... | Smuggling                         |
| चोरी की सम्पत्ति | .... | .... | Stolen property                   |
| छटनी             | .... | .... | Retrenchment                      |
| छल               | .... | .... | Cheating                          |
| छाप              | .... | .... | Impression                        |
| छापना            | .... | .... | Print                             |
| छिपाव            | .... | .... | Concealment                       |

|                |      |      |                       |
|----------------|------|------|-----------------------|
| छीलना          | ...  | .... | Erase                 |
| छुटकारा        | .... | .... | Release               |
| छुट्टी         | .... | .... | Vacation ✓            |
| छुड़ाना        | .... | .... | Rescue                |
| छूट            | .... | .... | Remission             |
| छोड़ना         | .... | .... | Waiver                |
| छोड़ जाना      | .... | .... | Evacuate              |
| छोड़ देना      | .... | .... | Relinquish            |
| जंगम           | .... | .... | Moveable              |
| जन-गणना        | .... | .... | Census                |
| जन-श्रुति      | .... | .... | Hear-say              |
| जन्म           | .... | ...  | Birth                 |
| जमाव           | .... | .... | Assembly              |
| जलयान          | .... | .... | Vessel                |
| जाँच           | .... | .... | Inquiry, Enquiry      |
| जाति           | .... | .... | Caste                 |
| जाति-च्युत     | .... | .... | Out-caste             |
| जानकारी        | .... | .... | Information           |
| जानबूझकर       | .... | .... | Knowingly.            |
| जारज           | .... | .... | Bastard, Illegitimate |
| जीवन           | .... | .... | Life                  |
| जीवन-हित       | .... | .... | Life interest         |
| जीविका के साधन |      | .... | Means of living       |
| जुआ            | .... | .... | Gambling              |
| जोखम           | .... | .... | Risk                  |
| ज्ञान          | .... | .... | Knowledge             |

|                    |      |      |                            |
|--------------------|------|------|----------------------------|
| ज्ञापन             | .... | .... | Declaration                |
| ज्येष्ठाधिकार      | .... | .... | Primogeniture              |
| ज्वलनशील           | .... | .... | Combustible                |
| झूठा साक्ष्य बनाना | .... | .... | Fabricating false evidence |
| टिप्पणियाँ         | .... | .... | Remarks                    |
| टीका               | .... | .... | Annotation                 |
| दूट-दूट            | .... | .... | Wear & Tear                |
| टोली               | .... | .... | Gang                       |
| ठहराव              | .... | .... | Resolution, Agreement      |
| डकैती              | .... | .... | Dacoity                    |
| डाकू               | .... | .... | Dacoit                     |
| डिक्री             | .... | .... | Decree                     |
| ढाँचा              | .... | .... | Structure                  |
| तटस्थ              | .... | .... | Neutral                    |
| तत्काल             | .... | .... | Immediately                |
| तदनुसार            | .... | .... | Accordingly                |
| तर्क               | .... | .... | Plea                       |
| तात्कालिक          | .... | .... | Immediate                  |
| तापमान             | .... | .... | Temperature                |
| तारण               | .... | .... | Security                   |
| तालिका             | .... | .... | Inventory                  |
| तुच्छ              | .... | .... | Insignificant, Frivolous   |
| तुरन्त             | .... | .... | Forthwith                  |
| तुलना करना         | .... | .... | Compare                    |
| तुल्य              | .... | .... | Tentamount                 |
| त्याग देना         | .... | .... | Abandon                    |

|                  |      |      |                     |
|------------------|------|------|---------------------|
| त्याग-पत्र       | .... | .... | Resignation         |
| त्रुटि           | .... | .... | Default             |
| थाना ✓           | .... | .... | Police Station ✓    |
| दंगा             | .... | .... | Riot                |
| दण्ड             | .... | .... | Penalty, Punishment |
| दण्ड-न्यायालय    | .... | .... | Criminal court      |
| दण्डनीय          | ...  | .... | Punishable          |
| दण्डनीय नर-हत्या | .... | .... | Culpable homicide   |
| दण्ड सम्बन्धी    | .... | .... | Penal               |
| दण्डाज्ञा        | .... | .... | Sentence            |
| दण्डात्मक        | .... | .... | Punitive            |
| दक्ष             | .... | ...  | Efficient           |
| दत्तक            | .... | .... | Adopted             |
| दबाव             | .... | .... | Pressure            |
| दमन करना         | .... | .... | Suppress            |
| दया              | .... | .... | Mercy               |
| दयालु            | .... | .... | Kind                |
| दर               | .... | .... | Rate                |
| दर्शक            | .... | .... | Spectator           |
| दर्शनी           | .... | .... | At sight            |
| दर्शनोपरान्तीय   | .... | .... | After sight         |
| दलाल             | .... | .... | Broker              |
| दलित             | .... | .... | Depressed           |
| दहन              | .... | .... | Arson               |
| दहेज             | .... | .... | Dowry               |
| दाता             | .... | .... | Donor               |



|                    |      |      |                                  |
|--------------------|------|------|----------------------------------|
| दान                | .... | .... | Gift, Donation, Endow-<br>ment   |
| दान-ग्रहीता        | .... | .... | Donee                            |
| दायित्व            | .... | .... | Liability                        |
| दावेदार            | .... | .... | Claimant                         |
| दास                | .... | .... | Slave                            |
| दिवालिया           | .... | .... | Insolvent                        |
| दीर्घकालीन ऋण-पत्र | .... | .... | Debenture                        |
| दीर्घकालीन छुट्टी  | .... | .... | Furlough                         |
| दुःख               | .... | .... | Grievance                        |
| दुःखदायी           | .... | .... | Vexatious                        |
| दुःखित             | .... | .... | Aggrieved                        |
| दुराचरण            | .... | ..   | Misconduct, Mal-practice         |
| दुरुपयोग           | .... | .... | Mis-appropriation                |
| दुर्घटना           | .... | .... | Accident                         |
| दुर्बलता           | .... | .... | Infirmity, Imbecile              |
| दुर्भाग्य          | .... | .... | Misfortune                       |
| दुर्भाव            | .... | .... | Mala-fide                        |
| दुर्भिक्ष          | .... | .... | Famine                           |
| दुर्व्यवहार        | .... | .... | Mis-behaviour, Mal-<br>treatment |
| दुर्काल            | .... | .... | Scarcity                         |
| दुर्प्राप्य        | .... | .... | Rare                             |
| दूरदर्शिता         | .... | .... | Foresight                        |
| दूरस्थ             | .... | .... | Remote                           |
| दूषित              | .... | .... | Corrupt                          |

|                     |      |                        |
|---------------------|------|------------------------|
| द्रूषित प्रलोभन.... | .... | Corrupt inducement     |
| द्रूषित व्यवहार.... | .... | Corrupt practice       |
| दृष्टान्त ....      | .... | Illustration           |
| दृष्टान्त, निर्णय   | .... | Precedent, Ruling      |
| देय ....            | .... | Payable                |
| देवस्थानी सम्पत्ति  | .... | Debutter property      |
| देश-भक्ति ....      | .... | Patriotism             |
| देश-द्रोही ....     | .... | Traitor                |
| देशी राज्य ....     | .... | Native State           |
| दैनन्दिनी ....      | .... | Diary                  |
| दैवी प्रकोप ....    | .... | Divine displeasure     |
| दोष ....            | .... | Flaw, Defect           |
| दोष-पूर्ण ....      | .... | Defective              |
| दोषारोपण ....       | .... | Impeach, Accrimination |
| दोषी ....           | .... | Guilty, Culprit        |
| द्रव्य-वाद ....     | .... | Money suit             |
| द्विभाषिया ....     | .... | Interpreter            |
| द्वयर्थक ....       | .... | Ambiguous              |
| द्वेष ....          | .... | Malice                 |
| धमकी ....           | .... | Threat                 |
| धमकी देना ....      | .... | Threaten               |
| घरना ....           | .... | Picketing              |
| घरोहर ....          | .... | Deposit                |
| धर्म-परिवर्तन ....  | .... | Apostacy               |
| धर्मादाय ....       | .... | Charitable endowment   |
| धर्माधीन कथन        | .... | Affirmation            |

|                 |      |      |                       |
|-----------------|------|------|-----------------------|
| धा भाई          | .... | .... | Foster brother        |
| धारक            | .... | .... | Holder                |
| धारा            | .... | .... | Section               |
| धार्मिक         | .... | .... | Religious             |
| धुरी            | .... | .... | Axis                  |
| ध्यान           | .... | .... | Advertance            |
| धृष्टता         | .... | .... | Impertinence          |
| नकली            | .... | .... | Counterfeit           |
| नकारात्मक       | .... | .... | Negative              |
| नगर-सभा         | .... | .... | Municipality          |
| नपुंसकता        | .... | .... | Impotency             |
| नपुंसक करना     | .... | .... | Emasculate            |
| नर-हत्या        | .... | .... | Homicide              |
| नवीनकरण         | .... | .... | Renewal               |
| नष्ट करना       | .... | .... | Destroy               |
| नागरिक          | .... | .... | Citizen, Urban, Civil |
| नामरहित         | .... | .... | Anonymous             |
| नामांकित        | .... | .... | Famous                |
| नामें डालना     | .... | .... | Debit                 |
| नाली            | .... | .... | Drain                 |
| नाश             | .... | .... | Destruction           |
| निकटवर्ती       | .... | .... | Adjoining             |
| निकाल देना      | .... | .... | Eliminate             |
| निक्षेप         | .... | .... | Bailment              |
| निक्षेप-ग्रहीता | .... | .... | Bailee                |
| निक्षेपी        | .... | .... | Bailor                |

|                      |      |      |   |
|----------------------|------|------|---|
| निर्णय               | .... | .... | Decision                                |
| निन्दात्मक           | .... | .... | Libellous                               |
| निन्दात्मक लेख       |      | .... | Libel                                   |
| निन्द्य              | .... | .... | Scandalous                              |
| निपटारा              | .... | .... | Settlement                              |
| निमन्त्रण            | .... | .... | Invitation                              |
| निम्नसेवक            | .... | .... | Menial servant                          |
| नियत करना            | .... | .... | Prescribe                               |
| नियतकालिक            | .... | .... | Periodical                              |
| नियंत्रण             | .... | .... | Control                                 |
| नियम                 | .... | .... | Rules                                   |
| नियमित ( व्यवस्थित ) |      | .... | Regular                                 |
| नियुक्ति             | .... | .... | Appointment                             |
| नियोक्ता             | .... | .... | Principal                               |
| नियोजित करना         |      | .... | Nominate                                |
| निरंकुश शासन....     |      | .... | Despotism                               |
| निरगमन               | .... | .... | Egress                                  |
| निरंतर               | .... | .... | Perennial                               |
| निरंतरता             | .... | .... | Perpetuity                              |
| निरपराध              | .... | .... | Innocent                                |
| निरपेक्ष             | .... | .... | Unqualified                             |
| निरसन                | .... | .... | Rescission, Cancellation,<br>Abrogation |
| निरस्त करना          | .... | .... | Set aside, Repeal                       |
| निराकरण              | .... | .... | Disposal                                |
| निरादर करना....      |      | .... | Dishonour                               |

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| निराश करना ....       | .... Disappoint             |
| निरीक्षण ...          | .... Inspection             |
| निर्हपण ....          | .... Determination          |
| निर्हपण-योग्य....     | .... Determinable           |
| निरोध ....            | .... Custody                |
| निर्णय ....           | .... Judgment               |
| निर्णय करना ....      | .... Adjudge, Decide        |
| निर्णायक मत....       | .... Casting vote           |
| निर्णीत ऋणदाता        | .... Judgment creditor      |
| निर्णीत ऋणी ....      | .... Judgment debtor        |
| निर्दयता ....         | .... Cruelty                |
| निर्दिष्ट ....        | .... Specified              |
| निर्दिष्ट स्थान ....  | .... Destination            |
| निर्दिष्ट सहायता      | .... Specific relief        |
| निर्देश ....          | .... Direction, Instruction |
| निर्धारित सिद्धान्त   | .... Ruling                 |
| निर्माण करना ....     | .... Erect, Frame           |
| निर्मूल्य ....        | .... Gratuitous             |
| निर्यात करना ....     | .... Export                 |
| निवृत्ति वेतन ....    | .... Pension                |
| निवृत्ति पुरस्कार     | .... Gratuity               |
| निर्वन्ध ....         | .... Term (Condition)       |
| निर्वाचक ....         | .... Elector                |
| निर्वाचक-नामावली      | .... Electoral Roll         |
| निर्वाचन-क्षेत्र .... | .... Constituency           |
| निर्वाचन ( चुनाव )    | .... Election               |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| निर्वाचन करना ( चुनाव करना) | Elect                                     |
| निर्वाचन-पदाधिकारी          | .... Returning officer                    |
| निर्वाचन-योग्य              | .... Eligible                             |
| निर्वासन                    | .... Transportation                       |
| निर्वासित करना              | .... Deport                               |
| निर्वाह                     | .... Subsistence, Execution               |
| निर्वाहक (मृत्युपत्र)       | .... Executor                             |
| निर्विवाद                   | .... Undisputed, Indisputable<br>Implicit |
| निवारक                      | .... Deterrent                            |
| निवासस्थान                  | .... Residence                            |
| निवासी                      | .... Inhabitant, Resident                 |
| निविष्ट                     | .... Imbedded                             |
| निःशस्त्रीकरण               | .... Disarmament                          |
| निश्चय                      | .... Fixed                                |
| निश्चय करना                 | .... Finding                              |
| निश्चयात्मक                 | .... Cogent                               |
| निषेध                       | .... Prohibit, Prohibition                |
| निषेधाज्ञा                  | .... Injunction                           |
| निषेधाज्ञा-वाद              | .... Injunction suit                      |
| निषेधात्मक                  | .... Prohibitory                          |
| निषेधात्मक सुखाधिकार        | .... Negative easement                    |
| निष्कर्ष निकालना            | .... Deduce                               |
| निष्कासन-वाद                | .... Suit for ejection                    |
| निष्पक्ष                    | .... Impartial                            |
| निष्पक्षता                  | .... Impartiality                         |

|                     |      |      |                           |
|---------------------|------|------|---------------------------|
| निष्पादन            | .... | .... | Performance               |
| निष्पादन करना       |      | .... | Perform                   |
| निष्फल              | .... | .... | Fruitless                 |
| निष्फल करना         | .... | .... | Defeat, Nullify           |
| निहित               | .... | .... | Vested                    |
| निहित करना          | .... | .... | Invest, Vest              |
| नीच ( कुप्रसिद्ध )  |      | .... | Notorious                 |
| नीति                | .... | .... | Policy                    |
| नीतिघोषणा-पत्र      |      | .... | Manifesto                 |
| नूतन                | .... | .... | Recent                    |
| नृशंस               | .... | .... | Heinous                   |
| नेता                | .... | .... | Leader                    |
| नैतिक               | .... | .... | Moral                     |
| नैराश्य             | .... | .... | Despair                   |
| न्याय               | .... | .... | Justice                   |
| न्याय-ग्राह्य सूचना |      | .... | Judicial Notice           |
| न्याय-दान           | .... | .... | Administration of Justice |
| न्याय-युक्त         | .... | .... | Just                      |
| न्याय-विभाग         | .... | .... | Judicial Department       |
| न्याय-शुल्क         | .... | .... | Court-fee                 |
| न्याय-संगत          | .... | .... | Fair, Lawful              |
| न्याय-सम्बन्धी      | .... | .... | Judicial                  |
| न्यायाधीश           | .... | .... | Judge                     |
| न्यायालय            | .... | .... | Court                     |
| न्यास               | .... | .... | Trust                     |
| न्यासघोरी           | .... | .... | Trustee                   |

|                |      |                             |
|----------------|------|-----------------------------|
| न्यास-निर्माता | .... | Author of the Trust         |
| न्यास-पत्र     | .... | Instrument of Trust         |
| न्यास-सम्पत्ति | ...  | Trust property              |
| न्यायिक        | .... | Fiduciary                   |
| न्यून-तम       | .... | Minimum                     |
| पंक्ति         | ...  | Column                      |
| पंच            | .... | Arbitrator                  |
| पंच-न्यायालय   | .... | Court of Arbitration        |
| पंच निर्णय     | ...  | Award                       |
| पक्षकार        | .... | Party                       |
| पक्षकार-समावेश | .... | Joinder of Parties          |
| पक्ष-निवेदन    | .... | Pleadings                   |
| पक्षपाती       | ...  | Partial                     |
| पक्ष-समर्थन    | .... | Plead                       |
| पट्टा          | .... | Lease                       |
| पट्टा-दाता     | .... | Lessor                      |
| पट्टेदार       | .... | Lessee                      |
| पतन            | .... | Turpitude                   |
| पति            | .... | Husband                     |
| पत्र-व्यवहार   | .... | Correspondence              |
| पत्र-संग्रह    | .... | File                        |
| पथ-प्रदर्शन    | .... | Guidance                    |
| पद             | .... | Designation, Clause, Office |
| पद के अनुसार   | .... | Ex-officio                  |
| पदच्युत करना   | .... | Dismiss                     |
| पदच्युति       | .... | Dismissal                   |



|                   |      |      |                      |
|-------------------|------|------|----------------------|
| पदाधिकारी         | .... | .... | Officer              |
| पदाभिलषा          | .... | .... | Candidate            |
| पद्धति            | .... | .... | Method               |
| परम्परा           | .... | .... | Tradition            |
| पर-राष्ट्र        | .... | .... | Foreign State        |
| परवर्ती           | .... | .... | Subsequent           |
| परामर्श           | .... | .... | Advice               |
| परामर्शदाता       | .... | .... | Assessor             |
| परिचालन           | .... | .... | Conduct              |
| परिणति            | .... | .... | Commutation          |
| परिणाम            | .... | .... | Out-come             |
| परिणाम-भूत        | .... | .... | Consequential        |
| परिणाम-भूत-सहायता | .... | .... | Consequential relief |
| परितोष            | .... | .... | Gratification        |
| परिदर्शन          | .... | .... | Superintend, Perusal |
| परिपक्वता         | .... | .... | Maturity             |
| परिभाषा           | .... | .... | Definition           |
| परिमाण            | .... | .... | Quantity, Amo'unt    |
| परिवर्तन          | .... | .... | Variation            |
| परिवर्तन करना     | .... | .... | Convert              |
| परिवर्तन शील      | .... | .... | Variable             |
| परिवार            | .... | .... | Family               |
| परिशिष्ट          | .... | .... | Appendix (Schedule)  |
| परिशोध            | .... | .... | Satisfaction         |
| परिशोध करना       | .... | .... | Liquidate            |

|                              |      |      |  |
|------------------------------|------|------|--|
| परिशोधक                      | .... | .... | Liquidator                                 |
| परिश्रम                      | .... | .... | Diligence                                  |
| परिस्थिति                    | .... | .... | Circumstance                               |
| परीक्षण ( परीक्षा )          | .... | .... | Examination                                |
| परोपकारी                     | .... | .... | Charitable                                 |
| पर्यवेक्षण                   | .... | .... | Scrutiny                                   |
| पर्याप्त                     | .... | .... | Adequate, Sufficient                       |
| पवित्र                       | .... | .... | Sacred                                     |
| पश्चात्-वर्ती                | .... | .... | Ulterior (Subsequent)                      |
| पशु-अपहरण                    | .... | .... | Cattle lifting                             |
| पशु-मैथुन                    | .... | .... | Bestiality                                 |
| पहचानना                      | .... | .... | Identify                                   |
| पहुँच                        | .... | .... | Access                                     |
| पांडुलिपि                    | .... | .... | Manuscript                                 |
| पागल                         | .... | .... | Insane                                     |
| पागलखाना                     | .... | .... | Lunatic asylum                             |
| पागलपन                       | .... | .... | Lunacy                                     |
| पारश्रमिक                    | .... | .... | Remuneration                               |
| पारस्परिक                    | .... | .... | Mutual (Reciprocal)                        |
| पारस्परिक-विरोध-सम्बन्धी-वाद | .... | .... | Inter-pleader suit                         |
| पारितोषिक                    | .... | .... | Reward                                     |
| पारिभाषिक                    | .... | .... | Technical                                  |
| पारिवारिक वंशावली            | .... | .... | Family pedigree                            |
| पार्श्विक सहारा ( Eas. Act ) | .... | .... | Lateral support                            |
| पालन                         | .... | .... | Compliance                                 |
| पालनीय                       | .... | .... | Incumbent, Binding, Imperative, Obligatory |

|                            |      |      |                                     |
|----------------------------|------|------|-------------------------------------|
| पावती                      | .... | .... | Receipt                             |
| पितामह ( मातामह )          |      | .... | Grand-father                        |
| पितामही ( मातामही )        |      | .... | Grand-mother                        |
| पित्रेय पितामह ( Md. Law ) |      |      | True Grand-father                   |
| पित्रेय मातामह ( Md. Law ) |      |      | True Grand-mother                   |
| पीढ़ी                      | .... | .... | Generation                          |
| पुत्री                     | .... | .... | Daughter                            |
| पुनः ग्रहण करना            |      | .... | Resume                              |
| पुनरवलोकन                  | .... | .... | Revision                            |
| पुनर्जीवन                  | .... | .... | Revival                             |
| पुनर्परीक्षण               | .... | .... | Re-examination                      |
| पुनः प्रेषण                | .... | .... | Remand                              |
| पुनर्विचार                 | .... | .... | Review                              |
| पुनः स्थापन                | .... | .... | Restoration                         |
| पुनः स्थापित करना          |      | .... | Reinstate, Restitution              |
| पुष्टि करना                | .... | .... | Confirm, Uphold                     |
| पुस्तिका                   | .... | .... | Pamphlet                            |
| पूजा                       | .... | .... | Worship                             |
| पूँजी                      | .... | .... | Capital                             |
| पूरा करना                  | .... | .... | Fulfil                              |
| पूर्ण ( अत्राद्य )         |      | .... | Absolute                            |
| पूर्ण-न्यायालय             | .... | .... | Full bench                          |
| पूर्ति                     | .... | .... | Supply                              |
| पूर्व                      | .... | .... | Previous                            |
| पूर्वज                     | .... | .... | Ancestor, Ascendant,<br>Predecessor |
| पूर्व-निर्णीत              | .... | .... | Res-Judicata                        |

|                               |      |      |                                 |
|-------------------------------|------|------|---------------------------------|
| पूर्व-वर्ती                   | .... | .... | Antecedent, Precedent           |
| पैतृक प्रभाव                  | .... | .... | Parental influence              |
| पैतृक सम्पत्ति                | .... | .... | Haritage                        |
| पौत्र                         | .... | .... | Grandson                        |
| पौत्री                        | .... | .... | Grand daughter                  |
| प्रकट                         | .... | .... | Apparent                        |
| प्रकरण                        | .... | .... | Case                            |
| प्रकार                        | .... | .... | Description, Nature, Kind       |
| प्रकाशक                       | .... | .... | Publisher                       |
| प्रकाशन                       | .... | .... | Publication                     |
| प्रकाशित करना                 | .... | .... | Promulgate                      |
| प्रकाशनाधिकार                 | .... | .... | Copy-right                      |
| प्रख्यात                      | .... | .... | Eminent                         |
| प्रचलित                       | .... | .... | Prevalent, In vogue,<br>Current |
| प्रचार                        | .... | .... | Propaganda                      |
| प्रजातंत्र                    | .... | .... | Democracy                       |
| प्रणाली                       | .... | .... | System                          |
| प्रतिकार                      | .... | .... | Defence                         |
| प्रतिक्रिया                   | .... | .... | Reaction                        |
| प्रतिज्ञा-पत्र                | .... | .... | Recognizance, Bond              |
| प्रतिनिधि                     | .... | .... | Representative, Proxy           |
| प्रतिनिधि-पत्र (अभिभाषण-पत्र) | .... | .... | Power of attorney               |
| प्रतिनिधि-वर्ग                | .... | .... | Deputation                      |
| प्रतिपक्षी                    | .... | .... | Opposite party                  |
| प्रतिपादन                     | .... | .... | Assertion                       |

|                        |      |      |                      |
|------------------------|------|------|----------------------|
| प्रतिफल                | .... | .... | Consideration        |
| प्रतिबन्ध              | .... | .... | Condition            |
| प्रतिबन्धन             | .... | .... | Stipulation, Proviso |
| प्रतिबन्ध रहित         |      | .... | Unconditional        |
| प्रतिमृ                | .... | .... | Surety               |
| प्रतिभूत               | .... | .... | Secured              |
| प्रतिभूति              | .... | .... | Guarantee, Bail      |
| प्रतिभूति ( तारण )     |      | .... | Security             |
| प्रतिभूति-अयोग्य       |      | .... | Non-bailable         |
| प्रतिभूति-योग्य        |      | .... | Bailable             |
| प्रतिमा                | .... | .... | Effigy               |
| प्रतियोगिता            |      | .... | Competition          |
| प्रतियोगिता करना       |      | .... | Compete              |
| प्रतिरूप               | .... | .... | Model                |
| प्रतिरोध               | .... | .... | Resistance           |
| प्रतिलिपि              | .... | .... | Copy                 |
| प्रतिवाद करना          |      |      | Defend, Contradict   |
| प्रतिवादी              | .... | .... | Defendant            |
| प्रतिशत                | .... | .... | Per cent             |
| प्रतिषेधाधिकार....     |      | .... | Veto                 |
| प्रतिष्ठा              | .... | .... | Prestige             |
| प्रतिष्ठित             | ...  | .... | Respectable          |
| प्रतिस्थापन            |      | .... | Subrogation          |
| प्रत्यक्ष              |      | .... | Ostensible, Patent   |
| प्रत्यक्ष-उत्तराधिकारी |      | .... | Heir apparent        |
| प्रत्यक्षदर्शी साक्षी  |      | .... | Eye-witness          |

|                         |      |                      |
|-------------------------|------|----------------------|
| प्रत्यक्ष रूप से ....   | .... | Directly             |
| प्रत्यर्पण ....         | .... | Refund               |
| प्रत्याशा ....          | .... | Anticipation         |
| प्रत्याशित ....         | .... | Prospective          |
| प्रत्याशित उत्तराधिकारी | .... | Heir expectant       |
| पृथक् ....              | .... | Separate             |
| पृथक् पृथक् ....        | .... | Severally            |
| पृथकत्व ....            | .... | Severance            |
| प्रथम दृष्टि में        | .... | Prima-facie          |
| प्रथम सूचना ....        | .... | First information    |
| प्रदान करना ....        | .... | Grant                |
| प्रधान ....             | .... | Primary              |
| प्रधान न्यायालय         | .... | Chief court          |
| प्रधान मंत्री ....      | .... | Premier              |
| प्रधान साक्ष्य ....     | .... | Primary evidence     |
| प्रधान स्थान ....       | .... | Head Quarter         |
| प्रबन्ध ....            | .... | Management           |
| प्रबन्धक ....           | .... | Manager              |
| प्रबन्ध-शासन            | .... | Executive Government |
| प्रबन्ध-नियम            | .... | Regulations          |
| प्रबल ....              | .... | Overwhelming         |
| प्रभाव ....             | .... | Influence, Effect    |
| प्रभावशील ....          | .... | Effectual            |
| प्रभावहीन ....          | ..   | Inoperative          |
| प्रमाण ....             | .... | Proof                |
| प्रमाण-पत्र ....        | .... | Certificate          |

|                          |      |      |                               |
|--------------------------|------|------|-------------------------------|
| प्रमाण-भार               | .... | .... | Burden of proof               |
| प्रमाणित                 | .... | .... | Certified, Incorporate        |
| प्रमाणित जनसंघ           |      | .... | Body corporate                |
| प्रमाणीकरण               | .... | .... | Verification                  |
| प्रमुख स्थल (Eas. Act)   | .... | .... | Dominant heritage             |
| प्रमुख स्वामी (Eas. Act) | .... | .... | Dominant owner                |
| प्रयत्न                  | .... | .... | Endeavour                     |
| प्रयत्न                  | .... | .... | Effort                        |
| प्रयोग                   | .... | .... | Operation, Experiment         |
| प्रयोग में आना           |      | .... | Come into force               |
| प्रयोग करना              | .... | .... | Exercise                      |
| प्रयोगनीय                | .... | .... | Enforceable                   |
| प्रयोगात्मक              | .... | .... | Tentative                     |
| प्रयोजन                  | .... | .... | Motive                        |
| प्रयोज्य                 | .... | .... | Applicable                    |
| प्रलोभन                  | .... | .... | Inducement, Enticement        |
| प्रवंचना                 | .... | .... | Deceit, Circumvention         |
| प्रवर्तन                 | .... | .... | Enforcement, Execution        |
| प्रवृत्ति                | .... | .... | Tendency                      |
| प्रवास                   | .... | .... | Migration                     |
| प्रवास करना              | .... | .... | Emigrate                      |
| प्रवीणता                 | .... | .... | Proficiency                   |
| प्रवेश                   | .... | .... | Penetration, Entry, Enrolment |
| पृष्ठलेख                 | .... | .... | Endorsement                   |
| प्रश्न                   | .... | .... | Question, Interpellation      |

|                                 |      |      |                                     |
|---------------------------------|------|------|-------------------------------------|
| प्रसंग                          | .... | .... | Context                             |
| प्रसार करना                     | .... | .... | Disseminate                         |
| प्रसिद्धि-पत्र                  | ...  | .... | Circular                            |
| प्रसूति                         | .... | .... | Confinement                         |
| प्रस्ताव                        | .... | .... | Motion, proposal, offer             |
| प्रस्तावक                       | .... | .... | Proposer                            |
| प्रस्तावना                      | .... | .... | Preamble, Introduction              |
| प्रस्ताव-पत्र ( प्रस्तुति )     |      | .... | Tender                              |
| प्रस्तुत करना                   | .... | .... | Submit, Lodge, Adduce,<br>Introduce |
| प्रस्तुत स्त्री-शुल्क (Md. Law) | .... |      | Prompt Dower                        |
| प्रस्तुति                       | .... | .... | Production                          |
| प्रहार                          | .... | .... | Assault                             |
| प्रहारकारी                      | .... | .... | Assailant                           |
| प्राक्कथन ( प्रस्तावना )        |      | .... | Foreword                            |
| प्राकृतिक                       | .... | .... | Natural                             |
| प्रादेशिक                       | .... | .... | Territorial                         |
| प्राप्त करना                    | .... | .... | Derive, Procure                     |
| प्राप्ति                        | .... | .... | Acquisition                         |
| प्राप्य                         | .... | .... | Due, Obtainable                     |
| प्रारम्भ                        | .... | .... | Commencement                        |
| प्रारम्भिक                      | .... | .... | Elementary, Preliminary             |
| प्रारम्भिक वर्ग                 | .... | .... | Original side                       |
| प्रार्थना                       | .... | .... | Request                             |
| प्रार्थना करना                  | .... | .... | Pray                                |
| ✓ प्रार्थना-पत्र                | .... | .... | Petition                            |



|                  |      |      |                      |
|------------------|------|------|----------------------|
| प्रार्थी         | .... | .... | Petitioner           |
| प्रेरक भाव       | .... | .... | Animus               |
| प्रेरणा          | .... | .... | Instance, Initiative |
| प्रेरित करना     | .... | .... | Induce               |
| प्रेषक           | ...  | .... | Consignor            |
| प्रेषण           | .... | .... | Challan              |
| प्रोत्साहक       | .... | .... | Abettor              |
| प्रोत्साहन       | .... | .... | Abetment             |
| फाँसी देना       | .... | .... | Hang                 |
| फाटका            | .... | .... | Speculation          |
| फुसलाना          | .... | .... | Persuade             |
| चटमारी           | .... | .... | High way-robbery     |
| बड़े-खाते की रकम |      | .... | Bad debt             |
| बड़ेखाते डालना   |      | .... | Write off            |
| बड़े से          | .... | .... | Below par            |
| बढ़ जाना         | .... | .... | Exceed               |
| बढ़ाना           | .... | .... | Enlarge              |
| बद्ध करना        | .... | .... | Engage               |
| बद्धहस्त         | .... | .... | Hand-cuffed          |
| बन्दी            | .... | .... | Prisoner             |
| बन्दीकरण         | .... | .... | Apprehension         |
| बन्दी करना       | .... | .... | Arrest, Capture      |
| बन्धक            | .... | ...  | Mortgage             |
| बन्धक-रकम        | .... | ..   | Mortgage debt        |
| बन्धक-कर्ता      | .... | .... | Mortgagor            |
| बन्धक-ग्रहीता    |      | .... | Mortgagee            |

|                       |      |      |                           |
|-----------------------|------|------|---------------------------|
| बन्धक-पत्र            | .... | .... | Mortgage-deed             |
| बन्धक-मोचन-वाद        | .... | .. . | Suit for redemption       |
| बन्धक-मोचन-निषेध-वाद  | .... | .... | Suit for foreclosure      |
| बन्धक-मोचनाधिकार      | .... | .... | Equity of redemption      |
| बन्धक संयोजन (T.P.A.) | .... | .... | Tacking                   |
| बयाना                 | .... | .... | Earnest money             |
| बलपूर्वक ग्रहण        | .... | .... | Extortion                 |
| बलपूर्वक लूटमार       | .... | .... | Robbery                   |
| बलात्कार              | .... | .... | <u>Rape</u>               |
| <u>बलात्कार करना</u>  | .... | .... | <u>Ravish</u>             |
| बलिदान ( त्याग )      | .... | .... | Sacrifice                 |
| बहुमत                 | .... | .... | Majority                  |
| बहु-विवाह             | .... | .... | Poligamy                  |
| बॉट                   | .... | .... | Weight                    |
| बॉटना                 | .... | .... | Disburse                  |
| बॉंध                  | .... | .... | Embankment                |
| बाजार-भाव             | .... | .... | Market value              |
| बाजी लगाना            | .... | .... | Wager                     |
| बाढ़                  | .... | .... | Inundation                |
| बाधा                  | .... | .... | Obstruction               |
| बानगी                 | .... | .... | Sample                    |
| बान्धव                | .... | .... | Cognates, Distant kindred |
| बाल                   | .... | .... | Child                     |
| बाहुल्य               | .... | .... | Multiplicity              |
| बीजक                  | .... | .... | Invoice                   |
| बीमा                  | .... | .... | Insurance                 |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| वेचान करना ....        | .... Endorse              |
| वेरोक ....             | .... Un-interrupted       |
| वैठक ....              | .... Sitting              |
| वोधक प्रश्न ....       | .... Leading question     |
| भंग ....               | .... Breach               |
| <u>भगा लेजाना</u> .... | .... <u>Abduction</u>     |
| भड़काना ....           | .... Incite               |
| भत्ता ....             | .... Travelling allowance |
| भय-प्रदर्शन ....       | .... Intimidation         |
| भयानक ....             | .... Ferocious            |
| भरपाई ....             | .... Re-imburement        |
| भरण-पोषण ....          | .... Maintenance          |
| भरण-पोषण-वाद ....      | .... Maintenance-suit     |
| भरोसा ....             | .... Satisfaction, Belief |
| भर्त्सना देना ....     | .... Reprimand            |
| भवन ....               | .... Premises             |
| भविष्य ....            | .... Future               |
| भाग जाना ....          | .... Abscond              |
| भाग-दान ....           | .... Contribution         |
| भाग निकलना....         | .... Escape               |
| भाग लेना ....          | .... Participate          |
| भागी ....              | .... Liable               |
| भाड़ा ....             | .... Hire                 |
| भार ....               | .... Onus, Burden, Charge |
| भार-धारक ....          | .... Charge-holder        |
| भार-मुक्ति ....        | .... Discharge            |

|                    |      |      |                       |
|--------------------|------|------|-----------------------|
| भार-युक्त          | .... | .... | Onerous               |
| भार-वाहक           | .... | .... | Transport             |
| भार हटाना          | .... | .... | Exonerate             |
| भाव                | .... | .... | Sense                 |
| भावना              | .... | .... | Feeling               |
| भावविज्ञ           | .... | .... | Emotion               |
| भावी उत्तराधिकारी  | .... | .... | Reversioner           |
| भावुक              | .... | .... | Sentimental           |
| भाषण               | .... | .... | Speech                |
| भाषण-प्रतिरोध      | .... | .... | Estoppel              |
| भाषा               | .... | .... | Language              |
| भाष्य              | .... | .... | Commentary            |
| भिन्न-गोत्र सपिण्ड | .... | .... | Cognates              |
| भिन्न-विषयक-वाद    | .... | .... | Multifarious suit     |
| भुलावा देना        | .... | .... | Mislead               |
| भूमिहित-घन         | .... | .... | Treasure trove        |
| भूमि               | .... | .... | Land                  |
| भूमिवन्धक बैंक     | .... | .... | Land Mortgage Bank    |
| भूल                | .... | .... | Mistake, Error        |
| भू सम्पत्ति        | .... | .... | Estate                |
| भू-स्वामी          | .... | .... | Land-lord             |
| भेंट               | .... | .... | Gift                  |
| भेद करना           | .... | .... | Discriminate          |
| भेदिया             | .... | .... | Informer              |
| भेद्य              | .... | .... | Vulnerable            |
| भोग-वन्धक          | .... | .... | Usufructuary mortgage |

|                    |      |      |                      |
|--------------------|------|------|----------------------|
| भ्रान्त धारणा      | .... | .... | Misunderstanding     |
| भ्रान्त नति        | .... | .... | Delirious            |
| भ्रान्त वर्णन      | .... | .... | Misrepresentation    |
| भ्रान्ति           | .... | .... | Fallacy              |
| भ्रूण              | .... | .... | Foetus               |
| मंत्रीमंडल         | .... | .... | Cabinet              |
| मंत्री             | .... | .... | Secretary            |
| भजदूरी             | .... | .... | Wage                 |
| भर                 | .... | .... | Opinion, Vote        |
| भरदाता             | .... | .... | Voter                |
| भर-प्रदर्शन        | .... | .... | Dictum               |
| भराधिकार           | .... | .... | Suffrage, Franchise, |
| भराधिकार देना      | .... | .... | Enfranchise          |
| भराधिकार रहित करना | .... | .... | Disfranchise         |
| भूतैक्य            | .... | .... | Concurrence          |
| मध्यवर्ती          | .... | .... | Intermediate         |
| मध्यवर्ती आज्ञा    | .... | .... | Interim order        |
| मध्यस्थ            | .... | .... | Mediator             |
| मध्यान्तर          | .... | .... | Interval             |
| नना करना           | .... | .... | Refuse               |
| ननोरंजन-कर         | .... | .... | Entertainment tax    |
| मस्तिष्क           | .... | .... | Mind                 |
| महत्त्व            | .... | .... | Importance           |
| महत्त्वपूर्ण       | .... | .... | Material             |
| महत्त्वहीन         | .... | .... | Immaterial           |
| महाजन              | .... | .... | Banker               |

|                            |      |      |                         |
|----------------------------|------|------|-------------------------|
| महिला                      | .... | .... | Woman                   |
| माँग                       | .... | .... | Requisition. Demand     |
| मातृका                     | .... | .... | Nurse                   |
| मादकता                     | .... | .... | Intoxication            |
| मानचित्र                   | .... | .... | Plan                    |
| मानसिक                     | .... | .... | Mental                  |
| मानहानि                    | .... | .... | Defamation              |
| माप                        | .... | .... | Standard                |
| मामला                      | .... | .... | Case                    |
| मार्ग                      | .... | .... | Course                  |
| माल                        | .... | .... | Goods                   |
| मालग्राही                  | .... | .... | Consignee               |
| मालमत्ता                   | .... | .... | Effects, Assets         |
| मात्रेय पितामह (Md. Law).  |      |      | False grandfather       |
| मात्रेय मातामही (Md. Law). |      |      | False grandmother       |
| मिटाना                     | .... | .... | Efface                  |
| मितव्ययता                  | .... | .... | Economy                 |
| मिती-काटा                  | .... | .... | Discount                |
| मित्र                      | .... | .... | Ally                    |
| मित्रता                    | .... | .... | Alliance                |
| मिथ्या                     | .... | .... | False                   |
| मिथ्याकरण                  | .... | .... | Falsification           |
| मिथ्याधारणा                | .... | .... | Misconception           |
| मिथ्यालेख                  | .... | .... | False entry             |
| मिथ्या साक्ष्य             | .... | .... | Perjury, False evidence |
| मिलावट                     | .... | .... | Adulteration            |

|                |      |      |                                       |
|----------------|------|------|---------------------------------------|
| मुक्त          | .... | .... | Exempt                                |
| मुक्त करना     | .... | .... | Liberate, Absolve, Acquit             |
| मुक्ति         | .... | .... | Emancipation, Acquittal               |
| मुखिया         | .... | .... | Ring-leader                           |
| मुख्य          | .... | .... | Main                                  |
| मुख्य-परीक्षण  | .... | .... | Examination-in-chief                  |
| मुद्रा         | .... | .... | Seal, Coin                            |
| मूढ़           | .... | .... | Idiot                                 |
| मूर्ति         | .... | .... | Idol                                  |
| मूल            | .... | .... | Original                              |
| मूल-ऋणी        | .... | .... | Principal debtor                      |
| मूलधन          | .... | .... | Principal                             |
| मूल्य          | .... | .... | Price, Value                          |
| मूल्य-निर्धारक | .... | .... | Valuer                                |
| मूल्य-निर्धारण | .... | .... | Valuation                             |
| मूल्यवान       | .... | .... | Valuable                              |
| मूल्यांकन      | .... | .... | Valuation                             |
| मूल्यानुसार    | .... | .... | Ad-valorem                            |
| मृत            | .... | .... | Deceased                              |
| मृत्यु         | .... | .... | Death                                 |
| मृत्यु-दण्ड    | .... | .... | Capital punishment,<br>Death sentence |
| मैथुन          | .... | .... | Sexual intercourse                    |
| मोचन           | .... | .... | Redemption                            |
| मोचन-योग्य     | .... | .... | Redeemable                            |
| मौखिक          | .... | .... | Oral                                  |

|                 |      |                          |
|-----------------|------|--------------------------|
| मौखिक प्रतिज्ञा | .... | Parol                    |
| मौन             | .... | Silence                  |
| मौन सम्मति      | .... | Acquiescence             |
| मौलिक           | .... | Substantive, Fundamental |
| यथाक्रम         | .... | Respectively             |
| यथार्थ          | .... | Exact                    |
| यथाविधि         | .... | Duly                     |
| यथोचित          | .... | Reasonable               |
| यदाकदा          | .... | Occasional               |
| यांत्रिक विधि   | .... | Mechanical process       |
| यातायात-कर      | .... | Tarrif                   |
| युक्ति          | .... | Device, Argument         |
| युक्ति संगत     | .... | Rational                 |
| युद्ध छड़ना     | .... | Wage-war                 |
| योग्य           | .... | Qualified                |
| योग्यता         | .... | Qualification            |
| योजना           | .... | Scheme                   |
| रक्षित कोष      | .... | Reserved Fund            |
| रखेल            | .... | Concubine                |
| राज-क्षमा-घोषणा | .... | Amnesty                  |
| राज-दण्ड        | .... | Sceptre                  |
| राजदूत          | .... | Ambassador               |
| राजदूतावास      | .... | Embassy                  |
| राजद्रोह        | .... | Sedition, Treason        |
| राजनियम         | .... | Law                      |
| राजनियम-विज्ञान | .... | Jurisprudence            |



|                        |      |      |                     |
|------------------------|------|------|---------------------|
| राजनिष्ठा              | .... | .... | Allegiance          |
| राजनीतिज्ञ             | .... | .... | Statesman           |
| राजनैतिक               | .... | .... | Political           |
| राज-पुस्तकांकन         | .... | .... | Registration        |
| राज-पुस्तकांकन-अधिकारी | .... | .... | Registrar           |
| राज-पुस्तकांकन-योग्य   | .... | .... | Registrable         |
| राज-पुस्तकांकित        | .... | .... | Registered          |
| राजवन्दी               | .... | .... | State prisoner      |
| राजभक्त                | .... | .... | Loyal               |
| राजसाक्षी              | .... | .... | Approver            |
| राजसात्करण             | .... | .... | Forfeiture          |
| राजसात् करना....       | .... | .... | Confiscate, Forfeit |
| राजस्व                 | .... | .... | Revenue             |
| राजस्व निर्धारण        | .... | .... | Assessment          |
| राजस्व-न्यायालय        | .... | .... | Revenue Court       |
| राजहार                 | .... | .... | Privy Purse         |
| राजाज्ञा               | .... | .... | Edict               |
| राज्य                  | .... | .... | State               |
| राज्य-मण्डल            | .... | .... | Confederacy         |
| राज्य-व्यवस्था....     | .... | .... | Constitution        |
| राज्याभिषेक            | .... | .... | Investiture         |
| राष्ट्र                | .... | .... | Nation              |
| राष्ट्रसंघ             | .... | .... | League of Nations   |
| राष्ट्रीय              | .... | .... | National            |
| रिक्त                  | .... | .... | Vacant              |
| रिक्त-स्थान            | .... | .... | Vacancy             |

|                        |      |      |                                     |      |
|------------------------|------|------|-------------------------------------|------|
| रीति                   | .... | .... | Manner                              | .... |
| रुकावट                 | .... | .... | Obstacle                            | .... |
| रुद्धि-प्रतिपादित घटना |      | .... | Factum valet                        | .... |
| रूप                    | .... | .... | Form                                | .... |
| रेखाचित्र              | .... | .... | Chart                               | .... |
| रोक                    | .... | .... | Restraint,<br>Prevention, Clog, Ban | .... |
| रोक रखना               | .... | .... | Detain                              | .... |
| रोधात्मक               | .... | .... | Preventive                          | .... |
| रोधात्मक सहायता        |      | .... | Preventive relief                   | .... |
| लक्षण                  | .... | .... | Symptoms                            | .... |
| लगान                   | .... | .... | Rent                                | .... |
| लगाना                  | .... | .... | Levy                                | .... |
| लगातार                 | .... | .... | Consecutive                         | .... |
| लड़ाई झगड़ा            | .... | .... | Quarrel                             | .... |
| लागत                   | .... | .... | Cost                                | .... |
| लाभ                    | .... | .... | Benefit, Gain Profit                | .... |
| लाभदायक                | .... | .... | Beneficial                          | .... |
| लाभांश                 | .... | .... | Dividend                            | .... |
| लिखतम                  | .... | .... | Document, Deed                      | .... |
| लिखित                  | .... | .... | Documentary                         | .... |
| लिखित प्रश्न           | .... | .... | Interrogatories                     | .... |
| लिखित वक्तव्य          |      | .... | Written Statement                   | .... |
| लिपि                   | .... | .... | Script                              | .... |
| लुटेरा                 | .... | .... | Robber                              | .... |
| लेखक                   | .... | .... | Scribe                              | .... |

|                           |      |      |                    |
|---------------------------|------|------|--------------------|
| लेख                       | .... | .... | Inscription        |
| लेखपत्र                   | .... | .... | Deed               |
| लेख-प्रमाणाधिकारी         |      | .... | Notary public      |
| लेखा                      | .... | .... | Entry              |
| लेखा-सम्बन्धी-वाद         |      | .... | Suit for accounts  |
| लेख्य-संग्रह              | .... | .... | Record             |
| लेन-देन ( व्यवहार )       |      | .... | Dealings           |
| ले भागना                  | .... | .... | Kidnap             |
| लोकप्रिय                  | .... | .... | Popular            |
| लोपन                      | .... | .... | Foreclosure        |
| लौकिक सुखाधिकार (Eas Act) |      |      | Customary easement |
| लौटाना                    | .... | .... | Remand             |
| वंचित करना                | .... | .... | Debar, Deprive     |
| वंश                       | .... | .... | Race, Descent      |
| वंशज                      | .... | .... | Descendant         |
| वंशानुगत                  | .... | .... | Hereditary         |
| वंशानुगत सम्पत्ति         |      | .... | Hereditament       |
| वंशावली                   | .... | .... | Pedigree           |
| वकृता                     | .... | .... | Oration            |
| वचन                       | .... | .... | Promise            |
| वचन-ग्रहीता               | .... | .... | Promisee           |
| वचनदाता                   | .... | .... | Promisor           |
| वध                        | .... | .... | Slaughter          |
| वधिक                      | .... | .... | Executioner        |
| वयस्क                     | .... | .... | Major, Adult       |
| वयस्काल                   | .... | .... | Puberty            |

|                   |      |                                |
|-------------------|------|--------------------------------|
| वरिष्ठ            | .... | .... Superior                  |
| वर्ग              | .... | .... Class                     |
| वर्गीकरण          | .... | .... Classification            |
| वर्जन             | .... | .... Exclusion                 |
| वर्जित            | .... | .... Forbidden, Contraband     |
| वर्णन             | .... | .... Description               |
| वर्तमान           | .... | .... Present                   |
| वर्ष              | .... | .... Year                      |
| वस्तु             | .... | .... Article                   |
| वस्तु-निर्माण     | .... | .... Manufacture               |
| वस्तु-विनिमय      | .... | .... Barter                    |
| वहिष्कृत करना     | .... | .... Ex-communicate            |
| वाद               | .... | .... Suit                      |
| वाद-पत्र          | .... | .... Complaint                 |
| वाद-प्रतिनिधि     | .... | .... Next friend               |
| वाद-प्रस्तुत करना | .... | .... Sue                       |
| वाद-हेतु          | .... | .... Issue, Cause of action    |
| वाद-हेतु-घटना     | .... | .... Fact in issue             |
| वादार्थ संरक्षक   | .... | .... Guardian ad litem         |
| वादी              | .... | .... Plaintiff                 |
| वाधा              | .... | .... Impediment                |
| वार्षिक           | .... | .... Annual                    |
| वार्षिक वृत्ति    | .... | .... Annuity                   |
| वास्तव में        | .... | .... Defacto                   |
| वास्तविक          | .... | .... Substantial, Actual, Real |
| वाहक              | .... | .... Carrier                   |

|                       |      |      |                                   |
|-----------------------|------|------|-----------------------------------|
| विरोधी                | .... | .... | Opponent                          |
| विरोधी पक्षकार        |      | .... | Adverse party                     |
| विलक्षण               | .... | .... | Peculiar                          |
| विलम्ब                | .... | .... | Delay                             |
| विलम्ब-शुल्क          | .... | .... | Demurrage                         |
| विवरण                 | .... | .... | Particulars, Addition (Reg. Act.) |
| विवरण-पत्र            | .... | .... | Returns                           |
| विवश करना             | .... | .... | Compel                            |
| विवाद                 | .... | .... | Controversy                       |
| विवाद करना            | .... | .... | Argue                             |
| विवाह                 | .... | .... | Marriage                          |
| विवाह विच्छेद         |      | .... | Divorce                           |
| विविध                 | .... | .... | Miscellaneous<br>Multifarious     |
| विवेक                 | .... | .... | Discretion                        |
| विवेक युक्त           | .... | .... | Conscientious                     |
| विवेकाधीन             | .... | .... | Discretionary                     |
| विशेष                 | .... | .... | Particular                        |
| विशेषज्ञ              | .... | .... | Expert                            |
| विशेषाधिकार           | .... | .... | Prerogative, Lien                 |
| विश्लेषण              | .... | .... | Analysis                          |
| विश्वसनीय             | .... | .... | Reliable                          |
| विश्वास               | .... | .... | Confidence                        |
| विश्वासघात            | .... | .... | Breach of trust                   |
| विषय                  | .... | .... | Matter, Point                     |
| विषय निर्धारिणी समिति |      | .... | Subject committee                 |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| विषय वस्तु ....          | .... Subject matter                    |
| विसृष्टि-लेख ....        | .... Charter                           |
| विस्तार ....             | .... Scope, Extent                     |
| विस्फोटक ....            | .... Explosive                         |
| वृत्ति ....              | .... Stipend                           |
| वृद्धि ....              | .... Increment, Increase,<br>Accession |
| वेग ....                 | .... Force                             |
| वेतन ....                | .... Salary                            |
| वेद्या ....              | .... Prostitute                        |
| वैकल्पिक ....            | .... Alternative                       |
| वैभागिक आज्ञा ....       | .... Departmental order                |
| वैध ....                 | .... Valid, Lawful, Legal              |
| वैधता ....               | .... Validity                          |
| वैध प्रतिनिधि ....       | .... Legal representative              |
| वैध रक्षक ....           | .... Legal curator                     |
| वैपित्रिय सहोदर भाई .... | .... Uterine brother                   |
| वैमात्रिय भाई ....       | .... Consanguine brother               |
| वैयक्तिक ....            | .... Personal                          |
| वैवाहिक ....             | .... Matrimonial                       |
| वैवाहिक स्वत्व ....      | .... Conjugal right                    |
| व्यक्त ....              | .... Express                           |
| व्यक्ति ....             | .... Person, Individual                |
| व्यक्तीकरण ....          | .... Personation                       |
| व्यक्तिवाद ....          | .... Individualism                     |
| व्यंग-चित्र ....         | .... Caricature                        |

|                         |       |                             |
|-------------------------|-------|-----------------------------|
| व्यतीत हो जाना;         | ..... | Lapse                       |
| व्यभिचार                | ..... | Adultery                    |
| व्यय                    | ..... | Expenses, Expenditure, Cost |
| व्यर्थ                  | ..... | Futile, Void                |
| व्यर्थ करना             | ..... | Vitiate                     |
| व्यर्थनीय               | ..... | Voidable                    |
| व्यवसाय( धन्धा )        | ..... | Occupation                  |
| व्यवसाय विरुद्ध आचरण    | ..... | Unprofessional conduct      |
| व्यवस्थापक मण्डल        | ..... | Legislature                 |
| व्यवस्थापन-पत्र         | ..... | Settlement (Stamp Act)      |
| व्यवस्था माँगना         | ..... | Refer                       |
| व्यवस्था-हेतु प्रार्थना | ..... | Reference                   |
| व्यवस्थापन              | ..... | Legislation                 |
| व्यवहार                 | ..... | Transaction                 |
| व्यवहारी                | ..... | Client                      |
| व्यवहार्य               | ..... | Actionable                  |
| व्यवहार्य हानियाँ       | ..... | Actionable wrong            |
| व्याख्या                | ..... | Interpretation              |
| व्याज                   | ..... | Interest, Excuse            |
| व्यापक                  | ..... | General                     |
| व्यापकता                | ..... | Generality                  |
| व्यापार चिन्ह           | ..... | Trade mark                  |
| व्यवहारिक               | ..... | Practical                   |
| व्यौरा                  | ..... | Detail                      |
| शंका                    | ..... | Apprehension                |
| शक्ति                   | ..... | Power, Energy               |

|                             |      |      |                         |
|-----------------------------|------|------|-------------------------|
| शक्ति देना                  | .... | .... | Empower                 |
| शक्ति-पत्र                  | .... | .... | Warrant                 |
| शत्रु                       | .... | .... | Enemy                   |
| शत्रुता                     | .... | .... | Enmity                  |
| शपथ                         | .... | .... | Oath                    |
| शपथ-पत्र                    | .... | .... | Affidavit               |
| शपथ लेना                    | .... | .... | Swear                   |
| शरण देना                    | .... | .... | Harbour                 |
| शव                          | .... | .... | Corpse                  |
| शव-परीक्षा                  | .... | .... | Post-mortem examination |
| शस्त्र                      | .... | .... | Weapon                  |
| शाखा                        | .... | .... | Branch                  |
| शान्ति-भंग                  | .... | .... | Breach of peace         |
| शान्ति रक्षा                | .... | .... | Maintenance of peace    |
| शारीरिक                     | .... | .... | Physical                |
| शासकीय                      | .... | .... | Official                |
| शासकीय सेवक                 | .... | .... | Public servant          |
| शासन                        | .... | .... | Government              |
| शासन-प्रवन्ध ( राजप्रवन्ध ) | .... | .... | Administration          |
| शिक्षार्थी                  | .... | .... | Apprentice              |
| शिला-मुद्रण                 | .... | .... | Lithograph              |
| शिशु-हत्या                  | .... | .... | Infanticide             |
| शिष्टाचार                   | .... | .... | Etiquette               |
| शीर्षक                      | .... | .... | Heading                 |
| शुद्ध अन्तःकरण              | .... | .... | Good conscience         |



|                     |      |      |                                  |
|---------------------|------|------|----------------------------------|
| शुद्ध लाभ           | .... | .... | Net profit                       |
| शुद्धि-पत्र         | .... | .... | Errata, Correction-Slip          |
| शुल्क               | .... | .... | Fee                              |
| शेष                 | .... | .... | Outstanding, Arrears,<br>Balance |
| शैशवावस्था          | .... | .... | Infancy                          |
| शोषण करना           | .... | .... | Exploit                          |
| श्रंखला             | .... | .... | Series                           |
| श्रद्धा             | .... | .... | Faith                            |
| श्रम                | .... | .... | Labour                           |
| श्रमिक              | .... | .... | Labourer                         |
| श्रेणी              | .... | .... | Grade, Rank                      |
| षड्यंत्र            | .... | .... | Conspiracy, Plot, Intrigue       |
| संकट                | .... | .... | Danger                           |
| संकट जनक            | .... | .... | Dangerous                        |
| संकटमय              | .... | .... | Hazardous                        |
| संकलन करना          | .... | .... | Compile                          |
| संकेत               | .... | .... | Gesture                          |
| संकोच               | .... | .... | Hesitation                       |
| संक्रमण             | .... | .... | Infection                        |
| संक्रामक रोग        | .... | .... | Epidemic                         |
| संक्षिप्त           | .... | .... | Concise                          |
| संक्षिप्त विचार.... | .... | .... | Summary trial                    |
| संख्या              | .... | .... | Number                           |
| संग्रह              | .... | .... | Code                             |
| संघ                 | .... | .... | Federation, Association          |

|                     |       |                                  |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| संघटित होना ....    | ..... | Happen                           |
| संघ-नियम ....       | ....  | Articles of Association          |
| संघ-विधान-पत्र      | ....  | Memorandum of Association        |
| संघ-शासन सम्बन्धी   | ....  | Federal                          |
| संचय ....           | ...   | Accumulation, Collection         |
| संचालक ....         | ....  | Director                         |
| संचित ....          | ....  | Accumulated                      |
| संज्ञापन ....       | ....  | Intimation                       |
| संज्ञापित करना....  | ....  | Communicate                      |
| संतुलन ....         | ....  | Equilibrium                      |
| सन्दिग्ध ....       | ....  | Suspected                        |
| सन्देश ....         | ....  | Message                          |
| सन्देह करना ....    | ....  | Suspect                          |
| सन्धि .....         | ....  | Treaty                           |
| सन्धि-कालिक छुट्टी  | ....  | Joining leave                    |
| सम्पादन ....        | ....  | Execution                        |
| सम्भोग ....         | ....  | Intercourse                      |
| संयुक्त अभिप्राय    | ....  | Common intention                 |
| संयुक्त परिवार....  | ....  | Joint family                     |
| संयुक्त रूप से .... | ....  | Jointly                          |
| संयुक्त स्वामी .... | ....  | Joint owners                     |
| संयोग ....          | ....  | Contingency, Accident,<br>Chance |
| संयोगिक ....        | ....  | Contingent                       |
| संयोजन ....         | ....  | Joinder                          |

|                 |      |                                     |
|-----------------|------|-------------------------------------|
| संरक्षक         | .... | Guardian                            |
| संरक्षण         | .... | Safeguard, Preservation,<br>Custody |
| संलग्न          | .... | Enclosure                           |
| संवहन           | .... | Communication                       |
| संशोधन          | .... | Amendment                           |
| संशोधित करना    | .... | Amend                               |
| संस्करण         | .... | Edition                             |
| संस्थापक        | .... | Promoter                            |
| संस्था          | .... | Institution                         |
| सकारना          | .... | Honour                              |
| सकारने वाला     | .... | Acceptor                            |
| सक्रिय          | .... | Active                              |
| सक्षम           | .... | Competent                           |
| सगाई            | .... | Betrothal                           |
| सगोत्रता        | .... | Consanguinity                       |
| सचिव            | .... | Minister                            |
| सच्ची प्रतिलिपि | .... | True copy                           |
| सत्ता           | .... | Authority                           |
| सदस्य           | .... | Member                              |
| सदाचार          | .... | Good behaviour                      |
| सद्भाव से       | .... | Bonafide                            |
| सनक             | .... | Mania                               |
| सन्तति          | .... | Posterity                           |
| सन्देहजनक       | .... | Suspicious                          |
| सन्दिग्ध        | .... | Doubtful                            |
| सन्धि           | .... | Pact-Treaty                         |

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| सन्निहित होना....              | .... Involve                      |
| सन्यास ....                    | .... Renunciation                 |
| सपरिश्रम कारादण्ड              | .... Penal servitude              |
| सपरिश्रम कारावास               | .... Rigorous imprisonment        |
| सपरिश्रम ....                  | .... Rigorous                     |
| सप्रतिबन्ध ....                | .... Conditional                  |
| सप्रतिबन्ध दाय....             | .... Obstructed heritage          |
| सप्रतिबन्ध विक्रय              | .... Conditional sale             |
| सप्रतिबन्ध-विक्रय-द्वारा-बन्धक | .... Mortgage by conditional sale |
| सभापति ....                    | .... President                    |
| समझना ....                     | .... Deem                         |
| समझदार ....                    | .... Prudent                      |
| समझौता ....                    | .... Compromise                   |
| समझौते के अयोग्य               | .... Non-compoundable             |
| समझौते के योग्य                | .... Compoundable                 |
| समन्वय ....                    | .... Merger                       |
| सममूल्य पर ....                | .... At par                       |
| सममूल्य से ऊपर                 | .... Above par                    |
| समर्थन ....                    | .... Support, Corroborate         |
| समर्पण ....                    | .... Surrender                    |
| समर्पित करना ....              | .... Dedicate                     |
| समविस्तृत ....                 | .... Co-extensive                 |
| समाचार-पत्र ....               | .... Newspaper                    |
| समाधान ....                    | .... Adjustment                   |
| समाधि शिला ....                | .... Tomb-stone                   |

|                               |      |                                     |
|-------------------------------|------|-------------------------------------|
| समान अभिप्राय                 | .... | Common intention                    |
| समान करना                     | .... | Conform                             |
| समाप्त करना                   | .... | Extinguish                          |
| समाप्त होना                   | .... | Cease, Expire                       |
| समाप्ति                       | .... | Extinction, Abatement               |
| समाप्ति योग्य                 | .... | Terminable                          |
| समीपस्थ                       | .... | Adjacent                            |
| समुद्री डकैती                 | .... | Piracy                              |
| सम्पत्ति                      | .... | Property                            |
| सम्पत्ति चिन्ह                | .... | Property mark                       |
| सम्पत्ति सम्बन्धी             | .... | Civil                               |
| सम्पत्ति सम्बन्धी न्यायालय    | .... | Civil Court                         |
| सम्पत्ति प्रवन्व सम्बन्धी वाद | .... | Administration Suit                 |
| सम्पत्ति-व्यवस्था             | .... | Administration                      |
| सम्पन्नता                     | .... | Solvency                            |
| सम्पन्न                       | .... | Solvent                             |
| सम्पादन                       | .... | Execution                           |
| सम्पादित                      | .... | Executed                            |
| सम्पूर्ण                      | .... | Whole                               |
| सम्पूरक                       | .... | Supplementary                       |
| संग्रदाय                      | .... | Class of persons, Sect<br>Community |
| सम्बद्ध                       | .... | Relevant                            |
| सम्बन्ध                       | .... | Relation                            |
| सम्बन्ध विच्छेद करना          | .... | Secede                              |
| सम्बन्धी                      | .... | Kin, Kinsman                        |

|                    |      |      |                                |
|--------------------|------|------|--------------------------------|
| सम्भावना           | .... | .... | Possibility                    |
| सम्भाव्य           | .... | .... | Probable                       |
| सम्भाव्य रूप में   |      | .... | Likely                         |
| सम्भ्रम            | .... | .... | Misapprehension                |
| सम्मिलित करना      |      | .... | Include, Embody                |
| सम्मिश्रण          | .... | .... | Amalgamation. Composi-<br>tion |
| सम्मेलन            | .... | .... | Meeting                        |
| सम्राट्            | .... | .... | Emperor                        |
| सर्व सम्मत         | .... | .... | Unanimous                      |
| सर्वोच्च न्यायालय  |      | .... | Supreme Court                  |
| सलज्जता            | .... | .... | Modesty                        |
| सशरीर उपस्थिति     |      | .... | Habeas corpus                  |
| सह-अपराधी          | .... | .... | Accomplice                     |
| सह-अभियुक्त        | .... | .... | Co-accused                     |
| सहकारी समिति       |      | .... | Co-operative society           |
| सहगामी             | .... | .... | Concurrent                     |
| सहजगोचर            | .... | .... | Conspicuous                    |
| सहपालनीय दण्डाज्ञा |      | .... | Concurrent sentence            |
| सह-प्रतिभू         | .... | .... | Co-surety                      |
| सहभागी             | .... | .... | Co-partner                     |
| सहमति              | .... | .... | Consent                        |
| सहवास              | .... | .... | <u>Co-habitation</u>           |
| सह-साझेदार         | .... | .... | Co-partners                    |
| सह-स्वामी          | .... | .... | Co-owners                      |
| सहानुभूति          | .... | .... | Sympathy                       |

|                    |      |      |                                     |
|--------------------|------|------|-------------------------------------|
| सहायक              | .... | .... | Subsidiary, Accessary,<br>Auxiliary |
| सहायता             | .... | .... | Relief                              |
| सहिष्णुता          | .... | .... | Forbearance                         |
| सत्र-न्यायालय      | .... | .... | Court of Session                    |
| सांकेतिक           | .... | .... | Constructive                        |
| साक्षी             | .... | .... | Witness                             |
| साक्ष्य-युक्त      | .... | .... | Attested                            |
| साक्ष्य            | .... | .... | Evidence                            |
| साख                | .... | .... | Credit, Goodwill                    |
| साझेदार            | .... | .... | Partner                             |
| साझेदारी           | .... | .... | Partnership                         |
| साथ साथ            | .... | .... | Simultaneous                        |
| साथी निर्वाहक....  | .... | .... | Co-executor                         |
| साधन               | .... | .... | Means                               |
| साधारण             | .... | .... | Simple, Usual, Normal,<br>Ordinary  |
| साधारण कारावास     | .... | .... | Simple imprisonment                 |
| साधारण बन्धक....   | .... | .... | Simple mortgage                     |
| साधारण मामला       | .... | .... | Summons case (Cr. P. C.)            |
| साध्य              | .... | .... | Practicable                         |
| सानुपात विभाजन     | .... | .... | Apportionment                       |
| सानुपातिक          | .... | .... | Ratable                             |
| सापराध अतिक्रम     | .... | .... | Criminal trespass                   |
| सापराध दुरुपयोग    | .... | .... | Criminal misappropriation           |
| सापराध बल प्रयोग   | .... | .... | Criminal force                      |
| सापराध भय प्रदर्शन | .... | .... | Criminal Intimidation               |

|                     |      |                             |
|---------------------|------|-----------------------------|
| सापराध विद्रोह      | .... | Criminal breach of trust    |
| सापराध षड्यंत्र     | .... | Criminal conspiracy         |
| सामर्थ्य            | .... | Capacity                    |
| सामयिक विधान        | .... | Ordinance                   |
| सामाजिक             | .... | Social                      |
| सामान्य             | .... | Common                      |
| साम्राज्य           | .... | Empire                      |
| साम्राज्यवाद        | .... | Imperialism                 |
| साम्प्रदायिक        | .... | Communal, Sectarian         |
| सार                 | .... | Digest                      |
| सार-वस्तु           | .... | Essence                     |
| सारांश              | .... | Substance, Abstract         |
| सारिणी              | .... | Table                       |
| सार्वजनिक           | .... | Public                      |
| सार्वजनिक गोचर भूमि | .... | Common pasture              |
| सार्वजनिक स्वत्व    | .... | Public right                |
| सार्वजनिक सूचना     | .... | Public notice               |
| सार्वभौम            | .... | Paramount                   |
| सावधानी             | .... | Precaution. Care            |
| साहस                | .... | Enterprise                  |
| साहित्यिक           | .... | Literacy                    |
| सिंचाई              | .... | Irrigation                  |
| सिद्ध               | .... | Proved                      |
| सिद्ध करना          | .... | Prove                       |
| सिद्धान्त           | .... | Doctrine, Principle, Tenets |
| सीमा                | .... | Limit, Boundary             |



|                     |  |
|---------------------|--|
| सीमित काल ....      | .... Limited period                        |
| सीमित दायित्व ....  | .... Limited liability                     |
| सीमित स्वामी ....   | .... Limited owner                         |
| सीमित हित ....      | .... Limited interest                      |
| सुज्ञाधिकार ....    | .... Easement                              |
| सुगम करना ....      | .... Facilitate                            |
| सुझाव ....          | .... Suggestion                            |
| सुधार ....          | .... Reform, Rectification,<br>Improvement |
| सुधारक ....         | .... Reformer                              |
| सुनवाई ....         | .... Hearing                               |
| सुनीति ....         | .... Equity                                |
| सुनीति-युक्त ....   | .... Equitable                             |
| सुरक्षा ....        | .... Safety                                |
| सुरक्षित ....       | .... Secure                                |
| सुलजा ....          | .... Decency                               |
| सुविधा ....         | .... Convenience. Advantage                |
| सुविधाजनक ....      | .... Convenient                            |
| सूचना-पत्र ....     | .... Notice                                |
| सूची ....           | .... List                                  |
| सूची में लिखना .... | .... Enlist                                |
| सूत्रक ....         | .... Mourning                              |
| सेब लगाना ....      | .... Houss breaking                        |
| सेवा-क्रम-सूची .... | .... Gradation list                        |
| सेवा निवृत्ति ....  | .... Retirement                            |
| सैनिक ....          | .... Military                              |

|                   |      |                                       |
|-------------------|------|---------------------------------------|
| सैनिक न्यायालय    | .... | Court Martial ✓                       |
| सौदा              | .... | Bargain                               |
| सौंपना            | .... | Commitment, Delegation                |
| स्तम्भ            | .... | Column                                |
| स्थगन             | .... | Abeyance, Adjournment                 |
| स्थगित करना       | .... | Postpone, Stay, Suspend               |
| स्थान             | .... | Place, Seat                           |
| स्थानान्तर        | .... | Transfer                              |
| स्थानापन्न        | .... | Substitute, Officiating               |
| स्थानीय           | .... | Local                                 |
| स्थानीय क्षेत्र   | .... | Local area                            |
| स्थापित करना      | .... | Institute, Establish                  |
| स्थायी निषेधाज्ञा | .... | Perpetual injunction                  |
| स्थायी समिति      | .... | Standing committee                    |
| स्थायी            | .... | Permanent                             |
| स्थावर            | .... | Immoveable                            |
| स्थिति            | .... | Situation, Stage, Status,<br>Position |
| स्थिरता           | .... | Tranquillity                          |
| स्पष्ट            | .... | Obvious, Explicit                     |
| स्पष्ट करना       | .... | Elucidate                             |
| स्पष्टीकरण        | .... | Explanation                           |
| स्पर्शजन्य        | .... | Con agious                            |
| स्पर्शनीय         | .... | Tangible                              |
| स्मरण-लेख         | .... | Memorandum                            |
| स्मरण-शक्ति       | .... | Memory                                |

|                     |      |      |                              |
|---------------------|------|------|------------------------------|
| स्मारक              | .... | .... | Memorial                     |
| स्मृति जागृत करना   |      | .... | Refreshing memory (Evi Act)  |
| स्वतन्त्र           | .... | .... | Free, Liberated, Independent |
| स्वतन्त्रता         | .... | .... | Independence, Liberty        |
| स्वत्व              | .... | .... | Right                        |
| स्वत्व-निर्णय-पत्र  |      | .... | Decree                       |
| स्वत्व-ज्ञापक-वाद   |      | .... | Declaratory suit             |
| स्वत्वाधिकार        | .... | .... | Title                        |
| स्वत्वाधिकार देना   |      | .... | Entitle                      |
| स्वत्वाधिकार-पत्र   |      | .... | Document of title            |
| स्वत्वार्पण-ग्रहीता |      | .... | Assignee                     |
| स्वभाव              | .... | .... | Habit, Disposition           |
| स्वभावतः            | .... | .... | Habitually                   |
| स्वयमेव             | .... | .... | Ipso-facto                   |
| स्वयं सिद्धि        | .... | .... | Axiom                        |
| स्वशासन             | .... | .... | Self Government              |
| स्वस्थ              | .... | .... | Sound, Healthy               |
| स्वस्थ बुद्धि       | .... | .... | Sane                         |
| स्वाजित             | .... | .... | Self acquired                |
| स्वाधिकरण (ग्रहण)   |      | .... | Assumption                   |
| स्वाधिकार-पत्र      | .... | .... | Title deeds                  |
| स्वाधीन रक्षा       | .... | .... | Private defence              |
| स्वामित्व सम्बन्धी  |      | .... | Proprietary                  |
| स्वामि भक्ति        | .... | .... | Fidelity                     |

|                       |      |      |                                 |
|-----------------------|------|------|---------------------------------|
| स्वामित्व             | .... | .... | Ownership                       |
| स्वामित्व-च्युत किसान |      | .... | Expropriatory tenant            |
| स्वामी                | .... | .... | Proprietor                      |
| स्वायत्त शासन         |      | .... | Autonomy                        |
| स्वास्थ्य             | .... | .... | Health                          |
| स्वास्थ्यकर स्थान     |      | .... | Sanatorium                      |
| स्वास्थ्य विभाग       |      | .... | Sanitary department             |
| स्वीकृति              | .... | .... | Sanction, Acceptance,<br>Assent |
| स्वीकार करना          |      | .... | Accede, Acknowledge             |
| स्वेच्छा से           | .... | .... | Arbitrary, Voluntarily          |
| स्त्री-धन             | .... | .... | Woman's property                |
| हठ करना               | .... | .... | Persist                         |
| हड़प करना             | .... | .... | Embezzle                        |
| हड़पना                | .... | .... | Embezzlement                    |
| हत्या                 | .... | .... | Murder                          |
| हवालागी               | .... | .... | Delivery                        |
| हस्तक्षेप             | .... | .... | Interfere                       |
| हस्तक्षेप अयोग्य      |      | .... | Non-cognizable                  |
| हस्तक्षेप करना        |      | .... | Intervene                       |
| हस्तक्षेप योग्य....   |      | .... | Cognizable                      |
| हस्तगत करना           |      | .... | Seize                           |
| हस्तलिपि              | .... | .... | Handwriting                     |
| हस्ताक्षर             | .... | .... | Signature                       |
| हस्तान्तर             | .... | .... | Transfer                        |
| हस्तान्तर कर्ता       |      | .... | Transferor                      |

|                         |      |   |
|-------------------------|------|---|
| हस्तान्तर करना          | .... | Convey  |
| हस्तान्तर ग्रहीता       | .... | Transferee                                      |
| हस्तान्तर-पत्र          | .... | Conveyance deed                                 |
| हस्तान्तर-योग्य         | .... | Transferable                                    |
| हाता                    | .... | Precincts                                       |
| हानिकर                  | .... | Prejudicial, Detrimental,<br>Injurious, Noxious |
| हानिकर उपद्रव           | .... | Mischief  |
| हानि-रक्षा ( निष्कृति ) | .... | Indemnity                                       |
| हानि                    | .... | Harm  |
| हाव-भाव                 | .... | Demeanour                                       |
| हित                     | .... | Interest  |
| हित-प्रतिनिधि           | .... | Representative in interest                      |
| हिताधिकारी              | .... | Beneficiary                                     |
| हिसा                    | .... | Violence  |
| होड़                    | .... | Bet   |
| हास                     | .... | Deterioration                                   |

---

---

---

दूसरा भाग

अंग्रेजी-हिन्दी

---

---

# शासन-शब्द-संग्रह

| अंग्रेजी             | हिन्दी                          |
|----------------------|---------------------------------|
| Abandon ..           | ... त्याग देना                  |
| Abatement ..         | .. समाप्ति                      |
| Abatement of suit .. | .. वाद-समाप्ति                  |
| Abduction ..         | .. भगा ले जाना                  |
| Abetment ..          | .. प्रोत्साहन                   |
| Abetter ..           | .. प्रोत्साहक                   |
| Abeyance ..          | .. स्थगन                        |
| Abortion ..          | .. गर्भपात                      |
| Above par ..         | .. सम-मूल्य से ऊपर              |
| Abrogation ...       | .. निरसन                        |
| Abscond ..           | .. भाग जाना                     |
| Absent ..            | .. अनुपस्थित                    |
| Absolute ..          | .. पूर्ण, अबाध                  |
| Absolve ...          | .. मुक्त करना                   |
| Abstinence ..        | .. विरति                        |
| Abstract ..          | .. सारांश                       |
| Abuttals ..          | .. चतुःसीमा                     |
| Accede ..            | .. स्वीकार करना                 |
| Acceptance ..        | .. स्वीकृति                     |
| Acceptor ..          | .. सकारनेवाला, स्वीकृत करनेवाला |
| Access ..            | .. पहुँच                        |

|                 |    |                 |
|-----------------|----|-----------------|
| Accessory ..    | .. | सहायक           |
| Accession ..    | .. | आरोहण, वृद्धि   |
| Accident ..     | .. | दुर्घटना, संयोग |
| Accidental ..   | .. | आकस्मिक         |
| Accomplice ..   | .. | सह-अपराधी       |
| Accordingly ..  | .. | तदनुसार         |
| Account ..      | .. | खाता            |
| Account book    | .. | बही-खाता        |
| Accrimination   | .. | दोषारोपण        |
| Accrue ..       | .. | उत्पन्न होना    |
| Accumulation    | .. | संचय            |
| Accumulated     | .. | संचित           |
| Accusation ..   | .. | अभियोग लगाना    |
| Accused ..      | .. | अभियुक्त        |
| Acknowledge     | .. | स्वीकार करना    |
| Acknowledgment  | .. | पावती, स्वीकृति |
| Acquiescence .. | .. | मौन-सम्मति      |
| Acquire ..      | .. | उपार्जित करना   |
| Acquisition ..  | .. | प्राप्ति        |
| Acquit ..       | .. | मुक्त करना      |
| Acquittal ..    | .. | मुक्ति          |
| Act ..          | .. | विधान, कार्य    |
| Acting ..       | .. | कारक            |
| Action ..       | .. | क्रियेवाही      |



|                           |    |  |
|---------------------------|----|--|
| Actionable ..             | .. | व्यवहार्य  |
| Actionable wrongs         | .. | व्यवहार्य हानियाँ                                |
| Active ..                 | .. | सक्रिय   |
| Actual ..                 | .. | वास्तविक   |
| Addition ..               | .. | विवरण  |
| Additional                | .. | अतिरिक्त   |
| Adduce                    | .. | प्रस्तुत करना                                    |
| Adequate ..               | .. | पर्याप्त   |
| Adjacent ..               | .. | समापस्थ, आसन्न                                   |
| Adjective law             | .. | पूरक राजनियम                                     |
| Adjoining ..              | .. | निकटवर्ती  |
| Adjourn ..                | .. | स्थगित करना                                      |
| Adjournment               | .. | स्थगन  |
| Adjudge ..                | .. | निर्णय करना                                      |
| Adjustment ..             | .. | समाधान   |
| Administer oath           | .. | शपथ देना   |
| Administration            | .. | शासन-प्रबन्ध, राज्य-प्रबन्ध,<br>सम्पत्ति-प्रबन्ध |
| Administration of justice |    | न्याय-दान<br>सम्पत्ति-प्रबन्ध-सम्बन्धी वाद       |
| Admissible ..             | .. | ग्राह्य  |
| Admission ..              | .. | अंगीकरण  |
| Admonition ..             | .. | चेतावनी  |
| Adoption ..               | .. | दत्तक ग्रहण                                      |
| Adult ..                  | .. | वयस्क  |
| Adulteration              | .. | मिलावट   |

|                    |    |                            |
|--------------------|----|----------------------------|
| <u>Adultery</u> .. | .. | व्यभिचार                   |
| Ad valorem         | .. | मूल्यानुसार                |
| Advance            | .. | आग्रिन                     |
| Advantage ..       | .. | सुविधा                     |
| Adverse ..         | .. | विरुद्ध                    |
| Adverse party      | .. | विरोधी पक्षकार             |
| Advertance ..      | .. | ध्यान                      |
| Advertise ..       | .. | विज्ञापन करना              |
| Advice ..          | .. | परामर्श                    |
| Affidavit ..       | .. | शपथ-पत्र                   |
| Affinity ..        | .. | जात्मीयता                  |
| Affirmative ..     | .. | स्वीकारात्मक               |
| Affirmation ..     | .. | धर्माधीन कथन, प्रतिज्ञा    |
| Array ..           | .. | लडाई-झगडा                  |
| After-sight ..     | .. | दर्शनोपरान्तीय             |
| Age                | .. | आयु, वय                    |
| Agenda ..          | .. | कार्य-क्रम                 |
| Agnate ..          | .. | सगोत्र, सन्तानोद्क, सपिण्ड |
| Aggravate ..       | .. | गुस्तर करना                |
| Aggregate ..       | .. | एकत्रित                    |
| Aggrieved ..       | .. | दुस्मित, अप्रसन्न          |
| Agitate ..         | .. | उत्तेजित करना              |
| Agreement ..       | .. | ठहराव, प्रतिज्ञापत्र       |
| Agriculturist..    | .. | किसान                      |
| Alien ..           | .. | विदेशी                     |

|                    |     |                  |
|--------------------|-----|------------------|
| Alienate ..        | ..  | स्वत्वार्पण      |
| Allegation ..      | ..  | कथन              |
| Allegiance ..      | ..  | निष्ठा           |
| Alliance .         | ..  | मित्रता          |
| Allowance ..       | ..  | उपवेतन           |
| Alloy ..           | ..  | मिश्रण           |
| Alternative ..     | ..  | वैकल्पिक         |
| Alluvion ..        | ..  | कछार             |
| Amalgamation       | ..  | सम्मिश्रण        |
| Ambassador         | ..  | राजदूत           |
| Ambiguous ..       | ..  | द्वयर्थक         |
| Amend ..           | ..  | संशोधित करना     |
| Amendment          | ..  | संशोधन           |
| Amnesty .          | ..  | राजक्षमा-घोषणा   |
| Amount ..          | ..  | परिमाण           |
| Analysis ..        | ..  | विश्लेषण         |
| Anarchy ..         | ..  | अराजकता          |
| Ancestor ..        | ..  | पूर्वज           |
| Ancestral property | ..  | पैत्रिक सम्पत्ति |
| Animus ..          | ... | प्रेरक भाव       |
| Annexation ..      | ... | एकीकरण, संयोजन   |
| Annotation ..      | ..  | टीका             |
| Annoy ..           | ..  | खिजाना           |
| Annoyance ..       | ..  | खीज, उद्वेजन     |
| Annual ..          | ..  | वार्षिक          |
| Annuity ..         | ..  | वार्षिक-वृत्ति   |

|                     |     |                  |
|---------------------|-----|------------------|
| Assumption          | ..  | स्वाधिकरण, ग्रहण |
| Asylum              | ..  | आश्रय-स्थान      |
| At par              | ..  | सम मूल्य पर      |
| At sight            | ..  | दर्शनी           |
| Attachment          | ... | आसेव             |
| Attempt             | ..  | चेष्टा           |
| Attested            | ..  | साक्ष्य युक्त    |
| Auditor             | ..  | आयव्यय-परीक्षक   |
| Author of the Trust | ..  | न्यास-निर्माता   |
| Authorised          | ..  | अधिकृत           |
| Authority           | ..  | सत्ता, अधिकार    |
| Autocracy           | ..  | एकतंत्र          |
| Autonomy            | ..  | स्वायत्त शासन    |
| Auxiliary           | ..  | सहायक            |
| Award               | ..  | पंच-निर्णय       |
| Axiom               | ..  | स्वयंसिद्धि      |
| Axis                | ..  | धुरी             |
| Bad debts           | ..  | बड़े खाते की रकम |
| Bail                | ..  | प्रतिभूति        |
| Bailable            | ..  | प्रतिभूति योग्य  |
| Bail-bond           | ..  | प्रतिभू-पत्र     |
| Bailee              | ..  | निक्षेप-ग्रहीता  |
| Bailment            | ..  | निक्षेप          |
| Bailor              | ..  | निक्षेपी         |
| Balance             | ..  | शेष              |
| Balance sheet       | ..  | आयव्यय-विवरणपत्र |

|                      |    |    |  |
|----------------------|----|----|--|
| Bale                 | .. | .. | गाँठ   |
| Ballot               | .. | .. | गुप्तमत-पत्र                                   |
| Ban                  | .. | .. | रोक  |
| Banker               | .. | .. | महाजन  |
| Bankrupt             | .. | .. | दिवालिया                                       |
| Bar                  | .. | .. | अभिभाषक-संघ                                    |
| Barred by limitation |    |    | अवधि-व्यधित                                    |
| Bargain              | .. | .  | सौदा   |
| Barter               | .. | .. | वस्तु-विनिमय                                   |
| Basis                | .. | .. | आधार   |
| Bastard              | .. | .. | जारज ✓   |
| Belief               | .. | .. | भरोसा  |
| Below par            | .. | .. | बट्टे से                                       |
| Bench                | .. | .. | न्यायाधीश-वग                                   |
| Beneficial           | .. | .. | लाभदायक, हितकर                                 |
| Beneficiary          | .. | .. | हिताधिकारी                                     |
| Benevolent           | .. | .. | लोकोपकारी                                      |
| Benefit              | .. | .. | लाभ, हित                                       |
| Bequeath             | .. | .. | उत्तरदान द्वारा देना<br>मृत्युपत्र द्वारा देना |
| Bequest              | .. | .. | उत्तरदान                                       |
| Bestiality           | .. | .. | पशु-मैथुन                                      |
| Bet                  | .. | .. | होड़   |
| Betrothal            | .. | .. | सगाई   |
| Bid                  | .. | .. | वोली लगाना                                     |
| Bigamy               | .. | .. | बहु विवाह                                      |

|                    |    |                                |
|--------------------|----|--------------------------------|
| Bill of exchange   | .. | बिल्ले, विनिमय-पत्र            |
| Binding            | .. | बद्ध                           |
| Birth              | .. | जन्म                           |
| Body corporate     | .. | अनात्मिक जन-संघ, संस्थापित संघ |
| Bona-fide          | .. | सहज संघ                        |
| Bond               | .. | अभिज्ञान, अज्ञान               |
| Bonus              | .. | अतिरिक्त लाभ, लाभ-वृद्धि       |
| Boundary           | .. | सीमा                           |
| Boundary pillar    | .. | सीमा-स्तम्भ                    |
| Branch             | .. | शाखा                           |
| Breach             | .. | भंग                            |
| Breach of contract | .. | अनुबन्ध-भंग                    |
| Breach of peace    | .. | अशान्ति-भंग                    |
| Breach of trust    | .. | विश्वास-भंग                    |
| Bribe              | .. | भुष्ट                          |
| Broker             | .. | ब्रोकर                         |
| Budget             | .. | अनुमान-पत्र                    |
| Burden             | .. | भार                            |
| Burden of proof    | .. | अभार-भार                       |
| Bureaucracy        | .. | अधिकारी-तन्त्र                 |
| Business           | .. | कार्य                          |
| Buyer              | .. | अधिग्रहणकर्ता                  |
| Bye-laws           | .. | अन्यविधान                      |
| By-election        | .. | अन्यनिर्वाचन                   |

|                    |    |                       |
|--------------------|----|-----------------------|
| Cabinet ..         | .. | मन्त्री-मण्डल         |
| Calculate .        | .. | गणना करना             |
| Cancellation       | .. | निरसन                 |
| Candidate ..       | .. | पदाभिलाषी             |
| Capacity ..        | .. | सामर्थ्य              |
| Capital ..         | .. | पूँजी                 |
| Capital punishment | .. | मृत्यु-दण्ड           |
| Capture ..         | .. | बन्दी करना            |
| Care ..            | .. | सावधानी               |
| Caricature .       | .. | व्यंगचित्र            |
| Carrier ..         | .. | वाहक                  |
| Case .             | .. | मामला, अभियोग, प्रकरण |
| Caste ..           | .. | जाति                  |
| Casting Vote       | .. | निर्णायक मत           |
| Casual ..          | .. | आकस्मिक               |
| Cashier ..         | .. | रोकड़िया              |
| Cattle lifting     | .. | पशु-अपहरण             |
| Cause ..           | .. | वाद                   |
| Cause of action    | .. | वाद-हेतु              |
| Census .           | .. | जनगणना                |
| Certificate .      | .. | प्रमाण-पत्र           |
| Certified ..       | .. | प्रमाणित              |
| Cease ..           | .. | समाप्ति होना          |
| Centralization     | .. | केन्द्रीकरण           |
| Cess .             | .. | कर, चुंगी             |
| Chairman ..        | .. | अध्यक्ष, सभापति       |

|                 |    |    |                                 |
|-----------------|----|----|---------------------------------|
| Challan         | .. | .. | प्रेषण                          |
| Challenge       | .. | .. | चुनौती                          |
| Champerty       | .. | .. | रुपया देकर मुकद्दमा बाजी करना   |
| Chance          | .. | .  | संयोग                           |
| Chapter         | .. | .. | अध्याय                          |
| Character       |    |    | चरित्र                          |
| Charge          | .  | .. | कार्यभार, भार, आरोप, लागत       |
| Charge holder   |    | .. | भार-धारक                        |
| Charge sheet    |    | .  | आरोप-पत्र, कार्य-भार-अर्पण-पत्र |
| Charitable      | .. | .. | धर्मादाय                        |
| Chart           | .  | .. | रेखा-चित्र                      |
| Charter         | .  | .. | अधिकार-पत्र                     |
| Cheating        | .. | .. | विसृष्टि-लेख                    |
| Chief Court     | .  | .. | प्रधान न्यायालय                 |
| Child           | .. | .. | बाल                             |
| Circular        | .. | .. | प्रसिद्धि-पत्र                  |
| Circumstance    |    | .  | परिस्थिति                       |
| Circumvention   |    | .. | प्रवञ्चना                       |
| Citizen         | .. | .. | नागरिक                          |
| Civil           | .. | .. | सम्पत्ति-सम्बन्धी               |
| Civil Court     | .. | .  | सम्पत्ति-सम्बन्धी न्यायालय      |
| Civil list      | .. | .. | अधिकारियों की सूची              |
| Claimant        | .. | .. | दावेदार                         |
| Class           | .. | .. | वर्ग                            |
| Class of person |    | .. | सम्प्रदाय                       |
| Classification  |    | .. | वर्गीकरण                        |



|                 |    |    |   |
|-----------------|----|----|---|
| Clause          | .. | .. | पद  |
| Client          | .. | .. | व्यवहारी                                    |
| Clog            | .  | .. | रोक   |
| Co-accused      | .. | .. | सह-अभियुक्त                                 |
| Code            | .. | .. | संग्रह                                      |
| Codicil         | .. | .. | उत्तर-पत्र का उपांग<br>मृत्यु-पत्र का उपांग |
| Coercion        | .. | .. | दबाव, उत्पीड़न                              |
| Co-executor     | .. | .. | सह-निर्वाहक                                 |
| Co-extensive    | .. | .. | सम-विस्तृत                                  |
| Cogent          | .. | .. | निश्चयात्मक                                 |
| Cognates        | .. | .. | भिन्नगोत्र सपिण्ड, वान्यव                   |
| Cognizable      | .. | .. | हस्तक्षेप-योग्य                             |
| Co-habitation   |    | .. | सहवास                                       |
| Coin            | .. | .. | मुद्रा                                      |
| Collateral      | .. | .. | आनुवंशिक                                    |
| Collection      | .. | .. | संचय  |
| Collusion       | .. | .. | कपट-मन्त्रणा                                |
| Collusive       | .. | .. | कपट-सन्धि-पूर्ण                             |
| Colony          | .. | .. | उपनिवेश                                     |
| Column          | .. | .. | स्तंभ                                       |
| Come into force |    | .. | प्रयोग में आना                              |
| Combustible     |    | .. | उ्वलनशील                                    |
| Commencement    |    | .. | प्रारम्भ                                    |
| Commentary      |    | .. | टीका, भाष्य                                 |
| Commission      |    | .. | आइत, कार्याधिकार                            |

|                       |    |                    |
|-----------------------|----|--------------------|
| Consanguine brothers  | .. | वैनात्रेय भाई      |
| Consanguinity         | .. | सगोत्रता           |
| Conscientious         | .. | विवेकयुक्त         |
| Consecutive           | .. | क्रमानुगत          |
| Consecutive sentences | .. | क्रमानुगत दृष्टांश |
| Consent               | .. | सहमति              |
| Consequential         | .. | परिणाममूल          |
| Consequential relief  | .. | परिणाममूल सहायता   |
| Consideration         | .. | प्रतिफल            |
| Consignee             | .. | गाल-ग्राही         |
| Consignor             | .. | प्रेषक             |
| Consignment           | .. | प्रेषित वस्तु      |
| Consistent            | .. | अनुरूप             |
| Consolidate           | .. | एकत्रित करना       |
| Consolidation         | .. | एकीकरण             |
| Conspicuous           | .. | सहज गोचर, स्पष्ट   |
| Conspiracy            | .. | षडयंत्र            |
| Constituency          | .. | निर्वाचन-क्षेत्र   |
| Constitution          | .. | राज्य-व्यवस्था     |
| Constructive          | .. | सक्रितिक           |
| Consume               | .. | उपभोग करना         |
| Consumer              | .. | उपभोक्ता           |
| Consumer society      | .. | उपभोक्ता समिति     |
| Contagious            | .. | स्पर्श-जन्य        |
| Contempt              | .. | अपमान              |
| Contest               | .. | प्रतिवाद करना      |

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Context .. ..              | प्रसंग                             |
| Contingency " ..           | संयोग                              |
| Contingent contract ..     | संयोगिक अनुबन्ध<br>सापेक्ष अनुबन्ध |
| Continuous .. ..           | अविरल                              |
| Contraband .. ..           | वर्जित                             |
| Contract . ..              | अनुबन्ध, ठेका                      |
| Contradict .. ..           | प्रतिवाद करना                      |
| Contrary .. ..             | विपरीत                             |
| Contravene .. ..           | उल्लंघन करना, तोड़ना               |
| Contribution .. ..         | अंशदान, भागदान                     |
| Contributor .. ..          | अंशदाता                            |
| Control .. ..              | नियन्त्रण                          |
| Controversy .. ..          | विवाद                              |
| Contused wound .. ..       | आन्तरिक आघात                       |
| Convene .. ..              | आयोजन करना                         |
| Convenience .. ..          | सुविधाएँ                           |
| Convenient .. ..           | सुविधाजनक                          |
| Convert .. ..              | परिवर्तन करना                      |
| Convey .. ..               | हस्तान्तर करना                     |
| Conveyance .. ..           | हस्तान्तर-पत्र                     |
| Convict .. ..              | अपराधी, अपराधी ठहराना              |
| Conviction .. ..           | अपराध-सिद्धि                       |
| Co-operative society .. .. | सहकारी समिति                       |
| Co-owners .. ..            | सह-स्वामी                          |
| Co-parceners .. ..         | सह-भागी                            |

|                        |    |                           |
|------------------------|----|---------------------------|
| Co-partners            | .. | सह-साझेदार                |
| Copy                   | .  | प्रतिलिपि                 |
| Copy right             | .. | प्रकाशनाधिकार             |
| Corpse                 | .. | शव                        |
| Correction slip        | .. | शुद्धि-पत्रक              |
| Correspondence         | .. | पत्र-व्यवहार              |
| Corroborate            | .. | समर्थन करना               |
| Corroborative evidence | .. | अनुमोदक साक्ष्य           |
| Corrupt                | .. | दूषित                     |
| Corrupt inducement     | .. | दूषित प्रलोभन             |
| Corrupt practice       | .. | दूषित व्यवहार             |
| Co-sharer              | .. | सह-भागी                   |
| Cost                   | .. | व्यय                      |
| Co-surety              | .. | सह-प्रतिभू                |
| Counterfeit            | .. | नकली                      |
| Counterfoil            | .. | दूसरी प्रति               |
| Counterpart            | .. | प्रतिलेख                  |
| Court                  | .. | न्यायालय                  |
| Court Martial          | .. | सैनिक-न्यायालय            |
| Court of arbitration   | .. | पञ्च-न्यायालय             |
| Court of session       | .. | सत्र-न्यायालय             |
| Court fee              | .. | न्याय शुल्क               |
| Course                 | .. | मार्ग                     |
| Cow-slaughter          | .. | गो-बध                     |
| Create                 | .. | उत्पन्न करना, सृष्टि करना |
| Creche                 | .. | शिशु-सदन                  |

|                                 |    |    |                          |
|---------------------------------|----|----|--------------------------|
| Credit                          | .. | .. | साख                      |
| Creditor                        | .. | .. | ऋण-दाता                  |
| Criminal                        | .. | .. | अपराध सम्बन्धी, अपराधी   |
| Criminal breach of trust        | .. | .. | सापराध विश्वासघात        |
| Criminal conspiracy             | .. | .. | सापराध षड्यन्त्र         |
| Criminal court                  | .. | .. | दण्ड न्यायालय            |
| Criminal force                  | .. | .. | सापराध बल-प्रयोग         |
| Criminal intimidation           | .. | .. | सापराध भय-प्रदर्शन, धमकी |
| Criminal mis-<br>appropriation. |    |    | सापराध दुरूपयोग          |
| Criminal trespass               | .. | .. | सापराध अतिक्रम           |
| Criminal tribe                  | .. | .. | अपराधशील जाति            |
| Cross-examination               | .. | .. | कूट-परीक्षण              |
| Cruelty                         | .. | .. | निर्दयता                 |
| Culpable homicide               | .. | .. | दण्डनीय नरहत्या          |
| Culprit                         | .. | .. | दोषी                     |
| Cultivation                     | .. | .. | कृषि                     |
| Cumulative                      | .. | .. | एकत्रित                  |
| Current                         | .. | .. | प्रचलित                  |
| Custody                         | .. | .. | निरोध, संरक्षण           |
| Custom                          | .. | .. | आचार                     |
| Customary easement              | .. | .. | लौकिक सुत्राधिकार        |
| Dacoit                          | .. | .. | डाकू                     |
| Dacoity                         | .. | .. | डकैती                    |
| Dairy                           | .. | .. | दुग्धशाला                |
| Damage                          | .. | .. | क्षति, हानि              |

|                  |     |                                       |
|------------------|-----|---------------------------------------|
| Damnify ..       | ..  | क्षति पहुँचाना                        |
| Danger .         | ..  | संकट, भय                              |
| Dangerous ..     | ..  | संकटजनक, भयप्रद                       |
| Data ..          | ..  | अंक, आधार                             |
| Daughter ..      | ..  | पुत्री                                |
| Dead-lock ...    | ..  | गति-अवरोध                             |
| Deadly ..        | ..  | घातक                                  |
| Dealings ..      | ..  | लेन-देन, व्यवहार                      |
| Death ..         | ..  | मृत्यु                                |
| Death sentence   | ..  | मृत्यु-दण्ड                           |
| Debar ..         | ..  | वंचित करना                            |
| Debenture ..     | ..  | दीर्घकालीन ऋण-पत्र                    |
| Debit ..         | ..  | नामे डालना                            |
| Debt ..          | ..  | ऋण                                    |
| Debtor ..        | ..  | ऋणी                                   |
| Debttor property | ... | देवस्थानी सम्पत्ति, देवोत्तर सम्पत्ति |
| Deceased ...     | ..  | मृत                                   |
| Deceit ..        | ..  | प्रवञ्चना                             |
| Decency ..       | ..  | सुलज्जा, शिष्टता                      |
| Decide ..        | ..  | निर्णय करना                           |
| Decision ..      | ..  | निर्णय                                |
| Declaration ...  | ..  | ज्ञापन                                |
| Declaratory suit | ..  | स्वत्वज्ञापक वाद                      |
| Decree ..        | ..  | डिक्री                                |
| Decree-holder    | ..  | डिक्रीधारी                            |
| Dedicate ..      | ..  | समर्पित करना                          |

|                |    |                           |
|----------------|----|---------------------------|
| Deduction ..   | .. | कमी                       |
| Deed ..        | .. | लिखतम, लेखपत्र            |
| Deem ..        | .. | समझना                     |
| De-facto ..    | .. | वास्तव में                |
| Defamation ..  | .. | मानहानि                   |
| Default ..     | .. | त्रुटि                    |
| Defeat ..      | .. | निष्फल करना               |
| Defect ..      | .. | दोष                       |
| Defective ..   | .. | दोष-पूर्ण                 |
| Defence ..     | .. | प्रतिकार, उत्तर, प्रतिवाद |
| Defend ..      | .. | प्रतिवाद करना             |
| Defendant ..   | .. | प्रतिवादी                 |
| Deference ..   | .. | आदर                       |
| Deferred ..    | .. | अग्रस्तुत स्त्री-शुल्क    |
| Defiance ..    | .. | अवज्ञा                    |
| Deficiency ..  | .. | कमी                       |
| Deficit ..     | .. | घटी, न्यूनता              |
| Definition ..  | .. | परिभाषा                   |
| Defraud ..     | .. | कपट करना                  |
| Degradation .. | .. | अवनति                     |
| Delay ..       | .. | विलम्ब                    |
| Delegation ..  | .. | सौंपना, प्रतिनिधित्व      |
| Deliberate ..  | .. | विचार पूर्ण               |
| Delirious ..   | .. | आन्तमति                   |
| Delivery ..    | .. | हवालगी                    |
| Demand ..      | .. | माँग                      |

|                    |     |                            |
|--------------------|-----|----------------------------|
| Demeanour ..       | ..  | हाव-भाव                    |
| Democracy ..       | ..  | प्रजातंत्र                 |
| Demolish ..        | .   | विध्वंस करना               |
| Demurrage .        | .   | विलम्ब-शुल्क               |
| Denial .           | ..  | अस्वीकृति                  |
| De-novo ..         | ... | आरम्भ से                   |
| Department ..      | ..  | विभाग                      |
| Departmental Order | .   | वैभागीक आज्ञा-पत्र         |
| Dependency         | ..  | अधीन राज्य                 |
| Dependent ..       | ..  | आश्रित                     |
| Deponent ..        | ..  | कथन करने वाला              |
| Deport ..          | ..  | निर्वासित करना             |
| Deposit ..         | ..  | धरोहर                      |
| Deposition ..      | ..  | कथन                        |
| Depressed ..       | .   | दलित                       |
| Deprive ..         | ..  | वंचित करना                 |
| Deputation ..      | ..  | प्रतिनिधि-वर्ग, शिष्ट-मंडल |
| Derive ..          | ..  | प्राप्त करना               |
| Descendent ..      | ..  | वंशज                       |
| Descent ..         | ..  | वंश                        |
| Description ..     | ..  | वर्णन, प्रकार              |
| Design ..          | ..  | उपाय, वनावट                |
| Designation ..     | .   | पद                         |
| Desire ..          | ..  | इच्छा                      |
| Despair ..         | ..  | नैराश्य                    |
| Despotism          | ..  | निरंकुश शासन               |



|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Destination ..   | .. निर्दिष्ट स्थान             |
| Destruction ..   | .. नाश                         |
| Destructive ..   | .. विनाशकारी                   |
| Detail ..        | .. व्यौरा, विस्तार             |
| Detain ..        | .. रोक रखना                    |
| Detect ..        | .. खोज निकालना                 |
| Deterioration .. | .. हास                         |
| Determinable ..  | .. निरूपण-योग्य, समाप्ति-योग्य |
| Determination .. | .. निरूपण, समाप्ति             |
| Deterrent ..     | .. निवारक                      |
| Detrimental ..   | .. हानिकारक                    |
| Devastation ..   | .. विनाश                       |
| Device ..        | .. युक्ति                      |
| Devolut on ..    | .. अवतरण                       |
| Diary ..         | .. दैनन्दिनी                   |
| Dictator ..      | .. एकाधिपति                    |
| Dictum ..        | .. मत-प्रदर्शन, सिद्धान्त      |
| Difference ..    | .. अन्तर, भेद                  |
| Digest ..        | .. सार                         |
| Diligence ..     | .. परिश्रम                     |
| Diplomacy ..     | .. कूटनीति                     |
| Direction ..     | .. निर्देश                     |
| Director ..      | .. संचालक                      |
| Directly ..      | .. प्रत्यक्ष रूप से            |
| Disability ..    | .. अयोग्यता                    |
| Disappoint ..    | .. निराश करना                  |

|                          |    |                           |
|--------------------------|----|---------------------------|
| Disarmament              | .. | निःशस्त्रीकरण             |
| Disburse                 | .. | बाँटना                    |
| Discharge                | .. | भार-मुक्ति, अलग करना      |
| Disciplinary             | .. | अनुशासनात्मक              |
| Disclaim                 | .. | अस्वीकार करना             |
| Disclosure               | .. | प्रकटीकरण                 |
| Discontent               | .. | असन्तोष                   |
| Discontinuous (Easement) |    | विरल, खण्डित              |
| Discount                 | .. | मितीकाटा, बट्टा           |
| Discover                 | .. | खोज निकालना               |
| Discretion               | .. | विवेक                     |
| Discretionary            | .. | विवेकाधीन                 |
| Discriminate             | .. | भेद करना                  |
| Discuss                  | .. | तर्क करना                 |
| Disfranchise             | .. | मतदाधिकार रहित करना       |
| Disgraceful              | .. | अपयशकारक                  |
| Dishonour                | .. | निरादर करना               |
| Disinherit               | .. | उत्तराधिकार से वंचित करना |
| Disintegration           | .. | विकरण                     |
| Dismiss                  | .. | पदच्युत करना              |
| Dismissal                | .. | पदच्युति                  |
| Disobedience             | .. | अवज्ञा                    |
| Disorder                 | .. | अव्यवस्था, अशान्ति        |
| Disperse                 | .. | तितर-वितर करना            |
| Disposal                 | .. | निराकरण                   |
| Disposition              | .. | स्वभाव, व्यवस्था          |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Disprove ..           | .. असत्य सिद्ध करना  |
| Dispute ..            | .. झगड़ा             |
| Disqualification ..   | .. अयोग्यता          |
| Disseminate ..        | .. प्रसार करना       |
| Dissent ..            | .. असहमति, भिन्नमत   |
| Dissolution ..        | .. विच्छेद, समाप्ति  |
| Distant kindred ..    | .. वान्धव            |
| Distress ..           | .. क्लेश             |
| Distribute ..         | .. वितरित करना       |
| Disturbance ..        | .. विघ्न, शान्ति-भंग |
| Dividends ..          | .. लाभांश            |
| Divine displeasure .. | .. दैवी प्रकोप       |
| Divine right ..       | .. ईश्वरदत्त स्वत्व  |
| Division ..           | .. विभाजन            |
| Divorce ..            | .. विवाह-विच्छेद     |
| Doctrine ..           | .. सिद्धान्त         |
| Document ..           | .. लिखतम             |
| Documentary ..        | .. लिखित             |
| Document of title ..  | .. स्वत्वाधिकार-पत्र |
| Dominant heritage ..  | .. प्रमुख स्थल       |
| Dominant owner ..     | .. प्रमुख स्वामी     |
| Donation ..           | .. दान               |
| Donee ..              | .. दान-ग्रहीता       |
| Donor ..              | .. दाता              |
| Doubtful debt ..      | .. संदिग्ध ऋण        |
| ✓Dowry ..             | .. दहेज              |

|                       |    |     |                               |
|-----------------------|----|-----|-------------------------------|
| Draft                 | .. | ..  | आलेख                          |
| Drain                 | .. | ..  | नाली                          |
| Due                   | .. | ..  | प्राप्य, लेना                 |
| Duly                  | .  | ..  | यथाविधि                       |
| Duration              | .  | ..  | अवधि                          |
| Duty                  | .. | ..  | कर्तव्य                       |
| Dying declaration     | .  | .   | मरते समय का कथन               |
| Dynamic               | .. | ..  | गतिशील                        |
| Earnest               | .. | ..  | वयाना                         |
| Easement              | .. | ..  | सुखाधिकार                     |
| Easement of necessity |    |     | आवश्यक सुखाधिकार              |
| Eaves                 | .. | ..  | ओलाती                         |
| Economics             | .  | ..  | अर्थशास्त्र                   |
| Economy               | .  |     | मितव्ययता                     |
| Edict                 | .. | .   | राजाज्ञा                      |
| Edition               | .  | .   | संस्करण                       |
| Educe                 | .. | ..  | निष्कर्ष निकालना              |
| Efface                | .. | .   | मिटाना                        |
| Effect                | .  | .   | प्रभाव                        |
| Effects               | .. | ..  | मालमत्ता                      |
| Efficient             | .  | ..  | दक्ष                          |
| Effigy                | .. | ..  | प्रतिमा                       |
| Effort                | .. | ..  | प्रयास                        |
| Egress                | .. | ... | निरगमन                        |
| Eject                 | .. | ..  | आधिपत्यच्युत करना, निकाल देना |
| Effectual             | .. | ..  | प्रभावशील                     |

|                          |    |                                    |
|--------------------------|----|------------------------------------|
| Elapse ..                | .. | व्यतीत होना                        |
| Elect ..                 | .. | निर्वाचन करना, चुनाव करना          |
| Election ..              | .. | निर्वाचन                           |
| Elector ..               | .. | निर्वाचक                           |
| Electoral Roll ..        | .. | निर्वाचक नामावली                   |
| Electricity ..           | .. | विद्युत                            |
| Elementary ..            | .. | प्रारम्भिक                         |
| Eligible ..              | .. | योग्य                              |
| Eligible for election .. | .. | निर्वाचन-योग्य                     |
| Eliminate ..             | .. | निकाल देना                         |
| Elopement ..             | .. | पर-छोी या पर-पुरुष के साथ भाग जाना |
| Elucidate ..             | .. | स्पष्ट करना                        |
| Elude ..                 | .. | बच निकलना                          |
| Emasculation ..          | .. | नपुंसक करना                        |
| Emancipation ..          | .. | मुक्ति                             |
| Embankment ..            | .. | बाँध                               |
| Embassy ..               | .. | राजदूतावास                         |
| Embarrass ..             | .. | उद्धिग्न करना, अडचन उत्पन्न करना   |
| Embezzle ..              | .. | हड़प करना                          |
| Embezzlement ..          | .. | हड़पना                             |
| Embody ..                | .. | सम्मिलित करना                      |
| Emergency ..             | .. | आकस्मिक आवश्यकता                   |
| Emigrate ..              | .. | प्रवास करना                        |
| Eminent ..               | .. | प्रख्यात                           |

|             |    |    |                            |
|-------------|----|----|----------------------------|
| Emotion     | .. | .. | भाववेश                     |
| Emperor     | .. | .. | सम्राट्                    |
| Empire      | .. | .. | साम्राज्य                  |
| Employ      | .. | .. | काम पर लगाना               |
| Employee    | .. | .. | काम करने वाला              |
| Employer    | .. | .. | काम पर लगाने वाला          |
| Employment  |    | .. | काम                        |
| Empower     | .. | .. | शक्ति देना                 |
| Enactment   | .. | .. | राजविधान                   |
| Enclosure   | .. | .. | संलग्न, घेरा               |
| Encourage   | .. | .. | उत्साहित करना              |
| Encroach    |    | .. | अतिक्रम करना               |
| Encumbrance |    | .. | ऋण-भार                     |
| Encumbered  | .. | .. | ऋण-गृस्त                   |
| Endeavour   | .. | .. | प्रयत्न                    |
| Endorse     | .. | .. | वेचान करना, हस्ताक्षर करना |
| Endorsement |    | .. | पृष्ठ-लेख, टिप्पणी         |
| Endowment   |    | .. | दान                        |
| Enforce     | .. | .. | लागू करना                  |
| Enemy       | .. | .. | शत्रु                      |
| Energy      | .. | .. | शक्ति                      |
| Enforceable | .. | .. | प्रयोगनीय, प्रवर्तनीय      |
| Enforcement |    | .. | प्रवर्तन                   |
| Enfranchise | .. | .. | मतधिकार देना               |
| Engage      | .. | .. | बद्ध करना                  |
| Engrave     | .. | .. | अंकित करना                 |

|                      |    |    |                         |
|----------------------|----|----|-------------------------|
| Enhance              | .. | .. | बढ़ाना                  |
| Enjoy                | .. | .. | उपभोग करना              |
| Enjoyment            | .. | .. | उपभोग                   |
| Enlist               | .. | .. | सूची में लिखना          |
| Enquiry              | .. | .. | जाँच                    |
| Enrolment            | .. | .. | प्रवेश                  |
| Ensnare              | .. | .. | बँटित होना              |
| Enmity               | .. | .. | शत्रुता                 |
| Enterprise           | .. | .. | साहस                    |
| Entertain            | .. | .. | अहण करना, मनोरंजन करना  |
| Entertainment tax    | .. | .. | मनोरंजन-कर              |
| Entice               | .. | .. | प्रलोभन देना            |
| Entitle              | .. | .. | स्वत्वाधिकार देना       |
| Entry                | .. | .. | प्रवेश, लेखा            |
| Epidemic             | .. | .. | संक्रामक रोग            |
| Equilibrium          | .. | .. | सन्तुलन                 |
| Equitable            | .. | .. | सुनीति युक्त            |
| Equity               | .. | .. | सुनीति                  |
| Equity of redemption | .. | .. | बन्धक-मोचनाधिकार        |
| Erase                | .. | .. | छीलना                   |
| Erect                | .. | .. | निर्माण करना            |
| Errata               | .. | .. | शुद्धि-पत्र             |
| Erroneously          | .. | .. | भूल से                  |
| Error                | .. | .. | भूल                     |
| Escape               | .. | .. | भाग निकलना              |
| Escheat              | .. | .. | उत्तराधिकारहीन सम्पत्ति |

|                      |     |     |                         |
|----------------------|-----|-----|-------------------------|
| Essence              | ..  | ..  | सार-वस्तु               |
| Essential            | ..  | ..  | आवश्यक                  |
| Establish            | ... | ..  | स्थापित करना            |
| Establishment        |     | ..  | कर्मचारी-वर्ग           |
| Estate               | ..  | ..  | भू-सम्पत्ति             |
| Estimate             | ..  | ..  | आँकना, आँक              |
| Estoppel             | ..  | ..  | भाषण-प्रतिरोध           |
| Etiquette            | ..  | ..  | शिष्टाचार               |
| Evacuate             | ..  | ..  | छोड़ जाना, खाली कर जाना |
| Evade                | ..  | ..  | टालमटोल करना            |
| Evict                | ..  | ..  | आधिपत्य-च्युत करना      |
| Evidence             | ..  | ..  | साक्ष्य                 |
| Evolution            | ... | ..  | विकास                   |
| Exact                | ..  | ..  | यथार्थ                  |
| Examination          |     | ..  | परीक्षण, परीक्षा        |
| Examination-in-chief |     | ..  | मुख्य-परीक्षण           |
| Example              | ..  | ..  | उदाहरण                  |
| Exceed               | ..  | ..  | बढ़ जाना                |
| Exception            | ..  | ..  | अपवाद                   |
| Excess               | ..  | ... | अधिकता                  |
| Exchange             | ..  | ..  | विनिमय                  |
| Excite               | ..  | ..  | उत्तेजित करना           |
| Exclusion            | ..  | ..  | वर्जन                   |
| Exclusive            | ..  | ..  | एकाकी                   |
| Ex-communicate       |     | ..  | बहिष्कृत करना           |
| Excuse               | ..  | ..  | क्षमा करना, बहाना       |



|               |    |                                  |
|---------------|----|----------------------------------|
| Excuse ..     | .. | व्याज, बहाना                     |
| Executed ..   | .. | सम्पादित, निर्वाहित              |
| Execution     |    | सम्पादन, प्रवर्तन                |
| Executioner   | .. | वधिक                             |
| Executive ..  | .. | प्रबन्धकारिणी                    |
| Executor ..   | .. | निर्वाहक (मृत्युलेख)<br>प्रवर्तक |
| Exemplary ..  | .. | उदाहरणीय                         |
| Exempt ..     | .. | मुक्त                            |
| Exercise ..   | .. | प्रयोग करना                      |
| Existence ..  | .. | अस्तित्व                         |
| Existing ..   | .. | विद्यमान                         |
| Ex-officio .. | .. | पद के अनुसार                     |
| Exonerate ..  | .. | भार हटाना                        |
| Exorbitant .. | .. | अत्यधिक                          |
| Ex-parte ..   | .. | एक-पक्षीय                        |
| Expect ..     | .. | आशा करना                         |
| Expedient ..  | .. | उचित                             |
| Expel ..      | .. | निकाल देना                       |
| Expenditure.. | .. | व्यय                             |
| Experience .. | .. | अनुभव                            |
| Expert ..     | .. | विशेषज्ञ                         |
| Expire ..     | .. | समाप्त होना                      |
| Explanation.. | .. | स्पष्टीकरण                       |

|                |     |                       |
|----------------|-----|-----------------------|
| Explicit ..    | ... | स्पष्ट                |
| Exploit ..     | ..  | शोषण करना             |
| Explosive ..   | ..  | विस्फोटक              |
| Export ..      | ..  | निर्यात करना          |
| Express ..     | ..  | व्यक्त                |
| Expropriatory  | ..  | स्वामित्व-च्युत       |
| Expulsion ..   | ..  | निष्कासन              |
| Extent ...     | ..  | विस्तार               |
| Extenuate ..   | ..  | कम करना               |
| Extinction ..  | ..  | समाप्ति               |
| Extinguish ..  | ..  | समाप्त करना           |
| Extortion ..   | ..  | बलात् ग्रहण           |
| Extract ..     | ..  | उद्धरण                |
| Extradition .. | ..  | अपराधी-समर्पण         |
| Extraordinary  | ..  | असाधारण               |
| Eye-witness    | ..  | प्रत्यक्षदर्शी साक्षी |
| Fabricate ...  | ..  | झूठा बनाना            |
| Facilitate ..  | ..  | सुगम करना             |
| Fact ..        | ..  | वटना                  |
| Fact in issue  | ..  | वाद हेतु वटना         |
| Factory ..     | ..  | कारखाना               |
| Factum valet   | ..  | रुढ़ि प्रतिपादित वटना |
| Failure ..     | ..  | असफलता                |
| Fair ..        | ..  | न्याय संगत            |
| Faith ..       | ..  | श्रद्धा               |
| Fallacy ..     | ..  | भ्रान्ति              |

|                    |    |                   |
|--------------------|----|-------------------|
| False ..           | .. | मिथ्या            |
| False entry ..     | .. | मिथ्या लेख        |
| False evidence     | .. | मिथ्या साक्ष्य    |
| False grand-father | .. | मात्रेय पितामह    |
| False grand-mother | .. | मात्रेय मातामही   |
| Falsification      | .. | मिथ्याकरण         |
| Family ..          | .. | परिवार            |
| Family pedigree    | .. | पारिवारिक वंशावली |
| Family usage       | .. | कुलाचार           |
| Famine ..          | .. | दुर्मिक्ष         |
| Farmer ..          | .. | किसान             |
| Fatal ..           | .. | घातक              |
| Fault ..           | .. | त्रुटि            |
| Favour ..          | .. | अनुकम्पा          |
| Federal ..         | .. | संवशासन सम्बन्धी  |
| Federation ..      | .. | संव               |
| Fee ..             | .. | शुल्क             |
| Feeling ..         | .. | भावना             |
| Felony ..          | .. | गुरुतर अपराध      |
| Fertile ..         | .. | उपजाऊ             |
| Ferocious ..       | .. | भयानक             |
| Fictitious ..      | .. | काल्पनिक          |
| Fidelity ..        | .. | स्वामिभक्ति       |
| Fiduciary ..       | .. | न्यासिक           |
| File ..            | .. | पत्र-संग्रह       |
| Figures ...        | .. | अंक               |

|                    |     |     |                           |
|--------------------|-----|-----|---------------------------|
| Final              | ..  | ..  | अन्तिम                    |
| Finance Department | ..  | ..  | अर्थ-विभाग                |
| Financial year     | ..  | ..  | कर्म संवत्सर              |
| Finding            | ... | ..  | निश्चय, निर्णय, निर्णीतमत |
| Fine               | ..  | ..  | अर्थ-दण्ड                 |
| Finger impression  | ..  | ..  | उंगलिओं की छाप            |
| First information  | ..  | ..  | प्रथम सूचना               |
| Fiscal             | ..  | ..  | आर्थिक                    |
| Fit                | ..  | ..  | उचित                      |
| Fix                | ..  | ..  | निश्चय करना               |
| Flaw               | ..  | ..  | दोष                       |
| Floating capital   | ..  | ..  | चल-पूँजी                  |
| Fluctuation        | ..  | ..  | उतार-चढ़ाव, घट-बढ़        |
| Foetus             | ..  | ..  | भ्रूण                     |
| Follow             | ..  | ..  | अनुसरण करना               |
| Forbearance        | ..  | ..  | सहिष्णुता                 |
| Forbidden          | ..  | ..  | वर्जित                    |
| Force              | ..  | ..  | वेग, बल                   |
| Foreclose          | ..  | ..  | मोचन-अधिकार लोप करना      |
| Foreclosure        | ..  | ..  | लोपन                      |
| Foreign            | ..  | ..  | पर-राष्ट्र                |
| Foresight          | ..  | ... | दूरदर्शिता                |
| Foreword           | ..  | ..  | प्राक्कथन                 |
| Forfeit            | ..  | ..  | राजसत्तु करना, अपहृत करना |
| Forfeiture         | ..  | ..  | राजसत्तुकरण, अपहृति       |
| Forge              | ..  | ..  | जाली बनाना                |

|                |    |                    |
|----------------|----|--------------------|
| Forgery ..     | .. | जालसाजी            |
| Form ..        | .. | रूप, आदर्श-पत्र    |
| Formalities .. | .. | वाह्य उपकरण, उपचार |
| Forthwith ..   | .. | तुरन्त             |
| Formation ..   | .. | गठन                |
| Foster brother | .. | धा भाई             |
| Fracture ..    | .. | अस्थिभंग           |
| Frame ..       | .. | निर्माण करना       |
| Franchise . .. | .. | मताधिकार           |
| Fraud ..       | .. | कपट                |
| Fraudulent ..  | .. | कपटमय              |
| Free ..        | .. | स्वतंत्र           |
| Frivolous ..   | .. | तुच्छ              |
| Fruitless ..   | .. | निष्फल             |
| Fulfil ..      | .. | पूरा करना          |
| Full Bench ..  | .. | पूर्ण न्यायालय     |
| Full brother.. | .. | सगा भाई            |
| Fund ..        | .. | कोष, निधि          |
| Fundamental    | .. | मौलिक              |
| Funeral ..     | .. | अत्येष्टि          |
| Furlough ..    | .. | दीर्घकालीन छुट्टी  |
| Furnish ..     | .. | प्रस्तुत करना      |
| Furniture ...  | .. | सामान              |
| Furtherance    | .. | अग्रसर करना        |
| Futile ..      | .. | व्यर्थ             |
| Future ..      | .. | भविष्य             |

|                 |     |    |                   |
|-----------------|-----|----|-------------------|
| Gain            | ..  | .. | लाभ               |
| Gambling        | ..  | .. | जुआ               |
| Gang            | ..  | .. | टोली, दल          |
| General         | ... | .. | व्यापक, सामान्य   |
| General meeting |     | .. | साधारण सभा        |
| Generality      | ..  | .. | व्यापकता          |
| Generation      | ..  | .. | पीढ़ी             |
| Genuine         | ..  | .. | अकृत्रिम, खरा     |
| Gesture         | :   | .. | संकेत             |
| Gift            | ..  | .. | भेंट, दान         |
| Godown          | ..  | .. | गोदाम             |
| Good behaviour  |     | .. | सदाचार            |
| Good conscience |     | .. | शुद्ध अन्तःकरण    |
| Good faith      | ..  | .. | सद्भाव            |
| Goods           | ..  | .. | माल               |
| Good-will       | ..  | .. | साख               |
| Government      |     | .. | शासन              |
| Gown            | ..  | .. | चोगा              |
| Grace           | ..  | .. | अनुग्रह           |
| Gradation list  |     | .. | क्रम-सूची         |
| Grade           | ..  | .. | श्रेणी            |
| Grand-daughter  |     | .. | पौत्री            |
| Grand-father    |     | .. | पितामह, मातामह    |
| Grand-mother    |     | .. | पितामही, मातामही  |
| Grand-son       | ..  | .. | पौत्र             |
| Grant           | ..  | .. | प्रदान करना, देना |

|                   |    |                                  |
|-------------------|----|----------------------------------|
| Gratification     | .. | परितोष                           |
| Gratuitous ...    | .. | निर्मूल्य                        |
| Gratuity ..       | .. | निवृत्ति पुरस्कार                |
| Grievance ..      | .. | दुख                              |
| Grave .           | .. | गम्भीर                           |
| Grievous hurt     | .  | गम्भीर चोट                       |
| Gross negligence  | .  | घोर असावधानी                     |
| Grounds ..        | .  | आधार                             |
| Guarantee ..      | .  | प्रतिभूति                        |
| Guardian ..       | .  | संरक्षक, पालक                    |
| Guardian-ad-litem |    | वादार्थ-संरक्षक                  |
| Guidance ..       | .  | पथ-प्रदर्शन                      |
| Guilty ..         | .  | अपराधी                           |
| Habeas corpus     | .  | सशरीर उपस्थिति                   |
| Habit ..          | .. | स्वभाव                           |
| Habitually ..     | .. | स्वभावतः                         |
| Habitual offender | .. | स्वाभाविक अपराधी                 |
| Hand-cuffed..     | .. | बद्धहस्त                         |
| Handwriting..     | .. | हस्तलिपि                         |
| Hang ..           | .. | फाँसी देना                       |
| Happen ..         | .. | संघटित होना                      |
| Harbour ..        | .. | प्रश्रय देना, शरण देना, पोताश्रय |
| Harm ..           | .. | हानि                             |
| Harmony ..        | .. | ऐक्य                             |
| Hatred ..         | .. | घृणा                             |
| Hazardous ..      | .. | संक्रटमय                         |

|                 |    |                   |
|-----------------|----|-------------------|
| Imminent ..     | .. | आसन्न             |
| Immoral ..      | .. | अनैतिक            |
| Immoveable ..   | .. | स्थावर, अचल       |
| Impartial ..    | .. | निष्पक्ष          |
| Impartiality .. | .. | निष्पक्षता        |
| Impartible ..   | .. | अविभाज्य          |
| Impeach ..      | .. | दोषारोपण करना     |
| Impediment      | .. | बाधा              |
| Impending ..    | .. | आसन्न             |
| Imperative ..   | .. | पालनीय            |
| Imperfect ..    | .. | अपूर्ण            |
| Imperialism ..  | .. | साम्राज्यवाद      |
| Impersonation   | .. | व्यक्तीकरण        |
| Impertinence ✓  | .. | धृष्टता           |
| Implement ..    | .. | उपकरण             |
| Implicit ..     | .. | निर्विवाद, समुचित |
| Implied ..      | .. | गर्भित, ध्वनित    |
| Importance ..   | .. | महत्त्व           |
| Import ..       | .. | आयात              |
| Impose ..       | .. | आरोपित करना       |
| Imposition ..   | .. | आरोपण             |
| Impossible ..   | .. | असम्भव            |
| Impotency ..    | .. | नपुंसकता          |
| Impound ..      | .. | राजसात् करना      |
| Impracticable   | .. | असाध्य            |
| Impress ..      | .. | हृदयंगम करना      |



|                 |    |                   |
|-----------------|----|-------------------|
| Impressed ..    | .. | चिन्हित           |
| Impression ..   | .. | छाप               |
| Imprisonment    | .. | कारावास           |
| Improbable ..   | .. | असंभाव्य          |
| Improper ..     | .. | अनुपयुक्त         |
| Improvement     | .. | सुधार             |
| Imputation ..   | .. | आरोपण, आरोप       |
| Imputed ..      | .. | आरोपित            |
| In lieu of ..   | .. | स्थान में         |
| In vogue ..     | .. | प्रचलित           |
| Inability ..    | .. | अयोग्यता          |
| Inadequate ..   | .. | अपर्याप्त         |
| Inadmissible..  | .. | अग्रह्य           |
| In addition to  | .. | अतिरिक्त          |
| Inadvertence    | .. | अनवधानता          |
| Inappropriate   | .. | अनुपयुक्त         |
| Inauguration    | .. | उद्घाटन           |
| Incapacity ..   | .. | अशक्तता, असमर्थता |
| Incentive ..    | .. | उत्तेजक           |
| Incidental ..   | .. | आनुषंगिक          |
| Incite ..       | .. | भड़काना           |
| Include ..      | .. | सम्मिलित करना     |
| Income ..       | .. | आय                |
| Income-tax ..   | .. | आय-कर             |
| Incompetent..   | .. | अक्षम, असमर्थ     |
| Inconsistent .. | .. | असंगत             |

|               |    |                            |
|---------------|----|----------------------------|
| Inconvenience | .. | असुविधा                    |
| Incorporate   | .. | प्रमाणित                   |
| Incorrect     | .. | अशुद्ध                     |
| Increase      | .. | वृद्धि                     |
| Increment     | .. | वृद्धि                     |
| Incredible    | .. | अविश्वसनीय                 |
| Incumbrance   | .. | ऋण-भार                     |
| Incumbrancer  | .. | ऋण-भार-कर्त्ता             |
| Indebted      | .. | ऋण-ग्रस्त                  |
| Indecent      | .. | अभद्र                      |
| Indefinite    | .. | अनिश्चित                   |
| Indemnity     | .. | हानिरक्षा, क्षतिपूर्ति     |
| Independence  | .. | स्वतन्त्रता                |
| Index         | .. | निर्देशक सूची              |
| Indifferent   | .. | उदासीन                     |
| Indignity     | .. | अनादर                      |
| Indirectly    | .. | अप्रत्यक्ष रूप से          |
| Indispensable | .. | अपरिहार्य                  |
| Indisputable. | .. | निर्विवाद                  |
| Individual    | .. | व्यक्ति                    |
| Individualism | .. | व्यक्तिवाद                 |
| Induce        | .. | प्रलोभन देना, प्रेरित करना |
| Inducement    | .. | प्रलोभन                    |
| Industrial    | .. | औद्योगिक                   |
| Industry      | .. | उद्योग                     |
| Inevitable    | .. | अनिवार्य                   |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Infancy ..         | शैशवावस्था           |
| Infanticide .      | शिशुहत्या            |
| Infection ..       | संसर्ग, संक्रमण      |
| Inference ..       | अनुमान               |
| Infirmity ..       | दुर्बलता             |
| Influence ..       | प्रभाव               |
| In force ..        | चालू                 |
| Information .      | जानकारी              |
| Informer .         | मेदिया               |
| Infringement ..    | उल्लंघन              |
| Ingredient .       | अवयव                 |
| Inhabitant ..      | निवासी               |
| Inherent ..        | सहवर्ती, अन्तर्निष्ट |
| Inherit ..         | उत्तराधिकार में पाना |
| In issue ..        | वाद हेतु             |
| Initiative .       | प्रेरणा              |
| Injunction ..      | निषेधाज्ञा           |
| Injunction suit .. | निषेधाज्ञा-वाद       |
| Injurious ..       | हानिकर               |
| Injury ..          | आघात, क्षति          |
| Injustice ..       | अन्याय               |
| Innocent ..        | निरपराध              |
| Inoperative ..     | प्रभावहीन            |
| Inquiry ..         | जाँच                 |
| Insane .           | पागल                 |

|                     |    |                 |
|---------------------|----|-----------------|
| Inscription . . .   | .. | लेख             |
| Insignificant . . . | .. | तुच्छ           |
| Insist . . .        | .. | आग्रह करना      |
| Insolvent . . .     | .. | दिवालिया        |
| Inspection . . .    | .. | निरीक्षण        |
| Instalment . . .    | .. | अंशिका          |
| Instance . . .      | .. | प्रेरणा, उदाहरण |
| Instigate . . .     | .  | उकसाना          |
| Instigator . . .    | .. | उत्तेजक         |
| Institute . . .     | .  | स्थापित करना    |
| Institution . . .   | .. | संस्था          |
| Instruct . . .      | .. | आदेश देना       |
| Instrument . . .    | .. | अधिकार-पत्र     |
| Instrument of trust | .  | न्यास-पत्र      |
| Insubordination     |    | अवज्ञा          |
| Insufficient . . .  | .. | अपर्याप्त       |
| Insult . . .        | .  | अपमान           |
| Insure . . .        | .. | बीमा करना       |
| Insurgent . . .     | .. | विद्रोही        |
| Insurrection        | .. | विद्रोह         |
| Intangible . . .    | .. | अस्पर्शनीय      |
| Intention . . .     | .. | अभिप्राय        |
| Intentionally       | .. | अभिप्राय पूर्वक |
| Intercept . . .     | .. | वाच में रोकना   |
| Intercourse . . .   | .. | संभोग           |
| Interest . . .      | .. | हित, व्याज      |

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Interference ..     | .. हस्तक्षेप                    |
| Interim .           | .. अन्तर्वर्ती                  |
| Interim order       | .. अन्तर्वर्ती आज्ञा            |
| Interlocutory       | .. मध्यवर्ती                    |
| Interlocutory order | .. मध्यवर्ती आज्ञा              |
| Intermediate        | .. मध्यवर्ती                    |
| International       | .. अन्तर्राष्ट्रीय              |
| Internal ..         | .. आन्तरिक                      |
| Interpellation      | .. प्रश्न                       |
| Interpleader-suit   | .. पारस्परिक विरोध सम्बन्धी वाद |
| Interpretation      | .. व्याख्या                     |
| Interpreter ..      | .. द्विभाषिया                   |
| Interrogatories     | .. लिखित प्रश्न                 |
| Interval ..         | .. मध्यान्तर                    |
| Intervene ..        | .. हस्तक्षेप करना               |
| Intestate ..        | .. उत्तरपत्र-हीन                |
| Intimation ..       | .. संज्ञापन, सूचना              |
| Intimidation..      | .. भय-प्रदर्शन                  |
| Intoxication..      | .. मादकता                       |
| Intrigue ..         | .. षड्यन्त्र                    |
| Introduce ..        | .. प्रस्तुत करना, परिचित करना   |
| Introduction..      | .. प्रस्तावना                   |
| Inundation ..       | .. बाढ़ आ जाना                  |
| Invasion ..         | .. आक्रमण                       |
| Invention ..        | .. आविष्कार                     |
| Inventory ..        | .. तालिका                       |

|                       |    |                            |
|-----------------------|----|----------------------------|
| Invest ..             | .. | निहित करना, व्याज पर लगाना |
| Investigation ..      | .. | अनुसन्धान                  |
| Investiture ..        | .. | अभिषेक                     |
| Invitation ..         | .. | निमंत्रण                   |
| Invoice ..            | .. | वोजक                       |
| Involve ..            | .. | सन्निहित होना              |
| Ipsso-facto ..        | .. | स्वयमेव, अपने आप           |
| Irrebutable ..        | .. | अखण्डनीय                   |
| Irregularity ..       | .. | अनियमितता                  |
| Irrelevant ..         | .. | असम्बद्ध                   |
| Irresistible ..       | .. | अप्रतिरोध                  |
| Irrevocable ..        | .. | अखण्डनीय                   |
| Irrigation ..         | .. | सिंचाई                     |
| Issue ..              | .. | वाद-हेतु                   |
| Issue of fact ..      | .. | घटना सम्बन्धी वाद-हेतु     |
| Jail ..               | .. | कारागृह                    |
| Joinder ..            | .. | संयोजन, समावेश             |
| Joinder of parties .. | .. | पक्षकार समावेश             |
| Joining leave ..      | .. | संघिकालिक छुट्टी           |
| Jointly ..            | .. | संयुक्त रूप से             |
| Joint family ..       | .. | संयुक्त परिवार             |
| Joint owners ..       | .. | संयुक्त स्वामी             |
| Judge ..              | .. | न्यायाधीश                  |
| Judgment ..           | .. | निर्णय                     |
| Judgment creditor ..  | .. | निर्णीत ऋणदाता             |
| Judgment debtor ..    | .. | निर्णीत ऋणी                |

|                 |    |                             |
|-----------------|----|-----------------------------|
| Judicial ..     | .. | न्याय सम्बन्धी              |
| Judicial notice | .. | न्याय-ग्राह्य सूचना         |
| Judiciary ..    | .. | न्यायाधिकरण                 |
| Jurisdiction .. | .. | अधिकार-क्षेत्र, विचाराधिकार |
| Jurisprudence   | .. | राजनियम-विज्ञान             |
| Just ..         | .. | न्याययुक्त                  |
| Justice .       | .. | न्याय                       |
| Justification . | .. | औचित्य                      |
| Justify         | .. | उचित सिद्ध करना             |
| Juvenile ..     | .. | किशोर                       |
| Kind ..         | .. | दयालु, प्रकार               |
| Kidnap          | .. | ले भागना                    |
| Kin ..          | .. | सम्बन्धी                    |
| Kinsman ..      | .. | सम्बन्धी, नातेदार           |
| Knowingly ..    | .. | जानबूझकर                    |
| Knowledge ..    | .. | ज्ञान                       |
| Labour ..       | .. | श्रम                        |
| Labourer ..     | .. | श्रमिक                      |
| Land ..         | .. | भूमि                        |
| Land-lord ..    | .. | भू-स्वामी                   |
| Land Revenue    | .. | भूमिकर                      |
| Language ..     | .. | भाषा                        |
| Lapse ..        | .. | व्यतीत हो जाना              |
| Latent ..       | .. | अप्रकट                      |
| Lateral support | .. | पार्श्विक सहारा             |
| Law ..          | .. | राजनियम                     |

|                         |    |                               |
|-------------------------|----|-------------------------------|
| Lawful ..               | .. | वैध, राजनियमानुसार, न्यायसंगत |
| Lawyer ..               | .. | राजनियमज्ञ                    |
| Leader ..               | .. | नेता                          |
| Leading question ..     | .. | बोधक प्रश्न                   |
| League of Nations ..    | .. | राष्ट्र-संघ                   |
| Lease ..                | .. | पट्टा                         |
| Legacy ..               | .. | उत्तरदान                      |
| Legal ..                | .. | वैध                           |
| Legal curator ..        | .. | वैध रक्षक                     |
| Legal practitioner ..   | .. | अभिभाषण व्यवसायी              |
| Legal representative .. | .. | वैध प्रतिनिधि                 |
| Legal tender ..         | .. | चालू मुद्रा                   |
| Legatee ..              | .. | उत्तरदान ग्रहीता              |
| Legator ..              | .. | उत्तरदान-कर्ता                |
| Legislation ..          | .. | व्यवस्थापन, विधान-निर्माण     |
| Legislature ..          | .. | व्यवस्थापक मण्डल              |
| Legitimate ..           | .. | औरस, वैध                      |
| Lessee ..               | .. | पट्टेदार                      |
| Lessor ..               | .. | पट्टादाता                     |
| Let ..                  | .. | किराये पर देना                |
| Letter ..               | .. | अक्षर, पत्र                   |
| Levy ..                 | .. | लगाना                         |
| Liability ..            | .. | दायित्व                       |
| Liable ..               | .. | भागी                          |
| Libel ..                | .. | निन्दात्मक लेख                |
| Libellous ..            | .. | निन्दात्मक                    |



|                   |    |    |                         |
|-------------------|----|----|-------------------------|
| Liberal           | .. | .. | उदार                    |
| Liberate          | .. | .. | मुक्त करना              |
| Liberty           | .. | .. | स्वतंत्रता, स्वाधीनता   |
| License           | .. | .. | अनुमति-पत्र             |
| Licensee          | .. | .. | अनुमति-पत्र-ग्रहीता     |
| Licenser          | .. | .. | अनुमति-पत्र-दाता        |
| Lien              | .. | .. | विशेषाधिकार, स्वत्व-भार |
| Lien on service   | .. | .. | सेवाधिकार               |
| Life              | .. | .. | जीवन                    |
| Life imprisonment | .. | .. | आजन्म कारावास           |
| Life interest..   | .. | .. | जीवन-हित                |
| Likely            | .. | .. | सम्भाव्य रूप से         |
| Limit             | .. | .. | सीमा                    |
| Limited interest  | .. | .. | सीमित हित               |
| Limited liability | .. | .. | सीमित दायित्व           |
| Limited owner     | .. | .. | सीमित स्वामी            |
| Limited period    | .. | .. | सीमित काल               |
| Liquidate         | .. | .. | परिशोध करना             |
| List              | .. | .. | सूची                    |
| Literal           | .. | .. | अक्षरशः                 |
| Literary          | .. | .. | साहित्यिक               |
| Lithography       | .. | .. | शिला-मुद्रण             |
| Livelihood        | .. | .. | आजीविका                 |
| Loan              | .. | .. | ऋण                      |
| Local             | .. | .. | स्थानीय                 |
| Local area        | .. | .. | स्थानीय-क्षेत्र         |

|                        |     |    |                     |
|------------------------|-----|----|---------------------|
| Lock-up                | ..  | .. | निरोधस्थान          |
| Lodge                  | ..  | .. | प्रस्तुत करना       |
| Loss                   | ..  | .. | घाटा                |
| Lot                    | ..  | .. | ढेर                 |
| Love                   | ..  | .. | प्रेम               |
| Loyal                  | ..  | .. | राज्य-भक्त, राजभक्त |
| Lucid                  | ..  | .. | स्वच्छ              |
| Lump-sum               | ..  | .. | बँधी रकम            |
| Lunacy                 | ..  | .. | पागलपन              |
| Lunatic asylum         | ..  | .. | पागलखाना            |
| Lurking house trespass | ..  | .. | छिपकर गृह-अतिक्रम   |
| Main                   | ..  | .. | मुख्य               |
| Maintenance            | ..  | .. | भरण-पोषण            |
| Maintenance suit       | ..  | .. | भरणपोषण-वाद         |
| Maintenance of peace   | ..  | .. | शान्ति-रक्षा        |
| Major                  | ..  | .. | वयस्क               |
| Majority               | ... | .. | बहुमत               |
| Mal-administration     | ..  | .. | कुप्रवन्ध           |
| Mala-fide              | ..  | .. | दुर्भाव             |
| Malice                 | ..  | .. | द्वेष               |
| Malignantly            | ..  | .. | द्वेष-भाव से        |
| Mal-practice           | ..  | .. | दुराचरण             |
| Mal-treatment          | ..  | .. | दुर्व्यवहार         |
| Management             | ..  | .. | प्रवन्ध             |
| Manager                | ..  | .. | प्रवन्धक            |
| Mandate                | ..  | .. | आदेश                |

|                           |    |                    |
|---------------------------|----|--------------------|
| Mandatory ..              | .. | आदेशात्मक          |
| Mania .                   | .  | सनक                |
| Manifesto                 | .  | नीति-घोषणा-पत्र    |
| Mankind ..                | .. | मनुष्य-जाति        |
| Manner ..                 | .. | रीति, प्रकार       |
| Manufacture..             | .. | वस्तुनिर्माण       |
| Manuscript ..             | .. | पाण्डुलिपि         |
| Mark ..                   | .. | चिन्ह              |
| Market value              | .. | बाजार-भाव          |
| Marriage ..               | .. | विवाह              |
| Material ..               | .. | महत्वपूर्ण, वस्तु  |
| Matrimonial               | .. | वैवाहिक            |
| Matter ..                 | .. | विषय               |
| Maturity ..               | .. | परिपक्वता          |
| Maximum ..                | .. | अधिकतम             |
| May presume               | .. | अनुमान कर सकना     |
| Means ..                  | .. | साधन               |
| Means of living           | .. | जीविका के साधन     |
| Measure ..                | .. | माप, उपाय          |
| Mechanical process        | .. | यान्त्रिक विधि     |
| Mediator ..               | .. | मध्यस्थ            |
| Medical officer           | .. | चिकित्सक पदाधिकारी |
| Meeting ..                | .. | सम्मेलन            |
| Member ..                 | .. | सदस्य              |
| Memorandum                | .. | स्मरण-लेख, टिप्पणी |
| Memorandum of Association |    | संघ-विधान-पत्र     |

|                  |    |                   |
|------------------|----|-------------------|
| Memorial ..      | .. | स्मारक            |
| Memory ..        | .. | स्मरणशक्ति        |
| Menial servant   | .. | निम्न सेवक        |
| Mental ..        | .. | मानसिक            |
| Mercy ..         | .. | दया               |
| Merger .         | .. | समन्वय            |
| Merits ..        | .. | गुण-दोष           |
| Mesne profits    | .. | अन्तर्भूत लाभ     |
| Message ..       | .. | सन्देश            |
| Military ..      | .. | सैनिक             |
| Method ..        | .. | पद्धति            |
| Migration ..     | .. | प्रवास            |
| Mind ..          | .. | मस्तिष्क          |
| Minimum ..       | .. | न्यूनतम, कम से कम |
| Minister ..      | .. | सचिव              |
| Minor ..         | .. | अवयस्क            |
| Minority ..      | .. | अवयस्कता, अल्पमत  |
| Mis-application  | .. | दुष्प्रयोग        |
| Misapprehension  | .. | संभ्रम            |
| Misappropriation | .. | दुरुपयोग          |
| Misbehaviour     | .. | दुर्व्यवहार       |
| Miscarriage ..   | .. | गर्भपात           |
| Miscellaneous    | .. | विविध             |
| Mischief ..      | .. | हानिकर उपद्रव     |
| Misconception    | .. | मिथ्याधारणा       |
| Misconduct .     | .. | दुराचरण           |

|                               |    |                                 |
|-------------------------------|----|---------------------------------|
| Misfortune ..                 | .. | दुर्भाग्य                       |
| Mis-joinder ..                | .. | अयुक्त-समावेश                   |
| Mislead ..                    | .. | मुलावा देना                     |
| Misrepresentation ..          | .. | भ्रान्तवर्णन                    |
| Mistake ..                    | .. | भूल, चूक                        |
| Misunderstanding ..           | .. | भ्रान्तधारणा                    |
| Model ..                      | .. | आदर्श                           |
| Modern ..                     | .. | आधुनिक                          |
| Modesty ..                    | .. | सलज्जता, शील                    |
| Modification ..               | .. | संशोधन, परिवर्तन                |
| Moiety ..                     | .. | अर्धभाग                         |
| Money suit ..                 | .. | धन-वाद                          |
| Monopoly ..                   | .. | एकाधिकार                        |
| Moral ..                      | .. | नैतिक                           |
| Mortgage ..                   | .. | बन्धक                           |
| Mortgage by conditional sale. |    | संप्रतिबन्ध विक्रय द्वारा बन्धक |
| Mortgage-debt ..              | .. | बन्धक-ऋण                        |
| Mortgage deed ..              | .. | बन्धक-पत्र                      |
| Mortgagee ..                  | .. | बन्धक-ग्रहीता                   |
| Mortgagor ..                  | .. | बन्धक कर्ता                     |
| Motion ..                     | .. | प्रस्ताव                        |
| Motive ..                     | .. | प्रयोजन                         |
| Mourning ..                   | .. | सूतक                            |
| Moveable ..                   | .. | जंगम, चल                        |
| Movement ..                   | .. | आन्दोलन                         |
| Multifarious ..               | .. | भिन्न-विषयक                     |

|                   |    |                      |
|-------------------|----|----------------------|
| Multiplicity ..   | .. | वाहुल्य              |
| Municipality ..   | .. | नगरसभा               |
| Murder ..         | .. | हत्या                |
| Mutation ..       | .. | नामान्तर करना        |
| Mutiny ..         | .. | विप्लव               |
| Mutual ..         | .. | पारस्परिक            |
| Mutually ..       | .. | पारस्परिक रूप से     |
| Named ..          | .. | नामांकित             |
| Nation ..         | .. | राष्ट्र              |
| National ..       | .. | राष्ट्रीय            |
| Native State..    | .. | देशी राज्य           |
| Natural ..        | .. | प्राकृतिक            |
| Nature ..         | .. | प्रकार, प्रकृति      |
| Naturalisation    | .. | देशीकरण              |
| Necessary ..      | .. | आवश्यक               |
| Nefarious ..      | .. | नीच, कण्टदायक        |
| Negative ..       | .. | नकारात्मक            |
| Negative easement | .. | निषेधात्मक सुखाधिकार |
| Negligence ..     | .. | असावधानी             |
| Negotiable ..     | .. | विनिमय साध्य         |
| Net profit ..     | .. | शुद्ध लाभ            |
| Neutral ..        | .. | तटस्थ                |
| Next-friend ..    | .. | वाद-प्रतिनिधि        |
| Newspaper ..      | .. | समाचार पत्र          |
| Noise ..          | .. | कोलाहल, चिल्लाहट     |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Nominate ..         | नियोजित करना      |
| Non-apparent .      | अप्रत्यक्ष        |
| Non-appearance ..   | अनुपस्थिति        |
| Non-bailable .      | प्रतिभूति-अयोग्य  |
| Non-cognizable .    | हस्तक्षेप-अयोग्य  |
| Non-compoundable    | समझौते के अयोग्य  |
| Non-joinder ..      | असंयोजन           |
| Non-official ..     | अशासकीय           |
| Non-testamentary .. | उत्तरपत्र भिन्न   |
| Normal ..           | साधारण            |
| Notary public .     | लेख-प्रमाणाधिकारी |
| Note ..             | टिप्पणी           |
| Notice .            | सूचना-पत्र, सूचना |
| Notification ..     | विज्ञप्ति         |
| Not proved ..       | असिद्ध            |
| Notorious ..        | कुप्रसिद्ध        |
| Noxious ..          | हानिकर            |
| Nuisance ..         | कष्टदायक बात      |
| Number ..           | संख्या            |
| Nurse ..            | परिवारिका, मातृका |
| Oath ..             | शपथ               |
| Obedience ..        | आज्ञापालन         |
| Object ..           | उद्देश्य, वस्तु   |
| Objection ..        | आपत्ति            |
| Objectionable ..    | आपत्तिजनक         |
| Obligation ..       | कर्तव्यता         |

|                     |    |                  |
|---------------------|----|------------------|
| Obligatory ..       | .. | पालनीय           |
| Obscene ..          | .. | अश्लील           |
| Obscure ..          | .. | अस्पष्ट          |
| Observation ..      | .. | पर्यवेक्षण       |
| Obsolete ..         | .. | अप्रचलित         |
| Obstacle ..         | .. | रुकावट           |
| Obstructed heritage | .. | संप्रतिबन्ध दाय  |
| Obstruction .       | .. | बाधा             |
| Obtainable .        | .. | प्राप्य          |
| Obvious ..          | .. | स्पष्ट           |
| Occasion ..         | .. | अवसर             |
| Occasional .        | .. | यदाकदा           |
| Occupancy ..        | .. | अधिवास           |
| Occupant            |    | अधिवासी          |
| Occupation .        | .. | व्यवसाय, आधिपत्य |
| Occur               | .. | घटित होना        |
| Occurrence ..       | .. | घटना             |
| Octroi ..           | .. | चुंगी            |
| Offence ..          | .. | अपराध            |
| Offender ..         | .. | अपराधी           |
| Offensive weapons   | .. | आक्रमण के हथियार |
| Offer ..            | .. | प्रस्ताव         |
| Office ..           | .. | पद, कार्यालय     |
| Officer ..          | .. | पदाधिकारी        |
| Official ..         | .. | शासकीय           |
| Officiating ..      | .. | स्थानापन्न       |



|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Omission ..       | चूक                 |
| Onerous ..        | .. भारयुक्त         |
| Onus ..           | . भार               |
| Operation ..      | . प्रयोग            |
| Opinion ..        | .. मत               |
| Opponent ..       | विरोधी              |
| Opposite party .. | .. प्रतिपक्षी       |
| Opportunity .     | . अवसर              |
| Optional .        | .. ऐच्छिक           |
| Oral .            | . मौखिक             |
| Oration ..        | . वक्तृता           |
| Order ..          | क्रम, आज्ञा, शान्ति |
| Ordinance .       | .. सामयिक विधान     |
| Ordinary ..       | .. साधारण           |
| Original ..       | . मूल               |
| Original side..   | . प्रारम्भिक वर्ग   |
| Orphan .          | .. अनाथ             |
| Ostensible ..     | .. प्रत्यक्ष        |
| Out-caste ..      | .. जातिच्युत        |
| Outcome ..        | .. परिणाम           |
| Out-law ..        | .. प्रसिद्ध-अपराधी  |
| Out-put ..        | .. उत्पादन          |
| Outrage ..        | .. अत्याचार         |
| Outstanding..     | .. शेष              |
| Overcome ..       | .. अभिभूत करना      |
| Over-rule ..      | .. उलट देना         |

|                    |    |                      |
|--------------------|----|----------------------|
| Overwhelming       | .. | प्रबल                |
| Owner              | .. | स्वामी               |
| Ownership          | .. | स्वामित्व            |
| Pact               | .. | सन्धि                |
| Painstaking        | .. | उद्यमी               |
| Pamphlet           | .. | पुस्तिका             |
| Panel              | .. | सम्मतिदाताओं की सूची |
| Panic              | .. | आतंक                 |
| Paragraph          | .. | चरण                  |
| Paramount          | .. | सार्वभौम             |
| Pardon             | .. | क्षमा                |
| Parental influence | .. | पैतृक प्रभाव         |
| Parole             | .. | अभिवचन               |
| Partial            | .. | पक्षपाती             |
| Partible           | .. | विभाज्य              |
| Participate        | .. | भाग लेना             |
| Particular         | .. | विशेष                |
| Particulars        | .. | विवरण                |
| Partition          | .. | विभाजन               |
| Partition deed     | .. | विभाग-पत्र           |
| Partition suit     | .. | विभाजन वाद           |
| Partner            | .. | साझेदार              |
| Partnership        | .. | साझेदारी             |
| Party              | .. | पक्षकार              |
| Pasturage          | .. | गोचर-भूमि            |
| Patent             | .. | प्रत्यक्ष            |

|                 |    |                         |
|-----------------|----|-------------------------|
| Patriotism ..   | .. | देशभक्ति                |
| Pauper ..       | .. | कंगाल, निर्धन           |
| Pawn .          | .. | गहना                    |
| Pawnee ..       | .. | गहना रखलेने वाला        |
| Pawnor ..       | .. | गहना रख देने वाला       |
| Payable ..      | .. | देय                     |
| Payment ..      | .. | चुकारा, भुगतान          |
| Peace ..        | .. | शान्ति                  |
| Peculiar .      | .. | विलक्षण                 |
| Pecuniary ..    | .. | अर्थसम्बन्धी            |
| Pedigree .      |    | वंशावली                 |
| Penal           | .. | दण्डसम्बन्धी            |
| Penal Code .    | .  | दण्ड-संग्रह             |
| Penal servitude | .  | सपरिश्रम कारादण्ड       |
| Penalty ..      | .. | दण्ड                    |
| Pendency ..     | .. | विचारकाल                |
| Pending ..      | .. | विचाराधीन               |
| Penetration ..  | .  | प्रवेश                  |
| Pension ..      | .  | निवृत्ति वेतन           |
| Perennial ..    | .  | निरन्तर                 |
| Perceive ..     | .. | अनुभव करना              |
| Perform ..      | .. | निष्पादन करना           |
| Performance     | .  | निष्पादन                |
| Periodical ..   | .. | नियत-कालिक              |
| Perishable ..   | .. | क्षयशील                 |
| Perjury ..      | .. | मिथ्या साक्ष्य, शपथ-भंग |

|                         |    |                   |
|-------------------------|----|-------------------|
| Permanent ..            | .. | स्थायी            |
| Permission ..           | .. | अनुमति            |
| Perpetual injunction .. | .. | स्थायी निषेधाज्ञा |
| Perpetuity ..           | .. | निरन्तरता         |
| Persist ..              | .. | हठ करना           |
| Person ..               | .. | व्यक्ति           |
| Personal ..             | .. | वैयक्तिक          |
| Personation ..          | .. | व्यक्तीकरण        |
| Per-stripes ..          | .. | शाखानुसार         |
| Persuade ..             | .. | फुसलाना           |
| Perusal ..              | .. | परिदर्शन          |
| Petition ..             | .. | प्रार्थना-पत्र    |
| Petitioner ..           | .. | प्रार्थी          |
| Physical ..             | .. | शारीरिक           |
| Picketing ..            | .. | धरना              |
| Piracy ..               | .. | समुद्री डकैती     |
| Place ..                | .. | स्थान             |
| Plaint ..               | .. | वाद-पत्र          |
| Plaintiff ..            | .. | वादी              |
| Plea ..                 | .. | तर्क              |
| Plead ..                | .. | पक्ष-समर्थन       |
| Pleader ..              | .. | अभिभाषक, वकील     |
| Pleadings ..            | .. | पक्ष-निवेदन       |
| Pledge ..               | .. | गहना              |
| Pledgee ..              | .. | गहना रख लेने वाला |

|                               |    |                              |
|-------------------------------|----|------------------------------|
| Pledger . . .                 | .. | गहना रख देने वाला            |
| Plot . . .                    | .. | षड्यंत्र                     |
| Point . . .                   | .. | विषय                         |
| Police station . . .          | .. | थाना                         |
| Policy . . .                  | .. | नीति                         |
| Political . . .               | .. | राजनैतिक                     |
| Poll . . .                    | .. | मतगणना                       |
| Polling Officer . . .         | .. | मताधिकारी                    |
| Polygamy . . .                | .. | बहु-विवाह                    |
| Popular . . .                 | .. | लोकप्रिय                     |
| Position . . .                | .. | स्थिति                       |
| Positive easement . . .       | .. | विधेयात्मक सुखाधिकार         |
| Possession . . .              | .. | आधिपत्य                      |
| Possibility . . .             | .. | सम्भावना                     |
| Post-mortem-examination . . . | .. | शव-परीक्षा                   |
| Posterior . . .               | .. | उत्तरकालीन                   |
| Posterity . . .               | .. | सन्तति                       |
| Posthumous . . .              | .. | मरणोपरान्त                   |
| Postpone . . .                | .. | स्थगित करना                  |
| Power . . .                   | .. | शक्ति                        |
| Power-of-attorney . . .       | .. | प्रतिनिधि-पत्र, अभिभाषण-पत्र |
| Practicable . . .             | .. | साध्य                        |
| Practical . . .               | .. | व्यवहारिक                    |
| Practice . . .                | .. | अभ्यास                       |
| Pray . . .                    | .. | प्रार्थना करना               |

|                     |    |                      |
|---------------------|----|----------------------|
| Preamble ..         | .. | प्रस्तावना           |
| Precaution ..       | .. | सावधानी              |
| Precedent ..        | .. | पूर्ववर्ती दृष्टान्त |
| Precincts ..        | .. | हाता                 |
| Predecessor ..      | .. | पूर्वज               |
| Pre-emption ..      | .. | अग्रक्रयाधिकार       |
| Preface ..          | .. | आमुख, प्रस्तावना     |
| Preference ..       | .. | अग्रमान्यता          |
| Pregnant ..         | .. | गर्भवती              |
| Prejudicial ..      | .. | हानिकर               |
| Preliminary ..      | .. | प्रारम्भिक           |
| Premature ..        | .. | अपरिपक्व             |
| Premier ..          | .. | प्रधानमंत्री         |
| Premises ..         | .. | भवन                  |
| Preparation ..      | .. | आयोजन, उपक्रम        |
| Prerogative ..      | .. | विशेषाधिकार          |
| Prescribe ..        | .. | नियत करना            |
| Prescriptive rights | .. | उपभोग जन्य स्वत्व    |
| Present ..          | .. | वर्तमान, उपस्थित     |
| Preservation        | .. | संरक्षण              |
| President ..        | .. | सभापति               |
| Pressure ..         | .. | दबाव                 |
| Prestige ..         | .. | प्रतिष्ठा            |
| Presumption ..      | .. | अनुमान               |
| Prevalent ..        | .. | प्रचलित              |
| Prevention ..       | .. | रोक                  |

|                   |    |                                  |
|-------------------|----|----------------------------------|
| Preventive        | .. | रोधात्मक                         |
| Preventive relief | .. | रोधात्मक सहायता                  |
| Previous          | .. | पूर्व                            |
| Price             | .. | भाव, मूल्य                       |
| Prima-facie       | .. | प्रथम दृष्टि में                 |
| Primary           | .. | प्रधान, प्रारम्भिक               |
| Primary evidence  | .. | प्रधान साक्ष्य                   |
| Primitive tribe   | .  | प्राचीन जाति                     |
| Primo-genitor     | .  | ज्येष्ठाधिकार                    |
| Principal         | .. | नियोक्ता, मूलधन                  |
| Principal debtor  | .. | मूल ऋणी                          |
| Principle         | .  | सिद्धान्त                        |
| Print             | .  | छापना                            |
| Prior             | .  | अग्रिम                           |
| Priority          | .. | अग्रिमता, अग्रधिकार, अग्रमान्यता |
| Prison            | .. | कारागृह                          |
| Prisoner          | .. | बन्दी                            |
| Privacy           | .. | एकान्तता                         |
| Private defence   | .. | स्वाधीन रक्षा                    |
| Privilege leave   | .  | ऐच्छिक छुट्टी                    |
| Privy purse       | .. | शासक का निजी शोध, राजहार         |
| Probable          | .. | सम्भाव्य                         |
| Probate           | .  | प्रमाणित उत्तर-पत्र              |
| Probationally     | .. | परीक्षा के रूप में               |
| Procedure         | .. | विधि                             |
| Proceed           | .. | अग्रसर होना                      |

|                    |    |                       |
|--------------------|----|-----------------------|
| Proceeding ..      | .. | कार्यवाही             |
| Proceeds ..        | .. | आय                    |
| Process ..         | .. | आज्ञा-पत्र            |
| Process fee ..     | .. | आज्ञापत्र शुल्क       |
| Proclaimed ..      | .. | विज्ञप्त              |
| Proclamation       | .. | उद्घोषणा              |
| Procure ..         | .. | प्राप्त करना          |
| Produce ..         | .. | उत्पन्न               |
| Producer ..        | .. | उत्पादक               |
| Producer's society | .. | उत्पादकों की समिति    |
| Production ..      | .. | प्रस्तुति             |
| Profession ..      | .. | व्यवसाय, धन्धा        |
| Proficiency ..     | .. | प्रवीणता              |
| Profit ..          | .. | लाभ                   |
| Pro-forma ..       | .. | क्रमिक                |
| Prohibit ..        | .. | निषेध करना            |
| Prohibition ..     | .. | निषेध                 |
| Prohibitory ..     | .. | निषेधात्मक            |
| Promise ..         | .. | वचन                   |
| Promisee ..        | .. | वचन ग्रहीता           |
| Promisor ..        | .. | वचन-दाता              |
| Promissory note    | .. | वचन-पत्र              |
| Promoter           |    | संस्थापक              |
| Promotion ..       | .. | उन्नति, वृद्धि        |
| Prompt dower       | .. | प्रस्तुत स्त्री-शुल्क |
| Promulgate ..      | .. | प्रकाशित करना         |



|                   |    |                    |
|-------------------|----|--------------------|
| Pronouncement     | .. | घोषणा              |
| Proof             | .. | प्रमाण             |
| Propaganda        | .. | प्रचार             |
| Proper            | .. | उपयुक्त            |
| Property          | .. | सम्पत्ति           |
| Property mark     | .. | सम्पत्ति-चिन्ह     |
| Proportion        | .. | अनुपात             |
| Proportionate     | .. | आनुपातिक           |
| Proposal          | .. | प्रस्ताव           |
| Proposer          | .. | प्रस्तावक          |
| Proprietor        | .. | स्वामी             |
| Proprietary       | .. | स्वामित्व सम्बन्धी |
| Prosecute         | .. | अभियोग चलाना       |
| Prosecution       | .. | अभियोग-पक्ष        |
| Prospective       | .. | प्रत्याशित         |
| <u>Prostitute</u> | .. | वेद्या, रूपाजीवा   |
| Provident fund    | .. | भावी-प्रसंग-कोष    |
| Prove             | .. | सिद्ध करना         |
| Proved            | .. | सिद्ध              |
| Provision         | .. | आदेश               |
| Proviso           | .. | प्रतिबन्ध          |
| Provocation       | .. | क्रोधावेश          |
| Provident         | .. | समझदार             |
| Proxy             | .. | प्रतिनिधि          |
| Puberty           | .. | वयस्काल            |
| Public            | .. | सार्वजनिक          |

|                  |    |                         |
|------------------|----|-------------------------|
| Public notice    | .. | सार्वजनिक सूचना         |
| Public right ..  | .. | सार्वजनिक स्वत्व        |
| Public servant   | .. | शासकीय सेवक             |
| Publication ..   | .. | प्रकाशन                 |
| Publisher ..     | .. | प्रकाशक                 |
| Punishable ..    | .. | दण्डनीय                 |
| Punishment ..    | .. | दण्ड                    |
| Punitive ..      | .. | दण्डात्मक               |
| Purchase money   | .. | क्रय-धन                 |
| Purpose ..       | .. | आशय, अभिप्राय           |
| Pursuance ..     | .. | अनुसरण                  |
| Qualification .. | .. | योग्यता                 |
| Quality ..       | .. | गुण                     |
| Qualified ..     | .. | योग्य, अपेक्षित         |
| Quantity ..      | .. | परिमाण                  |
| Quarantine ..    | .. | संसर्ग-प्रतिनिषेध-स्थान |
| Quarrel ..       | .. | लड़ाई झगडा              |
| Quash ..         | .. | खण्डित करना             |
| Quasi contract   | .. | आभासित अनुबन्ध          |
| Quasi easement   | .. | आभासित सुखाधिकार        |
| Question ..      | .. | प्रश्न                  |
| Quorum ..        | .. | वाहक संख्या             |
| Race ..          | .. | वंश, जाति               |
| Rank ..          | .. | श्रेणी                  |
| Rape ..          | .. | बलात्कार                |
| Rare ..          | .. | दुष्प्राप्य             |

|                   |    |    |                          |
|-------------------|----|----|--------------------------|
| Rashly            | .. | .. | अन्वाधुन्य               |
| Ratable           | .. | .. | सानुपातिक                |
| Rate              | .. | .. | दर                       |
| Rate-payer        | .. | .. | कर-दाता                  |
| Ratification      | .. | .. | अनुमोदन                  |
| Ratio             | .. | .. | अनुपात                   |
| Rational          | .. | .. | युक्तिसंगत               |
| Ravish            | .. | .. | बलात्कार करना            |
| Reaction          | .. | .. | प्रतिक्रिया              |
| Ready             | .. | .. | उद्यत                    |
| Real              | .. | .. | वास्तविक                 |
| Realize           | .. | .. | उगाहना                   |
| Reasonable        | .. | .. | यथोचित                   |
| Reason to believe |    | .. | भरोसा करने का कारण       |
| Rebel             | .. | .. | विद्रोही                 |
| Rebut             | .. | .. | संश्लेषण करना            |
| Rebuttal          | .. | .. | संश्लेषण                 |
| Receipt           | .. | .. | पावती                    |
| Receiver          | .. | .. | प्रतिग्राहक, परवित्तयोजक |
| Recent            | .. | .. | नूतन                     |
| Reciprocal        | .. | .. | पारस्परिक                |
| Recital           | .. | .. | उद्धरण                   |
| Reclaim           | .. | .. | सुधारना                  |
| Recognizance      |    | .. | प्रतिज्ञा-पत्र           |
| Recognized        | .. | .. | स्वीकृत, मान्य           |
| Recognized Agent  |    | .. | स्वीकृत प्रतिनिधि        |

|                   |    |                                       |
|-------------------|----|---------------------------------------|
| Recommend..       | .. | प्रशंसा करना                          |
| Record ..         | .. | लेख्य-संग्रह                          |
| Record of rights  | .. | स्वत्व-सूची, खेवट                     |
| Recover ..        | .. | उगाहना                                |
| Recovery ..       | .. | उगाही, पुनःप्राप्ति                   |
| Rectification..   | .. | सुधार, परिशोधन                        |
| Redeem ..         | .. | बंधक-मोचन                             |
| Redeemable ..     | .. | मोचन-योग्य                            |
| Redemption ..     | .. | मोचन                                  |
| Re-examination    | .. | पुनर्परीक्षण                          |
| Refer ..          | .. | व्यवस्था माँगना                       |
| Reference ..      | .. | व्यवस्था-हेतु प्रार्थना               |
| Reform ..         | .. | सुधार                                 |
| Reformatory       | .. | वाल सुधार गृह                         |
| Reformer ..       | .. | सुधारक                                |
| Refrain ..        | .. | विरत रहना                             |
| Refreshing memory | .. | स्मृति-जागृत करना                     |
| Refund ..         | .. | प्रत्यर्पण                            |
| Refuse ..         | .. | मना करना                              |
| Register ..       | .. | सूची-पुस्तक, राजपुस्तक                |
| Registered ..     | .. | रजिस्ट्री किया हुआ,<br>राजपुस्तकांकित |
| Registrable ..    | .. | राजपुस्तकांकन योग्य                   |
| Registrar ..      | .. | राजपुस्तकांकनाधिकारी                  |
| Registration..    | .. | रजिस्ट्री, राजपुस्तकांकन              |
| Regular ..        | .. | नियमित, व्यवस्थित                     |

|                |    |                                      |
|----------------|----|--------------------------------------|
| Regulate ..    | .. | नियमन करना                           |
| Regulations .. | .. | प्रबन्ध-नियम                         |
| Reimbursement  | .. | भरपाई, प्रतिदान                      |
| Reinstate ..   | .. | पुनः स्थापित करना                    |
| Reject ..      | .. | अस्वीकार करना                        |
| Rejection ..   | .. | अस्वीकृति                            |
| Relation ..    | .. | सम्बन्ध                              |
| Release ..     | .. | छुटकारा                              |
| Relevant ..    | .. | सम्बद्ध                              |
| Reliable ..    | .. | विश्वसनीय                            |
| Relief ..      | .. | सहायता                               |
| Religious ..   | .. | धार्मिक                              |
| Relinquish ..  | .. | छोड़ देना                            |
| Remaining ..   | .. | अवशिष्ट                              |
| Remand ..      | .. | पुनः प्रेषण, लौटाना                  |
| Remark ..      | .. | टिप्पणी                              |
| Remedy ..      | .. | उपाय                                 |
| Remission ..   | .. | छूट                                  |
| Remote ..      | .. | दूरस्थ                               |
| Remuneration   | .. | पारिश्रमिक                           |
| Renewal ..     | .. | नवीन-करण                             |
| Renunciation   | .. | सन्यास, त्याग                        |
| Rent ..        | .. | कर, भाड़ा, लगान                      |
| Repair ..      | .. | मरम्मत करना                          |
| Reparian owner | .. | निचले किनारे पर स्थित भूमि का स्वामी |

|                             |    |                         |
|-----------------------------|----|-------------------------|
| Repeal ..                   | .. | निरस्त करना             |
| Reply ..                    | .. | उत्तर                   |
| Report ..                   | .. | रिपोर्ट, निवेदन         |
| Representative ..           | .. | प्रतिनिधि               |
| Representative in interest. |    | हित-प्रतिनिधि           |
| Reprimand ..                | .. | भर्त्सना देना           |
| Repugnant ..                | .. | विरुद्ध                 |
| Reputation ..               | .. | ख्याति                  |
| Request ..                  | .. | प्रार्थना               |
| Requirement ..              | .. | आवश्यकता                |
| Requisition ..              | .. | माँग                    |
| Recession ..                | .. | निरसन                   |
| Rescue ..                   | .. | छुड़ाना                 |
| Reserved fund ..            | .. | रक्षित कोष              |
| Reserved forest ..          | .. | संरक्षित वन             |
| Reservoir ..                | .. | जलाशय                   |
| Research ..                 | .. | शोध                     |
| Residence ..                | .. | निवास स्थान             |
| Resident ..                 | .. | निवासी                  |
| Residuary ..                | .. | अवशिष्ट भोक्ता          |
| Residuary legatee ..        | .. | निःशेष उत्तरदान-ग्रहीता |
| Resignation ..              | .. | त्याग-पत्र              |
| Resistence ..               | .. | प्रतिरोध                |
| Res-judicata ..             | .. | पूर्व-निर्णीत           |
| Resolution ..               | .. | ठहराव                   |
| Resort ..                   | .. | आश्रय लेना              |

|                                 |    |                                |
|---------------------------------|----|--------------------------------|
| Resource Society                | .. | साधन-पूरक समा                  |
| Respectable                     | .. | प्रतिष्ठित                     |
| Respectively ..                 | .. | यथाक्रम                        |
| Responsibility                  | .. | उत्तरदायित्व                   |
| Restitution ..                  | .. | पुनःस्थापन                     |
| Restitution of conjugal rights. |    | वैवाहिक स्वत्व-स्थापन          |
| Restoration ..                  | .. | पुनःस्थापन                     |
| Restraint ..                    | .. | रोक                            |
| Restrictions ..                 | .. | बन्धन                          |
| Result ..                       | .. | परिणाम, फल                     |
| Resume ..                       | .. | पुनःग्रहण करना                 |
| Retail sale ..                  | .. | खेरीज विक्रय                   |
| Retaining fee                   | .. | बयाना                          |
| Retirement ..                   | .. | सेवा-निवृत्त होना, सेवा-मुक्ति |
| Retrenchment                    | .. | छटनी                           |
| Returns ..                      | .. | विवरण-पत्र                     |
| Returning officer               | .. | निर्वाचन पदाधिकारी             |
| Revenue ..                      | .. | राजस्व                         |
| Revenue Court                   | .. | राजस्व न्यायालय                |
| Reversal ..                     | .. | पलट देना                       |
| Reversioner ..                  | .. | भावी उत्तराधिकारी              |
| Review ..                       | .. | पुनर्विचार                     |
| Revision ..                     | .. | पुनरवलोकन                      |
| Revival ..                      | .. | पुनर्जीवन                      |
| Revocable ..                    | .. | रद्दनीय                        |

|                          |    |                                       |
|--------------------------|----|---------------------------------------|
| Revocation ..            | .. | खण्डन                                 |
| Revoke ..                | .. | खण्डित करना                           |
| Revolt ..                | .. | उपद्रव                                |
| Revolution ..            | .. | क्रान्ति                              |
| Reward ..                | .. | पारितोषिक ✓                           |
| Right ..                 | .. | स्वत्व                                |
| Rigorous ..              | .. | सपरिश्रम                              |
| Rigorous imprisonment .. | .. | सपरिश्रम कारावास                      |
| Ring leader ..           | .. | मुखिया                                |
| Riot ..                  | .. | दंगा                                  |
| Risk ..                  | .. | जोखम                                  |
| Robber ..                | .. | लुटेरा                                |
| Roll call ..             | .. | उपस्थिति पत्रक                        |
| Royalty ..               | .. | राजवंश                                |
| Robbery ..               | .. | छटमार                                 |
| Rules ..                 | .. | नियम                                  |
| Ruling ..                | .. | निर्धारित सिद्धान्त, निर्धारित निर्णय |
| Rural ..                 | .. | ग्राम्य                               |
| Rural uplift ..          | .. | ग्रामोद्धार                           |
| Sacred ..                | .. | पवित्र                                |
| Sacrifice ..             | .. | बलिदान, त्याग                         |
| Safeguard ..             | .. | संरक्षण                               |
| Safety ..                | .. | सुरक्षा                               |
| Salary ..                | .. | वेतन                                  |
| Sale ..                  | .. | विक्रय                                |
| Sale deed ..             | .. | विक्रय-पत्र                           |



|                     |    |    |                             |
|---------------------|----|----|-----------------------------|
| Salvation           | .. | .. | मोक्ष                       |
| Sample              | .. | .. | वानगी                       |
| Sanatorium          | .. | .. | स्वास्थ्यकर स्थान           |
| Sanction            | .. | .. | स्वीकृति व्यवहार-शक्ति      |
| Sane                | .. | .. | स्वस्थ बुद्धि               |
| Sanitary Department | .. | .. | स्वास्थ्य विभाग             |
| Satisfaction        | .. | .. | परिशोध, भरोसा               |
| Scandalous          | .. | .. | निन्द्य                     |
| Scarcity            | .. | .. | दुष्काल, कमी                |
| Sceptre             | .. | .. | राजदण्ड                     |
| Schedule            | .. | .. | परिशिष्ट                    |
| Scheme              | .. | .. | योजना                       |
| Scope               | .. | .. | विस्तार                     |
| Scribe              | .. | .. | लेखक                        |
| Script              | .. | .. | लिपि                        |
| Scrutiny            | .. | .. | पर्यवेक्षण                  |
| Seal                | .. | .. | मुद्रा                      |
| Search              | .. | .. | अन्वेषण                     |
| Secede              | .. | .. | सम्बन्ध विच्छेद करना        |
| Seat                | .. | .. | स्थान                       |
| Secondary evidence  | .. | .. | गौण साक्ष्य                 |
| Seconder            | .. | .. | अनुमोदक                     |
| Secret              | .. | .. | मंत्र, गुप्त, छिपा          |
| Secretary           | .. | .. | मंत्री                      |
| Section             | .. | .. | धारा, विभाग                 |
| Secure              | .. | .. | सुरक्षित करना, प्राप्त करना |

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Secured ..           | .. सुरक्षित                   |
| Security ..          | .. प्रबलपति, पैसा             |
| Sedition ..          | .. राजद्रोह                   |
| Seduce ..            | .. उकसाना                     |
| Seize ..             | .. हस्तगत करना                |
| <u>Selection</u> ..  | .. चुनाव                      |
| Self-acquired ..     | .. स्वयंप्रिप्त, स्वयंप्रिप्त |
| Self-control ..      | .. बल-संयम                    |
| Self defence ..      | .. आत्मरक्षा                  |
| Seller ..            | .. विक्रेता                   |
| Sensational ..       | .. आश्चर्यकारी                |
| Sense ..             | .. ज्ञान                      |
| Sentence ..          | .. दण्डना                     |
| Sentimental ..       | .. सज्जद                      |
| Separate ..          | .. अलग                        |
| Separate property .. | .. विभक्त सम्पत्ति            |
| Separation ..        | .. वियोग                      |
| Series ..            | .. शृंखला                     |
| Serious ..           | .. गम्भीर                     |
| Service ..           | .. निवाह, सेवा                |
| Servient heritage .. | .. अधीनस्थ स्थल               |
| Sessions Court ..    | .. सत्र न्यायालय              |
| Set aside ..         | .. विरल करना                  |
| Settlement ..        | .. निश्चय                     |
| Settlement deed ..   | .. व्यवस्थापनपत्र             |

|                        |    |                    |
|------------------------|----|--------------------|
| Severally ..           | .. | प्रथक् प्रथक्      |
| Severance ..           | .. | प्रथकत्व           |
| Sexual intercourse ..  | .. | मैथुन              |
| Shall presume ..       | .. | अनुमान करेगा       |
| Share ..               | .. | अंश, भाग, हिस्सा   |
| Share holder ..        | .. | अंशधारी, हिस्सेदार |
| Sharer ..              | .. | अंशभागी            |
| Sign ..                | .. | चिन्ह              |
| Signature ..           | .. | हस्ताक्षर          |
| Significant ..         | .. | अर्थपूर्ण, :       |
| Silence ..             | .. | मौन                |
| Simple ..              | .. | साधारण             |
| Simple imprisonment .. | .. | साधारण का          |
| Simple mortgage ..     | .. | साधारण बन्धक       |
| Sinking fund ..        | .. | विमोचक कोष         |
| Sitting ..             | .. | बैठक               |
| Situation ..           | .. | स्थिति             |
| Sketch ..              | .. | रेखा चित्र         |
| Skilful ..             | .. | चतुर               |
| Skill ..               | .. | कौशल               |
| Slaughter house ..     | .. | बध-गृह             |
| Slave ..               | .. | दास                |
| Smuggling ..           | .. | चोरी से लाना       |
| Social ..              | .. | सामाजिक            |
| Sodomy ..              | .. | गुदा-मैथुन         |
| Solemn affirmation ..  | .. | प्रतिज्ञा          |

|                       |    |                  |
|-----------------------|----|------------------|
| Solvency ..           | .. | सम्पन्नता        |
| Solvent ..            | .. | सम्पन्न          |
| Sound ..              | .. | स्वस्थ           |
| Specific relief ..    | .. | निर्दिष्ट सहायता |
| Spectator ..          | .. | दर्शक            |
| Speculation ..        | .. | फाटका            |
| Speech ..             | .. | भाषण             |
| Spiritual ..          | .. | आध्यात्मिक       |
| Spot ..               | .. | बटना स्थल        |
| Spy ..                | .. | गुप्तचर          |
| Staff ..              | .. | कर्मचारीगण       |
| Stage ..              | .. | स्थिति           |
| Standard ..           | .. | माप              |
| Standing committee .. | .. | स्थायी समिति     |
| State ..              | .. | राज्य            |
| Statement ..          | .. | कथन, लेखा, विवरण |
| State prisoner ..     | .. | राजदन्दी         |
| Statesman ..          | .. | राजनीतिज्ञ       |
| Status ..             | .. | स्थिति           |
| Stay ..               | .. | स्थगित करना      |
| Step brother ..       | .. | सौतेला भाई       |
| Stipend ..            | .. | वृत्ति           |
| Stipulation ..        | .. | प्रतिबन्धन       |
| Stolen property ..    | .. | चोरी की सम्पत्ति |
| Structure ..          | .. | ढांचा            |
| Style ..              | .. | शैली             |

|                   |    |                         |
|-------------------|----|-------------------------|
| Sub-committee     | .. | उप-समिति                |
| Subject committee | .. | विषय निर्धारिणी-समिति   |
| Subject matter    | .. | विषय वस्तु              |
| Sub-judice        | .. | विचाराधीन               |
| Sub-lease         | .. | उप पट्टा                |
| Submit            | .. | प्रस्तुत करना           |
| Subordinate       | .. | अधीनस्थ                 |
| Subrogation       | .. | प्रतिस्थापन             |
| Sub-section       | .. | उपधारा                  |
| Subsequent        | .. | परवर्ती                 |
| Subsidiary        | .. | सहायक                   |
| Subsistence       | .. | निर्वाह                 |
| Substance         | .. | सारांश                  |
| Substantial       | .. | वास्तविक                |
| Substantive       | .. | मौलिक                   |
| Substantive law   | .. | मूल राजनियम             |
| Substitute        | .. | स्थानापन्न              |
| Suburb            | .. | उप-नगर                  |
| Successively      | .. | क्रमानुसार              |
| Successor         | .. | स्थानापन्न उत्तराधिकारी |
| Sudden            | .. | अचानक                   |
| Sue               | .. | वाद प्रस्तुत करना       |
| Sufficient        | .. | पर्याप्त                |
| Suffrage          | .. | मताधिकार                |
| Suggestion        | .. | सुझाव                   |
| Suicide           | .. | आत्महत्या               |

|                            |    |    |                             |
|----------------------------|----|----|-----------------------------|
| Suit                       | .. | .. | वाद                         |
| Suit for accounts          |    | .. | गणन-वाद                     |
| Suit for damages           |    | .. | क्षतिपूर्ति-वाद             |
| Suit for ejectment         |    | .. | निष्कासन-वाद                |
| Suit for foreclosure       |    | .. | बंधक-मोचन-निषेध-वाद         |
| Suit for injunction        |    | .. | निषेधाज्ञा-वाद              |
| Suit for mesne profits     | .. | .. | अन्तर्भूत लाभ सम्बन्धी वाद  |
| Suit for redemption        | .. | .. | बन्धक-मोचन-वाद              |
| Suit for informa pauperis. |    | .. | निर्धन-निर्धारण-वाद         |
| Summary trial              |    | .. | संक्षिप्त विचार             |
| Summons                    | .. | .. | आह्वान-पत्र                 |
| Summons case               |    | .. | साधारण मामला                |
| Superintend                |    | .. | परिदर्शन करना, देख रेख रखना |
| Superior                   | .. | .. | वरिष्ठ                      |
| Supersede                  | .. | .. | खण्डन करना                  |
| Supplementary              |    | .. | सम्पूरक                     |
| Supply                     | .. | .. | पूर्ति करना                 |
| Support                    | .. | .. | समर्थन, टेका, आधार          |
| Supposition..              |    | .. | कल्पना                      |
| Suppress                   | .. | .. | दमन करना                    |
| Supreme Court              |    | .. | सर्वोच्च न्यायालय           |
| Surplus                    | .. | .. | वृद्धि, अतिरिक्त            |
| Surety                     | .. | .. | प्रतिभू                     |
| Surgeon                    | .. | .. | शस्त्र चिकित्सक             |
| Surrender                  | .. | .. | आत्म समर्पण                 |

|                |    |                         |
|----------------|----|-------------------------|
| Surveyor ..    | .. | क्षेत्र-मापक            |
| Survivor ..    | .. | उत्तर-जीवी              |
| Suspect ..     | .. | सन्देह करना             |
| Suspected ..   | .. | संदिग्ध                 |
| Suspend ..     | .. | स्थगित करना             |
| Swear ..       | .. | शपथ लेना                |
| Sympathy ..    | .. | सहानुभूति               |
| Symptom ..     | .. | लक्षण                   |
| System ..      | .. | प्रणाली                 |
| Table ..       | .. | सारिणी                  |
| Tacking ..     | .. | बन्धक संयोजन            |
| Tangible ..    | .. | स्पर्शनीय               |
| Tantamount ..  | .. | तुल्य                   |
| Tariff ..      | .. | यातायात कर              |
| Tax ..         | .. | कर                      |
| Technical ..   | .. | पारिभाषिक               |
| Temperature .. | .. | तापमान                  |
| Temporary ..   | .. | अस्थायी                 |
| Tenant ..      | .. | आसामी, भूमिधारक         |
| Tendency ..    | .. | प्रवृत्ति               |
| Tender ..      | .. | प्रस्ताव-पत्र-प्रस्तुति |
| T-nets ..      | .. | सिद्धान्त               |
| Tentative ..   | .. | प्रयोगात्मक             |
| Term ..        | .. | अवधि                    |
| Terms ..       | .. | निर्वन्ध                |
| Terminable ..  | .. | समाप्त योग्य            |

|                |    |                                       |
|----------------|----|---------------------------------------|
| Term of office | .. | कार्य-काल                             |
| Territorial    | .. | प्रादेशिक                             |
| Testament      | .. | मृत्यु-पत्र, उत्तर-पत्र               |
| Testator       | .. | उत्तर-पत्र-कर्ता<br>मृत्यु-पत्र-कर्ता |
| Theft          | .. | चोरी                                  |
| Thief          | .. | चोर                                   |
| Threat         | .. | घमकी                                  |
| Threaten       | .. | घमकी देना                             |
| Title          | .. | स्वत्वाधिकार                          |
| Title deeds    | .. | स्वत्वाधिकार-पत्र                     |
| Titles         | .. | उपाधियाँ                              |
| Token          | .. | चिन्ह                                 |
| Tomb-stone     | .. | समाधि-शिला                            |
| Tout           | .. | न्याय-दलाल                            |
| Trade Mark     | .. | व्यापार-चिन्ह                         |
| Tradition      | .. | परम्परा                               |
| Traitor        | .. | देश-द्रोही                            |
| Tranquillity   | .. | स्थिरता, शान्ति                       |
| Transaction    | .. | व्यवहार                               |
| Transfer       | .. | हस्तान्तर                             |
| Transferable   | .. | हस्तान्तर-योग्य                       |
| Transferee     | .. | हस्तान्तर-ग्रहीता                     |
| Transferer     | .. | हस्तान्तर-कर्ता                       |
| Translator     | .. | अनुवादक                               |



|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Transportation       | निर्वासन        |
| Travelling Allowance | भत्ता           |
| Treason ..           | राजद्रोह        |
| Treasure             | कोष             |
| Treasure trove       | भू-निहित धन     |
| Treaty .             | सन्धि           |
| Trespass .           | अतिक्रम         |
| Trial .              | विचार           |
| Truce .              | क्षणिक-सन्धि    |
| True copy ..         | सच्ची प्रतिलिपि |
| Trust .              | न्यास           |
| Trustee ..           | न्यासधारी       |
| Trust property       | न्यास सम्पत्ति  |
| Turpitude ..         | पतन             |
| True grand-father .. | पित्रेय पितामह  |
| True grand-mother .. | पित्रेय मातामही |
| Tyranny .            | अत्याचार        |
| Ulterior ..          | पश्चात्तवर्ती   |
| Ultimate ..          | अन्तिम          |
| Ultra-vires ..       | अधिकार से परे   |
| Unanimous ..         | सर्व-सम्मत      |
| Unauthorised         | अनधिकृत         |
| Uncertain ..         | अनिश्चित        |
| Unclaimed ..         | उत्तराधिकार-हीन |
| Unconditional        | प्रतिबन्ध-रहित  |

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Unconscionable bargain.. | अपर्याप्त-प्रतिफल-प्रतिज्ञा |
| Under-lease ..           | उप-पट्टा                    |
| Under-trial ..           | विचाराधीन                   |
| Undertaking .            | काम, प्रतिश्रुति            |
| Undivided ..             | अविभक्त                     |
| Undisputed ..            | निर्विवाद                   |
| Undue influence          | अनुचित प्रभाव               |
| Unencumbered             | ऋणभार-रहित                  |
| Uninterrupted            | वेरोक                       |
| Unity ..                 | एकता                        |
| Universal ..             | सम्पूर्ण-रूपेण              |
| Unlawful ..              | राजनियम विरुद्ध             |
| Unlimited ..             | असीमित, अमर्यादित           |
| Unnatural ..             | अप्राकृतिक                  |
| Unnatural offences       | अप्राकृतिक अपराध            |
| Unnecessary ..           | अनावश्यक                    |
| Unobstructed heritage .. | अप्रतिबन्ध दाय              |
| Unprofessional conduct.. | व्यवसाय-विरुद्ध आचार        |
| Unqualified .            | निरपेक्ष                    |
| Unsound ..               | अस्वस्थ, युक्तिहीन          |
| Unsuccessful..           | असफल                        |
| Uphold ..                | पुष्टि करना                 |
| Urban ..                 | नागरिक                      |
| Usage ..                 | चलन                         |
| Use ..                   | उपयोग                       |

|                       |    |                           |
|-----------------------|----|---------------------------|
| Usual                 | .. | साधारण                    |
| Usufructuary mortgage | .. | भोग बन्धक                 |
| Uterine brother       | .. | वैपित्रिय सहोदर भाई       |
| Utility               | .. | उपयोगिता                  |
| Vacancy               | .. | रिक्त स्थान               |
| Vacant                | .. | रिक्त                     |
| Vacation              | .. | छुट्टी, अवकाश             |
| Vague                 | .. | अस्पष्ट                   |
| Valid                 | .. | वैध                       |
| Validity              | .. | वैधता                     |
| Valuable              | .. | मूल्यवान                  |
| Valuation             | .. | मूल्य-निर्धारण, मूल्यांकन |
| Valuer                | .. | मूल्य-निर्धारक            |
| Variable              | .. | परिवर्तनशील               |
| Variation             | .. | परिवर्तन                  |
| Vendee                | .. | क्रेता                    |
| Vendor                | .. | विक्रेता                  |
| Verification          | .. | प्रमाणीकरण                |
| Versus                | .. | विरुद्ध                   |
| Vessel                | .. | जलयान                     |
| Vest                  | .. | निहित करना                |
| Vested                | .. | निहित                     |
| Veto                  | .. | प्रतिषेधाधिकार            |
| Vexatious             | .. | दुखदायी                   |
| Vice-president        | .. | उप-प्रधान                 |
| Violation             | .. | उल्लंघन                   |

|               |    |                    |
|---------------|----|--------------------|
| Violence      |    | हिंसा, बल-प्रयोग   |
| Virgin        | .. | कुमारी             |
| Vitiate       | .. | व्यर्थ करना        |
| Void          | .. | अव्यवहार्य, व्यर्थ |
| Voidable      | .. | व्यर्थनीय          |
| Volition      | .. | इच्छा              |
| Voluntarily   | .. | स्वेच्छा से        |
| Vote          | .. | मत                 |
| Voter         | .. | मतदाता             |
| Voting paper  | .. | मत-पत्र            |
| Vulnerable    | .. | नेद्य              |
| Wager         | .. | बाजी लगाना         |
| Wage-war      | .. | युद्ध छेड़ना       |
| Wages         | .. | मजदूरी             |
| Waiver        | .. | छेड़ना             |
| Warning       | .. | चेतावनी            |
| Warrant       | .. | शाक्ति-पत्र        |
| Warrant case  | .. | गन्धीर नामल        |
| Warranty      | .. | आश्रय              |
| Waste land    | .. | बंजर               |
| Weapon        | .. | शस्त्र             |
| Wear and tear | .. | डूट फूट            |
| Weight        | .. | वाँट, बोझा         |
| Whipping      | .. | बैत नारना          |
| Whole         | .. | सम्पूर्ण           |
| Widow         | .. | विधवा              |

|                                |    |                         |
|--------------------------------|----|-------------------------|
| Widower ..                     | .. | विधुर                   |
| Wilfully .                     | .  | इच्छापूर्वक             |
| Will ..                        | .. | उत्तर-पत्र, मृत्यु-पत्र |
| Winding up ..                  | .. | तोड़ना, समेटना          |
| Withdraw ..                    | .. | पीछे हटना, उठा लेना     |
| Witness .                      | .  | <u>साक्षी</u> ' .       |
| Woman ..                       | .. | महिला                   |
| Woman's property ..            | .. | स्त्री-धन               |
| Womb ..                        | .. | गर्भाशय                 |
| Working capital ..             | .. | कार्यशील पूँजी          |
| Worship ..                     | .  | पूजा                    |
| Wound ..                       | .. | आघात                    |
| Write off ..                   | .. | बड़े खाते डालना         |
| Written statement ..           | .. | लिखित वक्तव्य           |
| Wrongful ..                    | .. | अनधिकार पूर्ण           |
| Wrongful act ..                | .. | अनधिकार पूर्ण कार्य     |
| Wrongful <u>con</u> finement . | .  | अनधिकार <u>अ</u> वरोध   |
| Wrongful gain ..               | .. | अनधिकारपूर्ण लाभ        |
| Wrongful loss ..               | .. | अनधिकारपूर्ण हानि       |
| Wrongful restraint ..          | .. | अनधिकार रोक             |

# शासन-शब्द-संग्रह

| उर्दू               | हिन्दी                        |
|---------------------|-------------------------------|
| अंजाम देना ....     | .... निष्पादन करना            |
| अंजुमन ....         | .... संघ                      |
| अंजुमन इम्दाद वाहमी | .... सहकारी समिति, सहकारी-सभा |
| अन्दरूनी ....       | .... आन्तरिक                  |
| अकली ....           | .... युक्ति संगत              |
| अकीदा ....          | .... सिद्धान्त, विश्वास, धर्म |
| असवार ....          | .... समाचार-पत्र              |
| असलकी ....          | .... नैतिक                    |
| अगलब ....           | .... सम्भाव्य                 |
| अजजा ....           | .... अवयव                     |
| अजरय ....           | .... अनुसार                   |
| अजसरे नो ....       | .... आरम्भ से                 |
| अतलाफ ....          | .... नाश                      |
| अतिया ....          | .... दान                      |
| अदना ....           | .... नीच                      |
| अदम ....            | .... न होना                   |
| अदम इस्तमाल ....    | .... असमावेश                  |
| अदम हाजिरी ....     | .... अनुपस्थिति               |
| अदल ....            | .... न्याय                    |
| अदालत ....          | .... न्यायालय                 |
| अदालत आला ....      | .... सर्वोच्च-न्यायालय        |

|                 |      |                             |
|-----------------|------|-----------------------------|
| अदालत दीवानी    | .... | सम्यक्-सम्बन्धी-न्यायालय    |
| अदालत फौजदारी   | .... | दण्ड-न्यायालय               |
| अदालत माल....   | .... | राजस्व-न्यायालय             |
| अदालत सालसी     | .... | पंच-न्यायालय                |
| अदालत सेशन      | .... | सत्र-न्यायालय               |
| अनवाय           | .... | प्रकार, भेद                 |
| अवतरी           | .... | दुर्दशा, अव्यवस्था, हास     |
| अमदन            | .... | इच्छापूर्वक, जानबूझकर       |
| अमर वादिही....  | .... | स्वयं सिद्ध                 |
| अमल             | .... | व्यवहार, प्रयोग, आचरण       |
| अमल दरामद....   | .... | व्यवहार                     |
| अमल सरकार....   | .... | शासन प्रवन्ध, राज्य प्रवन्ध |
| अमला            | .... | कर्मचारी-वर्ग               |
| अमलदारी         | .... | शासन                        |
| अमली            | .... | सक्रिय, व्यवहारिक           |
| अमानत           | .... | न्यास, निक्षेप              |
| अमानत कुनिन्दा  | .... | न्यास निर्माता, निक्षेपी    |
| अमानतदार, अमीन  | .... | निक्षेप ग्रहीता, न्यासधारी  |
| अमानती          | .... | न्यासिक                     |
| अम्र            | .... | विषय, कार्य, काण्ड          |
| अम्र वायस तकलीफ | .... | कष्टदायक बात                |
| अम्र खिलाफ पेशा | .... | व्यवसाय-विरुद्ध-आचार        |
| अम्र मफरूजा     | .... | काल्पनिक विषय               |
| अयानत ( इआनत )  | .... | प्रोत्साहन                  |
| अर्जी-दावा      | .... | वाद-पत्र                    |
| अलग             | .... | प्रयुक्त                    |

|                 |      |                           |
|-----------------|------|---------------------------|
| अलल तरतीव....   | .... | यथाक्रम                   |
| अलहद्गी ....    | .... | प्रथक्त्व                 |
| अलहदा ....      | .... | विभिन्न, प्रथक् प्रथक्    |
| अलाती भाई ....  | .... | वैमान्त्रेय भाई           |
| अलामत ....      | .... | चिन्ह, लक्षण              |
| अलावा ....      | .... | अतिरिक्त                  |
| अलासवील उल बदल  | .... | वैकल्पिक                  |
| असनाद मिलिक्रयत | .... | स्वत्वाधिकार-पत्र         |
| असवा ....       | .... | अवशिष्ट भोक्ता            |
| असमत ....       | .... | शील, मर्यादा              |
| असर ....        | .... | प्रभाव                    |
| असलह ....       | .... | शस्त्र, अस्त्र            |
| असलह हमला       | .... | आक्रमण के हथियार          |
| असली ....       | .... | वास्तविक, मौलिक, अकृत्रिम |
| असली शहादत      | .... | प्रधान साक्ष्य            |
| असलवी ....      | .... | सुविधा, सरलता             |
| असालतन ....     | .... | स्वयं                     |
| असासा ....      | .... | मालमत्ता                  |
| अहकाम ( हुक्म ) | .... | आदेश                      |
| अहतमाल ....     | .... | शंका                      |
| अहद ....        | .... | वचन                       |
| अहम ....        | .... | महत्वपूर्ण                |
| अहमियत ....     | .... | महत्व                     |
| अहलकार ....     | .... | कर्मचारी                  |
| अहले मुकद्दमा   | .... | पक्षकार                   |
| अहसास ....      | .... | अनुभव, प्रतीति            |



|                |      |      |                            |
|----------------|------|------|----------------------------|
| आगाज           | .... | .... | प्रारम्भ                   |
| आगाही          | .... | .... | चेतावनी, सूचना             |
| आजाद           | .... | .... | स्वतंत्र                   |
| आजादी          | .... | .... | स्वतंत्रता                 |
| आतिशगीर        | .... | .... | ज्वलनशील                   |
| आतिशजदगी       | .... | .... | दहन                        |
| आदत            | .... | .... | स्वभाव                     |
| आदतन           | .... | .... | स्वभावतः                   |
| आफत            | .... | .... | विपत्ति                    |
| आफत नागहानी    | .... | .... | दैवी प्रकोप                |
| आफियत          | .... | .... | स्वास्थ्य, कुशल मंगल       |
| आवपाशी         | .... | .... | सिंचाई                     |
| आवा ओ इजदाद    | .... | .... | पूर्वज                     |
| आवियाना        | .... | .... | जल-कर                      |
| आम             | .... | .... | सामान्य, व्यापक, सार्वजनिक |
| आम इश्तहार.... | .... | .... | सार्वजनिक सूचना            |
| आम चरागाह....  | .... | .... | सार्वजनिक गोचर-भूमि        |
| आमदनी          | .... | .... | आय                         |
| आमेजिश         | .... | .... | मिलावट                     |
| आयद करना       |      |      | लगाना, आरोपित करना, डालना  |
| आरजी           | .... | .... | अस्थायी                    |
| आरजी सुलह      | .... | .... | अस्थायी सन्धि              |
| आराजी          | .... | .... | भूमि                       |
| आल औलाद        | .... | .... | सन्तति, सन्तान             |
| आला            | .... | .... | उच्च                       |
| आले            | .... | .... | यन्त्र                     |

|                    |      |      |                             |
|--------------------|------|------|-----------------------------|
| आलातरीन            | .... | .... | सर्वोच्च                    |
| आसान               | .... | .... | सुगम                        |
| आसायज्ञ            | .... | .... | सुविधा                      |
| आसूदगी             | .... | .... | सम्पन्नता, तुष्टि           |
| इकजा करना          | .... | .... | एकीकरण                      |
| इक तरफा            | .... | .... | एकपक्षीय                    |
| इकदाम              | .... | .... | चेष्टा, प्रयत्न             |
| इकवाल              | .... | .... | प्रतिष्ठा, प्रताप, स्वीकृति |
| इकवाल जुर्म        | .... | .... | अपराध स्वीकृति              |
| इकरार              | .... | .... | वचन, अंगीकरण, ठहराव         |
| इकरार जवानी        | .... | .... | मौखिक-वचन                   |
| इकरार स्वालह       | .... | .... | धर्माधीन कथन                |
| इक्तजाए राय        | .... | .... | विवेक                       |
| इखराज              | .... | .... | वर्जन, निरसन                |
| इखराजात (खर्च)     | .... | .... | व्यय                        |
| इखलाक              | .... | .... | शिष्टाचार                   |
| इरुफा              | .... | .... | छिपाव                       |
| इरुतताम            | .... | .... | समाप्ति                     |
| इरुतलाफ            | .... | .... | विरोध                       |
| इरुतलाफ राय....    | .... | .... | असहमति                      |
| इरुतसार            | .... | .... | संक्षेप                     |
| इम्तियार           | .... | .... | अधिकार, शक्ति               |
| इम्तियार इम्तियाजी | .... | .... | विवेकाधीन                   |
| इम्तियार करना      | .... | .... | ग्रहण                       |
| इम्तियार खास       | .... | .... | विशेषाधिकार                 |
| इम्तियार देना      | .... | .... | शक्ति देना                  |

|                 |      |                         |
|-----------------|------|-------------------------|
| इस्तिथार समाजत  | .... | विचाराविकार             |
| इस्तिथारी       | .... | ऐच्छिक                  |
| इथलान           | .... | गुदा-नैयुत              |
| इत्तनाज         | .... | संचय, संयोजन            |
| इत्तनाज किफालत  | .... | बन्धक संयोजन            |
| इजतिजाव         | .... | विरति                   |
| इजदिवाज         | .... | विवाह                   |
| इजरा            | .... | प्रवर्तन                |
| इजलास           | .... | अविवेचन, बैठक, न्यायालय |
| इजलास कानिल     | .... | पूर्व-न्यायालय          |
| इजहार           | .... | अथन, संवहन              |
| इजहार राय       | .... | नव प्रवर्तन             |
| इजाजत           | .... | अनुमति                  |
| इजाफा           | .... | वृद्धि                  |
| इजाफा करना....  | .... | बढाना                   |
| इजले हैसियत उनी | .... | नान इति                 |
| इकतदाई          | .... | प्रारम्भिक              |
| इटलक            | .... | सम्बन्ध                 |
| इताजत           | .... | निष्ठा, जहापालन         |
| इचकाक           | .... | संयोग, एकता             |
| इचकाक राय       | .... | नैतिक                   |
| इचकाकिया        | .... | आकस्मिक, अकस्मात्       |
| इपला            | .... | संज्ञापन, सूचना         |
| इपलामा          | .... | सूचना-पत्र              |
| इपहाद           | .... | ऐक्य, एकता              |
| इपहाद कौमी....  | .... | राष्ट्र पंथ, जातीय एकता |

|                  |      |      |                             |
|------------------|------|------|-----------------------------|
| इच्छाम           | .... | .... | आरोप                        |
| इन्फिसाख         | .... | .... | खण्डन                       |
| इन्फिसाल         | .... | .... | निर्णय                      |
| इनाम             | .... | .... | पारितोषिक                   |
| इन्कजाए मियाद    | .... | .... | अवधि व्यतीत होना            |
| इन्कशाफ          | .... | .... | अभिव्यक्ति, स्पष्टीकरण      |
| इन्कार करना      | .... | .... | अस्वीकृति, मना करना         |
| इन्कारिया        | .... | .... | नकारात्मक                   |
| इन्किलाव         | .... | .... | क्रान्ति                    |
| इन्तकाल कुनिन्दा | .... | .... | हस्तान्तर कर्ता             |
| इन्तखाव          | .... | .... | चुनना, निर्वाचन, चुनाव, चयन |
| इन्तखाव कुनिन्दा | .... | .... | निर्वाचक                    |
| इन्तजामिया       | .... | .... | अनुशासनात्मक, प्रबन्धकारिणी |
| इन्तजार          | .... | .... | वाट                         |
| इन्तहाई          | .... | .... | अधिकतम                      |
| इन्दराज          | .... | .... | लेखा                        |
| इन्दुलतलय        | .... | .... | माँगने पर                   |
| इन्दुलहुसूल      | .... | .... | प्राप्त होने पर             |
| इन्फिकाक         | .... | .... | मोचन                        |
| इन्फिसाक         | .... | .... | विच्छेद                     |
| इन्साफ           | .... | .... | न्याय                       |
| इन्सिदाद         | .... | .... | रोक                         |
| इफरात            | .... | .... | बाहुल्य                     |
| इवादत            | .... | .... | पूजा                        |
| इवारत            | .... | .... | लेख                         |
| इवारत जुहरी....  | .... | .... | पृष्ठ-लेख, टिप्पणी          |

|                  |      |                                 |
|------------------|------|---------------------------------|
| इवारत तोहमत आमोज | .... | निन्दात्मक लेख                  |
| इन्दुल मुलाहिजा  | .... | दर्शनी                          |
| इमकान            | .... | सम्भावना, शक्ति                 |
| इमारत            | .... | भवन                             |
| इम्तनाई          | .... | निषेधात्मक, रोधात्मक            |
| इम्तयाज          | .... | विवेक                           |
| इम्तहानन         | .... | प्रयोगात्मक, परीक्षा के रूप में |
| इम्दादी          | .... | सहायक                           |
| इरसलि            | .... | प्रेषण                          |
| इरादतन           | .... | जानवृद्धकर                      |
| इरादा            | .... | अभिप्राय                        |
| इरादा मुश्तरक    | .... | संयुक्त अभिप्राय                |
| इर्स             | .... | पैतृक सम्पत्ति                  |
| इलहाक            | .... | एकीकरण, संयोजन                  |
| इल्जाम लगाना     | .... | अभियोग लगाना, दोषारोपण          |
| इल्जाम           | .... | आरोप                            |
| इल्तवाय          | .... | स्थगन                           |
| इल्म             | .... | ज्ञान                           |
| इल्म उसूल कानून  | .... | राजनियम विज्ञान                 |
| इल्म सियासत      | .... | राजनीति                         |
| इशाअत            | .... | प्रकाशन                         |
| इशारा            | .... | संकेत                           |
| इस्तैमाल         | .... | संयोजन                          |
| इस्तैमाल वेजा    | .... | अनुचित संयोजन                   |
| इश्तहार          | .... | विज्ञप्ति                       |

|                  |      |                          |
|------------------|------|--------------------------|
| इश्तहारी         | .... | विज्ञप्त                 |
| इश्तमाल तदा      | .... | क्रोधवेश                 |
| इश्तमाल फरीकैन   | .... | पक्षकार समावेश           |
| इश्कात हमल       | .... | गर्भपात                  |
| इस्तकरार         | .... | ज्ञापन                   |
| इस्तगराक         | .... | गिरा ग्रहण               |
| इस्तगामा         | .... | अभियोग पक्ष, अभियोग      |
| इस्तदुआ          | .... | प्रार्थना                |
| इस्तमरार         | .... | निरन्तरता                |
| इस्तसना          | .... | अपवाद                    |
| इस्तसवाव         | .... | व्यवस्था हेतु प्रार्थना  |
| इस्तहकाक         | .... | स्वत्व                   |
| इस्तहकाक आम      | .... | सार्वजनिक स्वत्व         |
| इस्तहसाल विलजत्र | .... | चलात् ग्रहण              |
| इस्तिलाही        | .... | पारिभाषिक                |
| इस्तादा ( फसल )  | .... | खड़ी                     |
| इस्तीफा          | .... | त्याग पत्र               |
| इस्तेहसाल बेजा   | .... | अनधिकारपूर्ण लाभ         |
| इस्तैदाद         | .... | सामर्थ्य, शक्ति, योग्यता |
| इस्तैमाल         | .... | उपयोग, प्रयोग            |
| इस्लाह           | .... | संशोधन                   |
| ईजाद             | .... | आविष्कार                 |
| ईजाव             | .... | प्रस्ताव                 |
| ईजारसां          | .... | दुखदायी, हानिकारक        |
| ईफा करना         | .... | पूरा करना                |
| उजरत             | .... | पारिश्रमिक               |

|                   |      |                        |
|-------------------|------|------------------------|
| उजरात विल-मुकाविल | .... | विपक्ष-विवाद           |
| उज्र              | .... | आपत्ति                 |
| उज्रदारी          | .... | आपत्ति-पत्र            |
| उदूल हुक्मी       | .... | अवज्ञा                 |
| उनवान             | .... | शीर्षक                 |
| उफतादा            | .... | खाली, पड़ी हुई         |
| उमूमियत           | .... | व्यापकता               |
| उम्मेद            | .... | आशा                    |
| उम्मेदवार         | .... | पदाभिलाषी              |
| उम्र              | .... | आयु                    |
| उरूज              | .... | वृद्धि                 |
| उसूल              | .... | सिद्धान्त              |
| एक सुस्त          | .... | एक साथ, इकट्ठा         |
| एजाज              | .... | मान                    |
| एतकाद             | .... | श्रद्धा                |
| एतमाद             | .... | विश्वास                |
| एलची              | .... | राजदूत                 |
| एवजी              | .... | स्थानापन्न             |
| एहतमाम            | .... | प्रबन्ध                |
| एहतमाम तर्का....  | .... | सम्पत्ति व्यवस्था      |
| एहतमाली आराजी     | .... | अस्थायी कृषियोग्य-भूमि |
| इहतिजाज           | .... | परितोष                 |
| एहतियात           | .... | सावधानी                |
| एहद               | .... | समय, कार्यकाल          |
| ऐतराज करना        | .... | आपत्ति करना            |
| ऐलान              | .... | घोषणा, उद्घोषणा        |

|                           |      |      |                           |
|---------------------------|------|------|---------------------------|
| ओहदा                      | .... | .... | पद                        |
| ओहदेदार                   | .... | .... | पदाधिकारी                 |
| औरत                       | .... | .... | महिला, स्त्री             |
| औल                        | .... | .... | वृद्धि                    |
| औलाद                      | .... | .... | सन्तान                    |
| कतई                       | .... | .... | अन्तिम, निरपेक्ष, अकाट्य  |
| कत्ल                      | .... | .... | वध                        |
| कत्ल अमद                  | .... | .... | हत्या                     |
| कत्ल इन्सान               | .... | .... | नर हत्या                  |
| कत्ल इन्सान मुस्तलिजम सजा | .... | .... | दण्डनीय नर हत्या          |
| कदीम                      | .... | .... | दीर्घ कालीन, पुरानी       |
| किनायतन                   | .... | .... | अप्रत्यक्ष रूप में        |
| कन्दा                     | .... | .... | अंकित                     |
| कफोल                      | .... | .... | प्रतिभूत                  |
| कवूल करना                 | .... | .... | स्वीकार करना              |
| कवूलियत                   | .... | .... | स्वीकृति                  |
| कवजा                      | .... | .... | आधिपत्य, संरक्षण          |
| कवजे में करना....         | .... | .... | हस्तगत करना               |
| कवल                       | .... | .... | पहिले, पूर्व              |
| कवल अज वक्त               | .... | .... | अपरिपक्व, समय से पूर्व    |
| कम राज कम                 | .... | .... | न्यूनतम                   |
| कमजोरो                    | .... | .... | दुर्बलता                  |
| कयास इख्तियारी            | .... | .... | अनुमान कर सकना            |
| कयास                      | .... | .... | अनुमान                    |
| कयास लाजिमी               | .... | .... | आवश्यक रूप से अनुमान करना |
| कयासी                     | .... | .... | काल्पनिक                  |
| कयूद                      | .... | .... | बन्धन, सीमा               |



|                          |      |      |                            |
|--------------------------|------|------|----------------------------|
| करारदाद                  | .... | .... | निश्चय                     |
| करीने मस्लहत             | .... | .... | उचित                       |
| कर्ज                     | .... | .... | ऋण                         |
| कर्जख्वाह                | .... | .... | ऋणदाता                     |
| कर्जदार                  | .... | .... | ऋणी                        |
| कर्जा गैर मुमकिन उल वसूल | .... | .... | बड़े खाते की रकम, इवन्त ऋण |
| करावत                    | .... | .... | सगोत्रता                   |
| कलअदम                    | .... | .... | अव्यवहार्य, व्यर्थ         |
| कलमजद करना               | .... | .... | मिटाना                     |
| कवाअद ( कायदा )          | .... | .... | नियम                       |
| कसरत                     | .... | .... | अधिकता                     |
| कसरतराय                  | .... | .... | बहुमत                      |
| कसीरुल तादाद             | .... | .... | बहु संख्यक                 |
| कसूर                     | .... | .... | त्रटि, दोष                 |
| कसूरवार                  | .... | .... | दोषी                       |
| कहत                      | .... | .... | दुर्भिक्ष, दुष्काल         |
| कातिव                    | .... | .... | लेखक                       |
| कानून                    | .... | .... | विधान, राजनियम             |
| कानून असली               | .... | .... | मूल विधान                  |
| कानूनदां                 | .... | .... | राजनियमज्ञ                 |
| कानून पेशा               | .... | .... | अभिभाषण व्यवसायी           |
| कानून मुख्तस्सुल वक्त    | .... | .... | सामयिक विधान               |
| कानूनसाजी                | .... | .... | व्यवस्थापन, विधान निर्माण  |
| कानूनी                   | .... | .... | वैध, वैधानिक               |
| काफी                     | .... | .... | पर्याप्त                   |
| काविज                    | .... | .... | धारक, अधिवासी              |

|                  |      |                           |
|------------------|------|---------------------------|
| काविल जदखाल      | .... | श्राद्ध                   |
| काविल जमल....    | .... | साध्य                     |
| काविल इन्तकाल    | .... | हस्तान्तर योग्य           |
| काविल इन्तखान    | .... | निर्वाचन योग्य            |
| काविल इन्तिकक    | .... | मोचन योग्य                |
| काविल इन्तिकमाल  | .... | खण्डनीय                   |
| काविल इचताल      | .... | व्यर्थनीय                 |
| काविल ईर्स       | .... | उत्तराधिकार योग्य         |
| काविल एतवार      | .... | विश्वसनीय                 |
| काविल एतराज      | .... | आपत्तिजनक                 |
| काविल कस्त       | .... | खेती के योग्य, कृषि-योग्य |
| काविल जमानत      | .... | प्रतिभृति योग्य           |
| काविल तकसीम      | .... | विभाज्य                   |
| काविल तब्दीली    | .... | परिवर्तन-योग्य            |
| काविल दस्तन्दाजी | .... | हस्तक्षेप-योग्य           |
| काविल गालिश      | .... | व्यवहार्य                 |
| काविल निफाज      | .... | प्रयोगनीय, प्रवर्तनीय     |
| काविल पावन्दी    | .... | पालनीय                    |
| काविल फैसला      | .... | निरूपण योग्य              |
| काविल रजिस्ट्री  | .... | राजपुस्तकांकन-योग्य       |
| काविल राजीनामा   | .... | समझौते के योग्य           |
| काविल वसूल ....  | .... | प्राप्य                   |
| काविल सजा ....   | .... | दण्डनीय                   |
| काविलियत ....    | .... | प्रवीणता, योग्यता         |
| कामयाब ....      | .... | सफल                       |
| कामिल ( करई )    | .... | पूर्ण, जवाब               |

|                    |      |      |                 |
|--------------------|------|------|-----------------|
| फायम               | .... | .... | स्थापित         |
| फायम मुकाम         | .... | .... | प्रतिनिधि       |
| फायम मुकाम कानूनी  | .... | .... | वैध प्रतिनिधि   |
| फायम मुकाम हक्कियत | .... | .... | हित प्रतिनिधि   |
| कारआमद             | .... | .... | उपयोगी          |
| कारगुजार           | .... | .... | दक्ष            |
| कारसाजी            | .... | .... | धूर्तता         |
| कार्रवाई           | .... | .... | कार्यवाही       |
| कासिद              | .... | .... | वाहक            |
| काश्तकार           | .... | .... | किसान           |
| किफायतशारी         | .... | .... | मितव्ययता       |
| किफालतनामा         | .... | .... | तारण, प्रतिभूति |
| किमारवाजी          | .... | .... | जुआ             |
| किराया             | .... | .... | भाड़ा           |
| किस्त              | .... | .... | अंशिका          |
| किस्म              | .... | .... | प्रकार          |
| कीमत ( भाव)....    | .... | .... | मूल्य, भाव      |
| कीमती              | .... | .... | मूल्यवान        |
| कुतवा              | .... | .... | लेख             |
| कुतवा कत्र         | .... | .... | समाधि-लेख       |
| कुदरती             | .... | .... | प्राकृतिक       |
| कुनबेदार           | .... | .... | ग्रहस्थ         |
| कुव्वत             | .... | .... | शक्ति           |
| कुरा               | .... | .... | बटवारा-पत्रक    |
| कुर्फी             | .... | .... | आसेध            |
| कुर्बे जवार        | .... | .... | आस पास          |

|                  |      |      |                            |
|------------------|------|------|----------------------------|
| कुर्वानी         | .... | .... | वलिदान, त्याग              |
| कुल              | .... | .... | सम्पूर्ण                   |
| कैद              | .... | .... | कारावास                    |
| कैदी             | .... | .... | वन्दी                      |
| कैफियत           | .... | .... | विवरण                      |
| कोशिश            | .... | .... | प्रयास, प्रयत्न            |
| कौम              | .... | .... | जाति, राष्ट्र              |
| कौमी             | .... | .... | राष्ट्रीय, सामाजिक         |
| खजाना            | .... | .... | कोष                        |
| खतरनाक           | .... | .... | संकटजनक, भयप्रद, भयानक     |
| खतरा             | .... | .... | संकट, भय, जोखिम            |
| खतो किताबत....   | .... | .... | पत्र-व्यवहार               |
| खफीफ             | .... | .... | तुच्छ, छोटा, लघु           |
| खबर देना         | .... | .... | संज्ञापित करना, सूचना देना |
| खयानत            | .... | .... | विश्वासघात                 |
| खयानत मुजरिमाना  | .... | .... | सापराध विश्वासघात          |
| खर्च             | .... | .... | व्यय                       |
| खर्च में लिखना   | .... | .... | नामे डालना                 |
| खरकल             | .... | .... | विघ्न                      |
| खसरा             | .... | .... | क्षेत्र-पुस्तक             |
| खानगी            | .... | .... | स्वकीय, निजी               |
| खानदान           | .... | .... | परिवार, वंश, जाति          |
| खानदान मुश्तर्फी | .... | .... | संयुक्त परिवार             |
| खाना             | .... | .... | पंक्ति                     |
| खाम              | .... | .... | कच्चा                      |
| खामोशी           | .... | .... | मौन                        |

|                           |       |                            |
|---------------------------|-------|----------------------------|
| खारिज करना .....          | ..... | वहिष्कृत करना, निरस्त करना |
| खालिस मुनाफा .....        | ..... | शुद्ध लाभ                  |
| खाली .....                | ..... | रिक्त                      |
| खाली जगह .....            | ..... | रिक्त स्थान                |
| खास .....                 | ..... | विशेष, मुख्य               |
| खासा .....                | ..... | स्वभाव, गुण                |
| खिताब .....               | ..... | उपाधि                      |
| खिलाफ .....               | ..... | विरुद्ध, विपरीत            |
| खिलाफ तहजीब .....         | ..... | अनैतिक                     |
| खिलाफ वजा फितरी .....     | ..... | अप्राकृतिक                 |
| खिलाफ वर्जी .....         | ..... | भंग, उल्लंघन, अवज्ञा       |
| खिलाफ वर्जी मुआहिदा ..... | ..... | अनुबन्ध भंग                |
| खुदकुशी .....             | ..... | आत्म हत्या                 |
| खुदकास्त .....            | ..... | निजी खेती                  |
| खुद पैदा कर्दा .....      | ..... | स्वार्जित                  |
| खुदादाद हक .....          | ..... | ईश्वर दत्त स्वत्व          |
| खुफिया .....              | ..... | गुप्त                      |
| खुलासा .....              | ..... | सारांश, सार, संक्षेप       |
| खैराती .....              | ..... | परोपकारी                   |
| ख्याल .....               | ..... | विचार                      |
| ख्यास्तगार .....          | ..... | इच्छुक                     |
| ख्याहिश .....             | ..... | इच्छा                      |
| ख्याहिशमन्द .....         | ..... | इच्छुक                     |
| गजब इलाही .....           | ..... | दैवी प्रकोप                |
| गदर .....                 | ..... | विप्लव                     |
| गन्दुम .....              | ..... | गेहूँ                      |

|               |      |      |                                     |
|---------------|------|------|-------------------------------------|
| गफलत          | .... | .... | असावधानी                            |
| गफलत शदीद     |      | .... | घोर असावधानी                        |
| गवन           | .... | .... | हड़पना                              |
| गरज           | .... | .... | आशय, प्रयोजन                        |
| गर्क आव       | .... | .... | जल मग्न                             |
| गलत इन्दराज   |      | .... | मिथ्या लेख                          |
| गलत फहमी      | .... | .... | भ्रान्त धारणा, संभ्रम, मिथ्या धारणा |
| गलत वयानी     | .... | .... | भ्रान्त-वर्णन, मिथ्या कथन           |
| गलती          | .... | .... | भूल                                 |
| गवाह          | .... | .... | साक्षी                              |
| गवाह चश्मदीद  |      | .... | प्रत्यक्षदर्शी साक्षी               |
| गवाह सरकारी   |      | .... | राजसाक्षी                           |
| गश्ती हुक्म   | .... | .... | प्रसिद्धि-पत्र                      |
| गारत          | .... | .... | विनाश                               |
| गालिब आना     | .... | .... | अविभूत करना                         |
| गाव कुशी      | .... | .... | गोधव                                |
| गिरफ्तार करना |      | .... | बन्दी करना                          |
| गिरफ्तारी     | .... | .... | बन्दीकरण                            |
| गिरवीदार      | .... | .... | गहना रख लेने वाला                   |
| गिरवी         | .... | .... | गहना                                |
| गिराँ         | .... | .... | अधिक मँहगा                          |
| गिरोह         | .... | .... | टोली                                |
| गिरौ कुनिन्दा | .... | .... | गहना रख देने वाला                   |
| गुजरना        | .... | .... | समाप्त होना, जाना                   |
| गुजरानना      | .... | .... | प्रस्तुत करना, ले जाना              |
| गुजारा        | .... | .... | निर्वाह                             |

|               |      |      |                  |
|---------------|------|------|------------------|
| गुजिश्ता      | .... | .... | विगत             |
| गुमनाम        | .... | .... | नाम रहित         |
| गुमराह करना   | .... | .... | मुलावा देना      |
| गुरेज करना    | .... | .... | टालमटोल करना     |
| गुलाम         | .... | .... | दास              |
| गुस्ताखी      | .... | .... | घृष्टता          |
| गैर अगलब      | .... | .... | असम्भाव्य        |
| गैर अहंम      | .... | .... | महत्वहीन         |
| गैर काफी      | .... | .... | अपर्याप्त        |
| गैर जल्दरी    | .... | .... | अनावश्यक         |
| गैर तरफदार    | .... | .... | निष्पक्ष         |
| गैर तरफदारी   | .... | .... | निष्पक्षता       |
| गैर ताल्लुक   | .... | .... | तटस्थ, असम्बद्ध  |
| गैर फौजी      | .... | .... | असैनिक           |
| गैर मनकूला    | .... | .... | स्थावर           |
| गैर मशरूत     | .... | .... | प्रतिबन्ध रहित   |
| गैर महदूद     | .... | .... | असीमित           |
| गैर माही      | .... | .... | अस्पर्शनीय       |
| गैर मामूली    | .... | .... | असाधारण, अनियमित |
| गैर मुअय्यन   | .... | .... | अनिश्चित         |
| गैर मुअस्तिर  | .... | .... | प्रभावहीन        |
| गैर मुकम्मिल  | .... | .... | अपूर्ण           |
| गैर मुतअल्लिक | .... | .... | असम्बद्ध, असंगत  |
| गैर मुतआस्तिब | .... | .... | उदासोन           |
| गैर मुतनाकिज  | .... | .... | अनुरूप           |
| गैर मुतनाजा   | .... | .... | निर्विवाद        |

|                   |      |                  |
|-------------------|------|------------------|
| गैर मुनकसिमा .... | .... | अविभक्त          |
| गैर मुमकिन आराजी  | .... | कृषि अयोग्य भूमि |
| गैर मुल्की ....   | .... | विदेशी           |
| गैर मुसलसिल ....  | .... | विरल             |
| गैर मुशख्खिसा.... | .... | राजस्व मुक्त     |
| गैर सरकारी ....   | .... | अशासकीय          |
| गैर सही ....      | .... | अशुद्ध           |
| गैर सही उल नसब    | .... | जारज             |
| गैर साबित ....    | .... | असिद्ध           |
| गैर हाजिर ....    | .... | अनुपस्थित        |
| घरेलू कारीगरी.... | .... | गृह उद्योग       |
| चन्दा ....        | .... | अंशदान           |
| चरागाह ....       | .... | गोचर-भूमि        |
| चलता सरमाया....   | .... | चल-पूँजी         |
| चश्मपोशी ....     | .... | उपेक्षा          |
| चस्पाँ करना ....  | .... | चिपकाना          |
| चाराजोई ....      | .... | उपाय             |
| चाल चलन ....      | .... | आचरण, चरित्र     |
| चालान ....        | .... | प्रेषण           |
| चालू ....         | .... | प्रचलित          |
| चाह ....          | .... | क्रुआ            |
| चूसना ....        | .... | शोषण करना        |
| छुटकारा ....      | .... | मुक्ति           |
| जंग ....          | .... | युद्ध            |
| जईफउल अक्ल        | .... | दुर्बलमति        |
| जईफउल उम्र ....   | .... | वृद्ध            |



|                 |      |      |                          |
|-----------------|------|------|--------------------------|
| जल्ल            | .... | .... | आवात                     |
| जल्लम पिनीर     | .... | .... | नेद्य                    |
| जगइ             | .... | .... | स्थान                    |
| जद् फ्रासिदा    | .... | .... | नात्रेय नातानही          |
| जद् फ्रासिद     | .... | .... | नात्रेय पितामह           |
| जद् सहीह        | .... | .... | पित्रेय पितानह           |
| जद् सहीहा       | .... | .... | पित्रेय नातानही          |
| जनीन            | .... | .... | ऋण                       |
| जन्त            | .... | .... | नियंत्रण                 |
| जन्ती           | .... | .... | राजसात्करण, अपवृत्ति     |
| जन्न            | .... | .... | वेग, बल, हिंसा, उत्पीड़न |
| जन्न मुजरिमाना  |      | .... | आपराध बल-प्रयोग          |
| जनाअत सगदयाफता  |      | .... | प्रनापित जनसंग           |
| जनाअत           | .... | .... | संग, संस्था              |
| जनापत           | .... | .... | प्रतिभूति                |
| जनाना           | .... | .... | अद्रवि                   |
| जनाना मुस्तकविल |      | .... | नविष्य                   |
| जनाना हाल       | .... | .... | वर्तमान                  |
| जनील            | .... | .... | समस्त, सब                |
| जनीद्वार        | .... | .... | नृत्त्वानी               |
| जनीना           | .... | .... | परिशिष्ट                 |
| जनीर            | .... | .... | विशेक                    |
| जयान बेजा       | .... | .... | अनधिकारपूर्ण हानि        |
| जर              | .... | .... | घन                       |
| जरखेज           | .... | .... | उपद्रव                   |
| जरर             | .... | .... | आवात, चोट                |

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| जरर शदीद ....      | ..... | गम्भीर चोट              |
| जरावत ....         | ..... | हृषि, खेती              |
| जराए ....          | ..... | साधन                    |
| जरायमपेशा कौम .... | ..... | अपराधशील जाति           |
| जरिए मुआश ....     | ..... | जीविका का साधन, आजीविका |
| जखरत ....          | ..... | आवश्यकता                |
| जरे असल ....       | ..... | मूलधन                   |
| जरे खरीद ....      | ..... | क्रयधन                  |
| जरे रहन ....       | ..... | बन्धक-ऋण                |
| जलावतन ....        | ..... | निर्वासित               |
| जल्द ....          | ..... | शीघ्र                   |
| जल्लाद ....        | ..... | वधिक                    |
| जल्सा ....         | ..... | सम्मेलन                 |
| जवाज ....          | ..... | वैषता, औचित्य           |
| जवाब ....          | ..... | उत्तर                   |
| जवाबदिही ....      | ..... | प्रतिवाद                |
| जहननशीन ....       | ..... | हृदयंगम                 |
| जाती ....          | ..... | वैयक्तिक                |
| जानशीन ....        | ..... | स्थानापन्न              |
| जावता ....         | ..... | विधि                    |
| जामिन ....         | ..... | प्रतिमू                 |
| जामिन शरीक ....    | ..... | सह प्रतिमू              |
| जायज ....          | ..... | न्यायसंगत               |
| जायद ....          | ..... | अधिक                    |
| जायदाद ....        | ..... | सम्पत्ति                |
| जायदाद अमानती .... | ..... | न्यास-सम्पत्ति          |

|                        |      |   |
|------------------------|------|---|
| जायदाद काबिल इस        | .... | वंचानुगत सम्पत्ति                           |
| जायदाद मुनकसिना        | .... | विभक्त सम्पत्ति                             |
| जाया                   | .... | नन्ट  |
| जालिम                  | .... | निर्दय                                      |
| जाफ़स                  | .... | गुप्तचर                                     |
| जाहिर                  | .... | प्रकट, प्रत्यक्ष                            |
| जिना                   | .... | व्यभिचार                                    |
| जिनाबिलजन्न            | .... | बलात्कार                                    |
| जिननी                  | .... | जानुषंगिक                                   |
| जिन्नेदारी             | .... | उत्तरदायित्व, आश्वासन, दायित्व,<br>कृतव्यता |
| जिस्मानी               | .... | शारीरिक                                     |
| जीइस्ततावत             | .... | सन्ध  |
| जुज                    | .... | योद्धा                                      |
| जुज्व                  | .... | अवयव  |
| जुदाई                  | .... | वियोग                                       |
| जुदागाना               | .... | जला   |
| जुषान                  | .... | भाषा  |
| जुषानी                 | .... | मौखिक                                       |
| जुमला                  | .... | सम्पूर्ण                                    |
| जुरमाना                | .... | अर्थ-दण्ड                                   |
| जुर्म                  | .... | अपराध                                       |
| जुम काबिल दस्तन्दार्जी | .... | हस्तक्षेप-योग्य-अपराध                       |
| जुल्म                  | .... | अत्याचार                                    |
| जेर तजवीज              | .... | विचाराधीन                                   |
| जेर निगरानी            | .... | निरीक्षणाधीन                                |

|                      |      |      |                           |
|----------------------|------|------|---------------------------|
| जेलखाना              | .... | .... | कारागृह                   |
| जेवर                 | .... | .... | आभूषण                     |
| जोखम                 | .... | .... | संकट                      |
| जोरदार               | .... | .... | प्रबल                     |
| जोश                  | .... | .... | भाववेश, उत्साह            |
| जोश दिलाना           | .... | .... | उत्तेजित करना             |
| झूठ                  | .... | .... | मिथ्या                    |
| झूठ बनाना            | .... | .... | मिथ्याकरण                 |
| झूठी गवाही           | .... | .... | मिथ्या साक्ष्य            |
| डिक्रीदार            | .... | .... | निर्णीत ऋणदाता            |
| डेप्युटेशन           | .... | .... | प्रतिनिधि-वर्ग            |
| तअक्कुब              | .... | .... | अनुसरण ( पीछा करना )      |
| तअरूज                | .... | .... | प्रतिरोध                  |
| तकमील                | .... | .... | सम्पादन, निर्वाह          |
| तकमीलशुदा            | .... | .... | सम्पादित                  |
| तकरार                | .... | .... | लड़ाई झगडा                |
| तकरोर                | .... | .... | भाषण, वक्तृता             |
| तकर्षर               | .... | .... | नियुक्ति                  |
| तकलीफ                | .... | .... | दुःख, क्लेश               |
| तकसीम                | .... | .... | विभाजन, वितरण             |
| तकसीम तलब            | .... | .... | विभाज्य                   |
| तकसीम अक्साम         | .... | .... | वर्गीकरण                  |
| तकसीम मुताबिक हिस्सा | .... | .... | सानुपात विभाजन            |
| तखमीना               | .... | .... | मूल्यांकन, मूल्य-निर्धारण |
| तखफीफ                | .... | .... | कमी                       |
| तखलिया               | .... | .... | एकान्त                    |

|                       |      |                      |
|-----------------------|------|----------------------|
| तलनीस शस्त्रियत्त     | .... | व्यक्तीकरण           |
| तलाक                  | .... | विवाह-विच्छेद        |
| तलाशी                 | .... | अन्वेषण, खोज         |
| तवक्कुफ               | .... | विलम्ब               |
| तवज्जुह               | .... | ध्यान                |
| तवस्सुत               | .... | द्वारा               |
| तवा                   | .... | संस्करण              |
| तशस्वीस               | .... | राजस्व-निर्धारण      |
| तशरीह                 | .... | स्पर्धीकरण           |
| तसर्हफ बेजा           | .... | दुरुपयोग             |
| तसर्हफ                | .... | उपयोग                |
| तसर्हफ बेजा मुजरिमाना | .... | सापराध दुरुपयोग      |
| तसञ्चुर               | .... | अनुमान               |
| तस्दीफ                | .... | प्रमाणीकरण           |
| तस्फिया               | .... | निपटारा, समाधान      |
| तस्लीम                | .... | स्वीकृति             |
| तस्लीम करना....       | .... | स्वीकार करना         |
| तस्लीम बिल सक्वत      | .... | मौन सम्मति, स्वीकृति |
| तसलमात                | .... | अग्रदत्त             |
| तस्हीह                | .... | सुधार                |
| तस्हीहनामा            | .... | शुद्धि-पत्र          |
| तहकीकात               | .... | विचार, जाँच          |
| तहजीब                 | .... | सभ्यता               |
| तहती कवाअद            | .... | उपनियम               |
| तहती दफा              | .... | उप-धारा              |
| तहम्मुक               | .... | सहिष्णुता            |
| तहरीक                 | .... | प्रेरणा              |

|                   |      |      |                                   |
|-------------------|------|------|-----------------------------------|
| तहरीरी            | .... | .... | लिखित                             |
| ताईद              | .... | .... | समर्थन, अनुमोदन                   |
| ताईद करने वाला    |      | .... | अनुमोदक, समर्थक                   |
| ताक्रीदी          | .... | .... | आदेशात्मक                         |
| ताजिजाना          | .... | .... | बैत मारने का दण्ड                 |
| ताजीम             | .... | .... | आदर                               |
| ताजीरो            | .... | .... | दण्ड सम्बन्धी, दण्डात्मक          |
| तातील             | .... | .... | छुट्टी                            |
| तादाद             | .... | .... | परिमाण, संख्या                    |
| तानाशाह           | .... | .... | एकाधिपति                          |
| ताबीर             | .... | .... | व्याख्या                          |
| ताबीरी            | .... | .... | साक्षरितक                         |
| तामीर             | .... | .... | भवन-निर्माण                       |
| तामीर करना        | .... | .... | निर्माण करना                      |
| तामील             | .... | .... | पालन, निष्पादन, निर्वाह           |
| तारीफ             | .... | .... | परिभाषा, प्रशंसा, विवरण           |
| तिजारत            | .... | .... | उद्योग, व्यापार                   |
| तिजारती           | .... | .... | औद्योगिक                          |
| तितम्मा           | .... | .... | सम्पूरक                           |
| तितम्मा वसीयतनामा |      | .... | उत्तर-पत्र (मृत्यु-पत्र) का उपांग |
| तफल               | .... | .... | बाल                               |
| तिफल कुशी         |      | .... | शिशु-इत्या                        |
| तिबनियत           | .... | .... | दत्तक, गोद                        |
| तिब्बी अफसर....   |      | .... | चिकित्सक पदाधिकारी                |
| तिलाई             | .... | .... | सोने का                           |
| तैयार             | .... | .... | उद्यत                             |

|                    |      |      |                            |
|--------------------|------|------|----------------------------|
| तैयारी             | .... | .... | आयोजन                      |
| तौहमत आमज          | .... | .... | अपयशकारक, निन्दात्मक       |
| तौहीन              | .... | .... | अपमान                      |
| दखल                | .... | .... | आधिपत्य, अधिवास            |
| दखूल               | .... | .... | प्रवेश                     |
| दगा                | .... | .... | छल                         |
| दफा                | .... | .... | धारा                       |
| दफीना              | .... | .... | मू-निहित-धन                |
| दवाव बेजा          | .... | .... | अनुचित प्रभाव              |
| दरख्वास्त          | .... | .... | प्रार्थना-पत्र, आवेदन-पत्र |
| दरख्वास्त कुनिन्दा | .... | .... | आवेदक                      |
| दरवाव              | .... | .... | विषय में                   |
| दरमियानी           | .... | .... | अन्तर्वर्ती, मध्यवर्ती     |
| दरिया वरामद        | .... | .... | कछार                       |
| दरामद              | .... | .... | आयात                       |
| दर्जा              | .... | .... | श्रेणी                     |
| दर्जाबन्दी         | .... | .... | वर्गीकरण                   |
| दलील               | .... | .... | तर्क                       |
| दवामी              | .... | .... | निरन्तर, स्थायी            |
| देस्तखत            | .... | .... | हस्ताक्षर                  |
| दस्तयाव करना       | .... | .... | प्राप्त करना               |
| दस्तन्दाजी         | .... | .... | हस्तक्षेप                  |
| दस्तवरदार होना     | .... | .... | त्याग देना                 |
| दस्तावेज           | .... | .... | अधिकार-पत्र, लिखत          |
| दस्तावेज अमानत     | .... | .... | न्याय-पत्र                 |
| दस्तावेज इन्तकाल   | .... | .... | हस्तान्तर-पत्र             |

|                    |      |      |                             |
|--------------------|------|------|-----------------------------|
| दस्तूर             | .... | .... | चलन                         |
| दस्तूरी            | .... | .... | आदत                         |
| दाई                | .... | .... | नातृका                      |
| दाखला              | .... | .... | प्रवेश                      |
| दाखिल खारिज        | .... | .... | नाम-परिवर्तन, नामान्तर      |
| दादरसी             | .... | .... | सहायता                      |
| दादरसी खास         | .... | .... | निर्दिष्ट सहायता            |
| दादरसी मुस्तलजिमा  | .... | .... | परिणामभूत सहायता            |
| दाद सितद           | .... | .... | कारवार, लेन-देन             |
| दायर करना          | .... | .... | प्रस्तुत करना, स्थापित करना |
| दावा इस्तकरार हक   | .... | .... | स्वत्वज्ञापक वाद            |
| दावा हिसाब फहमी    | .... | .... | गणन-वाद                     |
| दावा हुक्म इस्तनाई | .... | .... | निषेधाज्ञा-वाद              |
| दिक्रत             | .... | .... | असुविधा                     |
| दिमाग              | .... | .... | मस्तिष्क                    |
| दिमार्गी           | .... | .... | मानसिक                      |
| दीगर               | .... | .... | अन्य                        |
| दीदोदानिस्ता       | .... | .... | जानबूझकर, विचार पूर्वक      |
| दीवाचा             | .... | .... | प्राक्कथन                   |
| दीवानी             | .... | .... | सम्पत्ति सम्बन्धी           |
| दुख्तर             | .... | .... | पुत्री                      |
| दुड्मन             | .... | .... | शत्रु                       |
| देहाती             | .... | .... | ग्राम्य                     |
| दोस्त              | .... | .... | मित्र                       |
| दौरान              | .... | .... | मध्य में, बीच में           |
| दौरान तहकीकात      | .... | .... | विचार काल में               |



|             |      |      |                                |
|-------------|------|------|--------------------------------|
| नकत्र जनी   | .... | .... | सँघ लगाना                      |
| नकल         | .... | .... | प्रतिलिपि                      |
| नकीज        | .... | .... | विरोध, शत्रुता                 |
| नकज अमन     | .... | .... | शान्ति-भंग                     |
| नकशा        | .... | .... | रेखा-चित्र, सारिणी, विवरण-पत्र |
| नकशा इमारत  | .... | .... | मान-चित्र                      |
| नखुद        | .... | .... | चना                            |
| नजर अन्दाज  | .... | .... | उपेक्षा करना                   |
| नजर सानी    | .... | .... | पुनर्विचार                     |
| नजराना      | .... | .... | भेंट                           |
| नजात        | .... | .... | मोक्ष                          |
| नजीर        | .... | .... | दृष्टान्त, निर्धारित सिद्धान्त |
| नज्म व नस्क | .... | .... | प्रबन्ध और व्यवस्था            |
| नतीजा       | .... | .... | परिणाम, फल                     |
| नफरत        | .... | .... | वृणा                           |
| नफा         | .... | .... | लाभ                            |
| नमूद        | .... | .... | विकाश                          |
| नमूना       | .... | .... | वानगी, प्रतिरूप                |
| नशा         | .... | .... | मादकता                         |
| नस्ल        | .... | .... | वंश                            |
| नस्लकशी     | .... | .... | वंश-वृद्धि                     |
| नविस्त      | .... | .... | लिपि                           |
| नहज         | .... | .... | प्रकार, रंगदंग                 |
| नाउम्मेद    | .... | .... | निराश                          |
| नाउम्मेदी   | .... | .... | नैराध्य                        |
| नाक़ाफ़ी    | .... | .... | अपर्याप्त                      |

|                    |      |                                       |
|--------------------|------|---------------------------------------|
| नाकाबलियत ....     | .... | अयोग्यता, अशक्तता                     |
| नाकाबिल अदखाल      | .... | अग्राह्य                              |
| नाकाबिल अमल        | .... | असाध्य                                |
| नाकाबिल इन्फिसाख   | .... | अखण्डनीय                              |
| नाकाबिल ऐतवार      | .... | अविश्वसनीय                            |
| नाकाबिल ऐतराज      | .... | निर्विवाद                             |
| नाकाबिल काश्त      | .... | कृषि-अयोग्य                           |
| नाकाबिल जमानत      | .... | प्रतिभृति-अयोग्य                      |
| नाकाबिल तकसीम      | .... | अविभाज्य                              |
| नाकाबिल तरदीद      | .... | अखण्डनीय                              |
| नाकाबिल दस्तन्दाजी | .... | हस्तक्षेप-अयोग्य                      |
| नाकाबिल राजोनामा   | .... | समझौते के अयोग्य                      |
| नाकामयाव ....      | .... | असफल                                  |
| नाकारा ....        | .... | अयोग्य, व्यर्थ                        |
| नाकिस ....         | .... | दोषपूर्ण                              |
| नागहानी ....       | .... | अचानक                                 |
| नागुजीर ....       | .... | अनिवार्य, अपरिहार्य                   |
| नाजवाजी ....       | .... | अवैधता                                |
| नाजायज ....        | .... | वर्जित, अनुचित, अनधिकारपूर्ण,<br>अवैध |
| नातिक ....         | .... | अन्तिम                                |
| नान नफका ....      | .... | भरण-पोषण                              |
| नाफिन्न होना ....  | .... | प्रयोग में आना                        |
| नाफिजुल वक्त....   | .... | प्रचलित, तत्कालीन                     |
| नावालिग ....       | .... | अवयस्क                                |
| नामजद ....         | .... | नामांकित, नियोजित                     |

|                                  |      |      |  |
|----------------------------------|------|------|--|
| नामंजूर                          | .... | .... | अस्वीकार                               |
| नामंजूरी                         | .... | .... | अस्वीकृति                              |
| नामर्दी                          | .... | .... | नपुंसकता                               |
| नामुकम्मिल                       | .... | .... | अपूर्ण                                 |
| नामुनासिव                        | .... | .... | अनुपयुक्त, अनुचित                      |
| नामुमकिन                         | .... | .... | असम्भव                                 |
| नालिश                            | .... | .... | वाद                                    |
| नालिश करना                       | .... | .... | वाद प्रस्तुत करना                      |
| नालिश वावत इन्तजाम जायदाद        |      |      | सम्पत्ति प्रवन्ध सम्बन्धी वाद          |
| नालिश जुदागाना मजामीन            | .... |      | भिन्न विषयक वाद                        |
| नालिश तकसीम                      | .... |      | विभाजन वाद                             |
| नालिश नान व नफका                 | .... |      | भरण पोषण वाद                           |
| नालिश वासलात                     | .... |      | अन्तर्भूत लाभ सम्बन्धी वाद             |
| नालिश का साकित होना              | .... |      | अभियोग पात                             |
| नालिश इन्फकाक रहन                | .... |      | वन्धक मोचन वाद                         |
| नालिश हुक्म इम्तनाई              | .... |      | निषेधाज्ञा वाद                         |
| नालिश तसफिया बैनउल मुतना-<br>जईन |      |      | पारस्परिक विरोध निर्णय सम्बन्धी<br>वाद |
| नालिश वेदखली                     | .... |      | निष्कासन वाद                           |
| नालिश वयवात                      | .... |      | मोचनाधिकार लोपन वाद                    |
| नालिश हर्जा                      | .... | .... | क्षति पूर्ति वाद                       |
| नावाकफियत                        | .... | .... | अनभिज्ञता                              |
| नाश                              | .... | .... | शव                                     |
| निगरानी                          | .... | .... | पुनरवलोकन                              |
| निजा फैसलशुदा                    | .... | .... | पूर्व निर्णीत                          |
| निफाज                            | .... | .... | प्रवर्तन, प्रचलन                       |

|               |      |      |                            |
|---------------|------|------|----------------------------|
| निशान         | .... | .... | चिन्ह                      |
| निशान अंगुस्त | .... | .... | उंगली की छाप               |
| निशान तिजारत  | .... | .... | व्यापार-चिन्ह              |
| निशान मिळिकयत | .... | .... | सम्पत्ति-चिन्ह             |
| निशानी        | .... | .... | चिन्ह                      |
| निस्फ हिस्ता  | .... | .... | अर्धभाग                    |
| निस्त्रत      | .... | .... | सम्बन्ध                    |
| नीयत          | .... | .... | प्रेरक भाव                 |
| नीलाम         | .... | .... | घोष विक्रय                 |
| नुकरई         | .... | .... | चाँदी का                   |
| नुक्सान       | .... | .... | हानि, क्षति                |
| नुक्सान रसानी | .... | .... | हानिकर उपद्रव              |
| नुक्सं        | .... | .... | कमी, दोष                   |
| नुमायाँ       | .... | .... | सहज गोचर                   |
| नेक चलनी      | .... | .... | सदाचार                     |
| नेकनियती      | .... | .... | शुद्ध अन्तःकरण, सद्भाव     |
| नौइयत         | .... | .... | प्रकार                     |
| नौकर          | .... | .... | सेवक                       |
| नौकरशाही      | .... | .... | कर्मचारी-तंत्र             |
| नौवत          | .... | .... | स्थिति                     |
| पंच फैसला     | .... | .... | पंच निर्णय                 |
| पनाह          | .... | .... | प्रश्रय                    |
| परस्तिशगाह    | .... | .... | देवस्थान, पूजा स्थान       |
| परवाना        | .... | .... | अनुमति-पत्र                |
| पसोपेश        | .... | .... | संकोच                      |
| पसन्दीदा      | .... | .... | वाञ्छनीय, अभिप्रेत, इच्छित |
| पसमाँदा       | .... | .... | उत्तर-जीवी                 |

|                |      |      |                |
|----------------|------|------|----------------|
| पावन्द         | .... | .... | वद्ध           |
| पावन्दी        | .... | .... | पालन करना      |
| पिदरी द्वाव    | .... | .... | पैतृक प्रभाव   |
| पुस्तगी        | .... | .... | परिपक्वता      |
| पुस्त          | .... | .... | पीढ़ी, पीठ     |
| पेश            | .... | .... | प्रस्तुति      |
| पेशगी          | .... | .... | अग्रिम व्ययाना |
| पेशनामा        | .... | .... | कार्यक्रम      |
| पेशवन्दी       | .... | .... | प्रत्याशा      |
| पेशरौ          | .... | .... | पूर्वज         |
| पेशा           | .... | .... | व्यवसाय, धन्या |
| पैगाम          | .... | .... | सन्देश         |
| पैदायश         | .... | .... | जन्म           |
| पैदावार        | .... | .... | उपज            |
| पैमाना         | .... | .... | माप            |
| पैरवी          | .... | .... | पक्ष-समर्थन    |
| पोता           | .... | .... | पौत्र          |
| पोशीदा         | .... | .... | अप्रकट, गुप्त  |
| फरार होना      | .... | .... | भाग जाना       |
| फराहम          | .... | .... | एकत्रित        |
| फरियादी        | .... | .... | अभियोगी        |
| फरीक           | .... | .... | पक्षकार        |
| फरीक मुत्तालिक | .... | .... | विरोधी पक्षकार |
| फरीक सानी      | .... | .... | प्रतिपक्षी     |
| फरीसिन्दा      | .... | .... | प्रेषक         |
| फरेव           | .... | .... | कपट, प्रवञ्चना |
| फरेवाना        | .... | .... | कपटमय          |

|                          |      |                    |
|--------------------------|------|--------------------|
| फरोख्त ( वय )            | .... | विक्रय             |
| फर्क ( इस्तेलाफ ),       | .... | अन्तर, भेद         |
| फरोगुजास्त ....          | .... | मूल चूक, उपेक्षा   |
| फर्द                     | .... | कर्तव्य            |
| फर्दी                    | .... | कल्पित             |
| फर्द                     | .... | सूची               |
| फर्द करारदाद जुर्म       | .... | आरोप-पत्र          |
| फर्मावरदारी              | .... | आज्ञापालन          |
| फाजिल                    | .... | अतिरिक्त           |
| फानी                     | .... | क्षयशील            |
| फायक                     | .... | श्रेष्ठ            |
| फायदा                    | .... | लाभ, सुविधा        |
| फामिद                    | .... | दूषित, अनियमित     |
| फिकरा                    | .... | पद                 |
| फिनूर                    | .... | अस्वस्थ            |
| फिनूरे नकल               | .... | पागलपन             |
| फिरका                    | .... | सम्प्रदाय          |
| फिसाद अंगेजी             | .... | राजद्रोह           |
| फिन्त                    | .... | खड्डिन             |
| फेल् बेजा आविले नालिश    | .... | व्यवहार्य हानियाँ  |
| फेहरिन्त                 | .... | तालिका, सूची       |
| फेहरिस्त सुतबदिक इन्तहाद | .... | निर्वाचक नानावली   |
| फेल् नाजायज              | .... | अनधिकारपूर्ण कार्य |
| फैसल                     | .... | निर्णय, निरूपण     |

|                 |      |      |                           |
|-----------------|------|------|---------------------------|
| फौहश            | .... | .... | अश्लील, अमद्र             |
| फौजदारी         | .... | .... | अपराध सम्बन्धी            |
| फौज             | .... | .... | सैन्य                     |
| फौजी अदालत....  |      | .... | सैनिक न्यायालय            |
| फौरन            | .... | .... | तुरन्त, तात्कालिक, तत्काल |
| वईद             | .... | .... | दूरस्थ, वाहर              |
| वाकफियत         | .... | .... | जानकारी                   |
| बकाया           | .... | .... | शेष                       |
| बगावत           | .... | .... | विद्रोह, राजद्रोह, उपद्रव |
| बजट             | .... | .... | अनुमान-पत्रक              |
| बजुज            | .... | .... | अतिरिक्त                  |
| बद अमल          | .... | .... | दूषित व्यवहार             |
| बद इन्तजामी.... |      | .... | कुप्रबन्ध                 |
| बद चलनी         | .... | .... | दुराचरण                   |
| बदनजमी          | .... | .... | कुप्रबन्ध                 |
| बदनाम           | .... | .... | कुप्रसिद्ध                |
| बदनियती         | .... | .... | दुर्भाव                   |
| बदल             | .... | .... | प्रतिफल                   |
| बदवजई           | .... | .... | दुराचरण                   |
| बदसलूक          | .... | .... | दुर्व्यवहार               |
| बनाम            | .... | .... | विलुद्ध                   |
| बनावटी          | .... | .... | कृत्रिम                   |
| बन्द सवालात.... |      | .... | लिखित प्रश्न              |
| बन्दोवस्त       | .... | .... | राजस्व-निर्णय             |
| बयनामा          | ...  | .... | विक्रय-पत्र               |
| बयवात           | .... | .... | लोपन                      |

|                 |      |  |
|-----------------|------|--|
| वयदिल वफा....   | .... | सप्रतिदन्व विक्रय                            |
| वयान ....       | .... | कथन  |
| वयान तहरीरी     | .... | लिखित वक्तव्य                                |
| वयान हलकी ....  | .... | शपथ-पत्र                                     |
| वरतास्त ....    | .... | पदच्युत                                      |
| वरी अज तयस्तीस  | .... | राजस्वमुक्त, भूमिकरमुक्त                     |
| वरी अजिनगी .... | .... | भार वृक्ति, छुटकारा                          |
| वरी ....        | .... | मुक्त  |
| वरीयत ....      | .... | वृक्ति                                       |
| वके ....        | .... | विद्युत                                      |
| वलदा ....       | .... | दंगा   |
| वहन पहुँचाना    | .... | पूर्ति करना                                  |
| वहरी ....       | .... | समुद्री                                      |
| वहस ....        | .... | विवाद  |
| वहाल करना ....  | .... | पुनः स्थापित करना, पुष्टि करना<br>( निर्णय ) |
| वहसाद रमदी      | .... | आनुपातिक                                     |
| वा असर ....     | .... | प्रभावशील                                    |
| वाकना दनकीड तलव | .... | वाद-हेतु-वदना                                |
| वाकिरा ....     | .... | कुमारी                                       |
| वाकी ....       | .... | अवशिष्ट, शेष                                 |
| वागी ....       | .... | विद्रोही                                     |
| वाज रतना ....   | .... | शोक रतना                                     |
| वाज रहना ...    | .... | विरत रहना                                    |
| वाजावन ....     | .... | नियमित, व्यवस्थित, यथाविधि                   |
| वाजी ....       | .... | होड़   |



|                  |      |      |                              |
|------------------|------|------|------------------------------|
| वातिल            | .... | .... | निष्फल, व्यर्थ               |
| वादि उन्नजर      | .... | .... | प्रथम दृष्टि में             |
| वानी             | .... | .... | संस्थापक                     |
| वाव              | .... | .... | अध्याय                       |
| वावर             | .... | .... | भरोसा                        |
| वाया             | .... | .... | विक्रेता                     |
| वार              | .... | .... | भार                          |
| वार सव्रुत       | .... | .... | प्रमाण भार                   |
| वालादस्त         | .... | .... | वरिष्ठ                       |
| वालिंग           | .... | .... | वयस्क                        |
| वालिहाज ओहदा     | .... | .... | पद के अनुसार                 |
| वावस्फ, वावजूद   | .... | .... | यद्यपि                       |
| वाशिन्दा         | .... | .... | निवासी                       |
| वाहमी            | .... | .... | पारस्परिक                    |
| वाहरकत           | .... | .... | गतिशील                       |
| विनाय दावा       | .... | .... | वाद-हेतु                     |
| विरादर अत्तयाफी  | .... | .... | वैपत्रै यसहोदर भाई           |
| विरादरी से खारिज | .... | .... | जाति-च्युत                   |
| विरादरे रजाई     | .... | .... | घा भाई                       |
| विरादर हक्कीकी   | .... | .... | सगा भाई                      |
| विलइजमाल         | .... | .... | संयुक्त अविभक्त              |
| विल इरादा        | .... | .... | अभिप्राय पूर्वक, स्वेच्छा से |
| विला इस्तियार    | .... | .... | अनधिकृत                      |
| विला मजाहमत      | .... | .... | वे रोक                       |
| विला बदल         | .... | .... | निर्मूल्य, प्रतिफल रहित      |
| वुत              | .... | .... | मूर्ति                       |

|                     |      |      |                         |
|---------------------|------|------|-------------------------|
| बुनियाद             | ...  | .... | आधार                    |
| बेअसर               | .... | .... | प्रभावहीन               |
| बेहज्जती            | .... | .... | अनादर                   |
| बेइन्साफी           | .... | .... | अन्याय                  |
| बेएहत्तियाती से     |      | .... | अन्धाधुन्ध, असावधानी से |
| बेइ मवेशी           | .... | .... | पशु-अपहरण               |
| बेगुनाह             | .... | .... | निरपराध                 |
| बेजावतगी            | .... | .... | अनियमितता               |
| बेदखल करना....      |      | .... | आधिपत्यच्युत करना       |
| बेनजमी              | .... | .... | अव्यवस्था               |
| बेवाक               | .... | .... | चूकता                   |
| बेबुनियाद           | .... | .... | निराधार                 |
| बेरहमी              | .... | .... | निर्दयता                |
| बेवा                | .... | .... | विधवा                   |
| बेसबरी              | .... | .... | असन्तोष                 |
| बेहथियार करना       |      | .... | निःशस्त्रीकरण           |
| बेहद                | .... | .... | अत्यधिक                 |
| बोसीदा              | .... | .... | पुराना, जीर्ण           |
| भक से उड़ जाने वाला |      | .... | विस्फोटक                |
| भड़काना             | .... | .... | उत्तेजित करना           |
| मंजूरी              | .... | .... | अनुमोदन, स्वीकृति       |
| मन्शा               | .... | .... | आशय, उद्देश्य           |
| मन्सूख              | .... | .... | निरस्त, खण्डन           |
| मन्सूखी             | .... | .... | निरसन                   |
| मकरूज               | .... | .... | ऋणश्रस्त                |
| मकसूद               | .... | .... | इच्छित                  |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| मखफी मदाखलत वेजा बखाना....  | छिपकर गृह-अतिक्रम  |
| मखसूस ....                  | निर्दिष्ट          |
| मजदूर ....                  | श्रमिक             |
| मजनून ....                  | पागल               |
| मजबूर करना ....             | विवश करना          |
| मजमा ....                   | जमाव               |
| मजमुआ ....                  | संग्रह             |
| मजमूर्ई ....                | एकत्रित, संचित     |
| मजमून ....                  | विषय               |
| मजमून तौजीही                | उद्धरण             |
| मजरत ....                   | हानिकर             |
| मजलिस वाजआने कानून          | व्यवस्थापक मण्डल   |
| मजहका ....                  | उपहास              |
| मजहका आमेज तस्वीर           | व्यंग्य चित्र      |
| मजहवी ....                  | धार्मिक            |
| मजाज ....                   | अधिकृत, सक्षम      |
| मजारा ....                  | कृषक               |
| मजाइमत ....                 | रोक, विघ्न, बाधा   |
| मजीद ....                   | अतिरिक्त           |
| मदद ....                    | सहायता             |
| मदयून डिकी ....             | निर्गीत ऋणी        |
| मदाखलत वेजा                 | अतिक्रम            |
| मदाखलत वेजा बखाना           | गृह-अतिक्रम        |
| मदाखलत वेजा बखाना मुजरिमाना | सापराध गृह-अतिक्रम |
| मदार ....                   | आधार, आश्रय        |
| मनकूला ....                 | जंगम               |

|                 |      |      |                        |
|-----------------|------|------|------------------------|
| मफहूम           | .... | .... | भाव, आशय               |
| ममनूअ           | .... | .... | वर्जित, निषिद्ध        |
| मयस्सर          | .... | .... | उपलब्ध                 |
| मयार            | .... | .... | माप                    |
| मरकवतरी         | .... | .... | जलयान                  |
| मरकूम           | .... | .... | लिखित                  |
| मर्ज ववाई       | .... | .... | संक्रामक रोग           |
| मर्जी           | .... | .... | इच्छा                  |
| मर्तजा          | .... | .... | वार, पद                |
| मर्दुम शुमारी   | .... | .... | जन-गणना                |
| मलामत           | .... | .... | भर्त्सना               |
| मशककत ताजीरी    | .... | .... | सपरिश्रम कारादण्ड      |
| मशवरा           | .... | .... | परामर्श                |
| मसनूई           | .... | .... | कृत्रिम, काल्पनिक      |
| मसविदा          | .... | .... | आलेख                   |
| मसावी           | .... | .... | तुल्य, समान, सहगामी    |
| महज             | .... | .... | साधारण                 |
| महदूद           | .... | .... | सीमित, मर्यादित        |
| महनत            | .... | .... | परिश्रम, श्रम          |
| महहूज           | .... | .... | सुरक्षित               |
| महरवान          | .... | .... | दयालु                  |
| महरवानो         | .... | .... | अनुकम्पा, अनुग्रह, दया |
| महर मुअज्जल.... | .... | .... | प्रस्तुत स्त्री शुल्क  |
| महरूम           | .... | .... | वंचित                  |
| महवर            | .... | .... | धुरी                   |
| महसूल आमदनी     | .... | .... | आय-कर                  |

|                    |      |      |                              |
|--------------------|------|------|------------------------------|
| महसूल              | .... | .... | कर, चुंगी                    |
| महसूल तमाशा        |      | .... | मनोरंजन-कर                   |
| नहारत              | .... | .... | अभ्यास, दक्षता               |
| माकळ               | .... | .... | पूर्ववर्ती                   |
| माकूल              | .... | .... | उपयुक्त, यथोचित, न्याय-युक्त |
| माजूर              | .... | .... | असमर्थ                       |
| मातहत              | .... | .... | अधीनस्थ                      |
| मातूफा             | .... | .... | संलग्न                       |
| मादलत गुस्तरी      |      | .... | न्यायदान                     |
| मादूम करना         | .... | .... | समाप्त करना                  |
| माही               | .... | .... | स्पर्शनीय                    |
| मानवी              | .... | .... | गर्भित                       |
| मानीदार            | .... | .... | अर्थ-पूर्ण                   |
| मानै तकरीर मुखालिफ |      | .... | भाषण-प्रतिरोध                |
| नाफी               | .... | .... | क्षमा                        |
| मावाद              | .... | .... | पश्चात्पूर्ती, परवर्ती       |
| मामून लहू          | .... | .... | हिताधिकारी                   |
| नामूली             | .... | .... | साधारण                       |
| माखफ               | .... | .... | खास, प्रसिद्ध                |
| नाल असवाव          | .... | .... | मालमत्ता                     |
| मालगुजार           | .... | .... | भूमिकरदाता                   |
| नालगुजारी          | .... | .... | राजस्व, भूमिकर               |
| मालदार             | .... | .... | धनी                          |
| माल मसरूका         |      | .... | चोरी की सम्पत्ति             |
| मालिक              | .... | .... | स्वामी                       |
| मालिक गालिब        |      | .... | प्रमुख स्वामी                |

|              |      |   |
|--------------|------|---|
| मालिक शरीक   | .... | सह-स्वामी                                 |
| मालिकाना     | .... | स्वामित्व सम्बन्धी                        |
| माली         | .... | अर्थ सम्बन्धी, आर्थिक                     |
| माहिर        | .... | चतुर, निपुण, विशेषज्ञ                     |
| मिकदार       | .... | परिमाण                                    |
| मिनहार्ई     | .... | कमी करना                                  |
| मियाद        | .... | अवधि                                      |
| मियादी       | .... | नियत कालिक                                |
| मिलावट       | .... | सन्मिश्रण                                 |
| मिल्कियत     | .... | स्वामित्व                                 |
| मिस्नार करना | .... | विध्वंस करना                              |
| मिसल         | .... | पत्र-संग्रह                               |
| मिसाल        | .... | उदाहरण                                    |
| मीर मजलिस    | .... | सभापति, अध्यक्ष                           |
| मुअज्जिज     | .... | प्रतिष्ठित                                |
| मुअत्तिल     | .... | स्थगित, अस्थायी रूप से पद से प्रयत्न करना |
| मुआफी        | .... | छूट, क्षमा                                |
| मुआफिक       | .... | अनुरूप                                    |
| मुअय्यन      | .... | निश्चित                                   |
| मुआयना       | .... | निरीक्षण                                  |
| मुआवजा       | .... | क्षतिपूर्ति                               |
| मुआविन       | .... | सहायक, प्रोत्साहक                         |
| मुआहिदा      | .... | अनुबन्ध                                   |
| मुईन         | .... | प्रोत्साहक                                |
| मुकद्दम      | .... | अग्रिम                                    |
| मुकद्मा      | .... | वाद                                       |
| मुकम्मिल     | .... | सम्पूर्ण                                  |
| मुकाबला      | .... | प्रतियोगता, तुलना                         |

|                 |      |      |                               |
|-----------------|------|------|-------------------------------|
| मुकामी          | .... | .... | स्थानीय                       |
| मुकामी रकबा     | .... | .... | स्थानीय क्षेत्र               |
| मुकामे मकसूद    | .... | .... | निर्दिष्ट स्थान               |
| मुकिर           | .... | .... | वचन-दाता                      |
| मुकिरलहू        | .... | .... | वचन-ग्रहीता                   |
| मुखविर          | .... | .... | भेदिया                        |
| मुखालिफ         | .... | .... | विरुद्ध                       |
| मुखलिस          | .... | .... | नपुंसक                        |
| मुख्तसिर        | .... | .... | संक्षिप्त                     |
| मुख्तारनामा     | .... | .... | प्रतिनिधि-पत्र (अभिभाषण-पत्र) |
| मुगालता         | .... | .... | भ्रान्ति                      |
| मुचलका          | .... | .... | प्रतिज्ञा-पत्र                |
| मुजरिम          | .... | .... | दोषी, अपराधी                  |
| मुजरिमियत       | .... | .... | अपराध-सिद्धि                  |
| मुजव्विजा       | .... | .... | नियोजित                       |
| मुजस्सिम हाजिरी | .... | .... | सशरीर उपस्थिति                |
| मुजहिर          | .... | .... | कथन करनेवाला                  |
| मुजामअत         | .... | .... | मैथुन                         |
| मुजाहमत         | .... | .... | वाधा, रुकावट                  |
| मुजाहमत वैजा    | .... | .... | अनधिकार रोक                   |
| मुजाहिम होना    | .... | .... | बीच में रोकना                 |
| मुजिर           | .... | .... | हानिकर ( हानिकारक )           |
| मुतअफी          | .... | .... | स्पर्शजन्य                    |
| मुतअल्लिका      | .... | .... | सम्बद्ध                       |
| मुतफरिंक        | .... | .... | विविध                         |
| मुतवन्ना        | .... | .... | दत्तक                         |

|               |      |      |                                  |
|---------------|------|------|----------------------------------|
| मुत्तरज्जिम   | .... | .... | द्विभाषिया, अनुवादक              |
| मुत्तल्लिकीन  | .... | .... | सम्बन्धित                        |
| मुत्तवफ्फा    | .... | .... | मृत                              |
| मुत्तबर्रिक   | .... | .... | पवित्र                           |
| मुत्ताला      | .... | .... | परिदर्शन, अध्ययन                 |
| मुत्ताल्लिका  | .... | .... | सम्बद्ध, सम्बन्धित               |
| मुत्तास्सिव   | .... | .... | पक्षपाती                         |
| मुत्तफिक राय  | .... | .... | सर्वसम्मत, सहमति                 |
| मुत्तसिला     | .... | .... | निकटवर्ती                        |
| मुत्तहिदा     | .... | .... | संयुक्त                          |
| मुत्तहर्रिक   | .... | .... | उत्तेजक, चालक                    |
| मुद्दई        | .... | .... | वादी                             |
| मुद्दती       | .... | .... | अवधि-वाधित                       |
| मुद्दाअलेह    | .... | .... | प्रतिवादी                        |
| मुनअकिद       | .... | .... | आयोजित                           |
| मुनकजी होना   | .... | .... | व्यतीत हो जाना                   |
| मुनकज         | .... | .... | चिन्हित                          |
| मुनकशिफ करना  | .... | .... | सोज करना                         |
| मुनजब्ता      | .... | .... | राजसातकृत                        |
| मुनाफा        | .... | .... | लाम                              |
| मुनाफा रसदी   | .... | .... | लामाँश                           |
| मुनासिव       | .... | .... | उचित                             |
| मुन्तकिल इलेह | .... | .... | हस्तान्तर-ग्रहीता                |
| मुन्तकिल करना | .... | .... | स्वत्वार्पण करना, हस्तान्तर करना |
| मुन्तकिली     | .... | .... | स्थानान्तर, हस्तान्तर            |
| मुन्तजिम      | .... | .... | प्रबन्धक                         |



|               |      |                       |
|---------------|------|-----------------------|
| मुन्तशिर करना | .... | तितर बितर करना        |
| मुफलिस        | .... | कंगाल, निर्धन         |
| मुफव्विजइलैह  | .... | स्वत्वार्पण-अर्हीता   |
| मुफत्सिल      | .... | व्यौरेवार             |
| मुवाहसा       | .... | तर्क                  |
| मुमाकिन       | .... | सम्भाव्य              |
| मुमताज        | .... | प्रख्यात, श्रेष्ठ     |
| मुमानियत      | .... | निषेध, रोक            |
| मुरत्तिव करना | .... | निर्माण करना, बनाना   |
| मुरव्विज      | .... | प्रचलित               |
| मुराद         | .... | आशय                   |
| मुर्तहिन      | .... | बन्धक-अर्हीता         |
| मुल्क         | .... | प्रदेश                |
| मुलहिक        | .... | समीपस्थ               |
| मुलजिम        | .... | अभियुक्त              |
| मुलाजिम       | .... | सेवक, कर्मचारी        |
| मुल्क मातहत   | .... | अधीन राज्य            |
| मुल्की        | .... | प्रादेशिक             |
| मुल्तविस      | .... | नकली                  |
| मुल्तवी करना  | .... | स्थगित करना           |
| मुवक्किल      | .... | व्यवहारी              |
| मुवात्तजा     | .... | ऋणभार                 |
| मुशावहत       | .... | अनुत्पत्ता            |
| मुशर्रह       | .... | विवरणपूर्ण, व्यौरेवार |
| मुस्तबह       | .... | सन्देहजनक, संदिग्ध    |
| मुस्तहर       | .... | घोषित, प्रकाशित       |

|                      |      |      |  |
|----------------------|------|------|--|
| मुश्तरी              | .... | .... | क्रेता, खरीदनेवाला                       |
| मुश्तर्का            | .... | .... | संयुक्त                                  |
| मुश्तर्कन            | .... | .... | संयुक्त रूप में                          |
| मुनफर्दन             | .... | .... | प्रथक प्रथक रूप में                      |
| मुश्तहर करना         | .... | .... | विज्ञापन करना, प्रकाशित करना             |
| मुसद्दिका            | .... | .... | साक्ष्य युक्त, प्रमाणित                  |
| मुसन्ना              | .... | .... | दूसरी प्रति                              |
| मुसलसिल              | .... | .... | क्रमानुसार, अविरल, लगातार                |
| मुसलम                | .... | .... | स्वीकृत, पूरा                            |
| मुस्तअमिल            | .... | .... | प्रचलित                                  |
| मुस्तकिल             | .... | .... | स्थायी                                   |
| मुस्तगीस ( फरियादी ) | .... | .... | अभियोगी                                  |
| मुस्तरद करना         | .... | .... | खण्डन करना, असत्य सिद्ध करना<br>उलट देना |
| मुस्तलजिमा           | .... | .... | परिणामभूत, आवश्यक                        |
| मुस्तसना             | .... | .... | अपवाद                                    |
| मुस्तहक करना         | .... | .... | स्वत्वाधिकार देना                        |
| मुस्तहकम             | .... | .... | निश्चयात्मक                              |
| मुस्तोजिव            | .... | .... | भागी                                     |
| मुहव्वत              | .... | .... | प्रेम                                    |
| मुहलिक               | .... | .... | घातक                                     |
| मुहाफिज              | .... | .... | संरक्षक                                  |
| मूरिस                | .... | .... | पूर्वज                                   |
| मूसी                 | .... | .... | उत्तरदान-कर्ता, मृत्यु-पत्र-कर्ता        |
| मेहनताना             | .... | .... | पारिश्रमिक                               |
| मेहनती               | .... | .... | उद्यमी                                   |

|                |      |      |                            |
|----------------|------|------|----------------------------|
| मोहतमिम        | .... | .... | प्रबन्धक, संचालक           |
| मोहमिल         | .... | .... | द्वयर्थक, अस्पष्ट          |
| मोहर           | .... | .... | मुद्रा                     |
| मोहवइलेह       | .... | .... | दान-ग्रहीता                |
| मौका           | .... | .... | घटना-स्थल, स्थिति, अवसर    |
| मौकफ होना      | .... | .... | समाप्त होना, पदच्युत होना  |
| मौजा           | .... | .... | गाँव                       |
| मौजूद          | .... | .... | विद्यमान, उपस्थित, वर्तमान |
| मौसूल          | .... | .... | प्रात                      |
| मौत            | .... | .... | मृत्यु                     |
| मौरूसी         | .... | .... | वंशानुगत                   |
| मौहबा          | .... | .... | दान की हुई, प्रदत्त        |
| यकजा करना      | .... | .... | एकत्रित करना               |
| यकमुस्त        | .... | .... | इकट्ठा                     |
| यकीन           | .... | .... | भरोसा                      |
| यतीम           | .... | .... | अनाथ                       |
| यादगार         | .... | .... | स्मारक                     |
| याददास्त       | .... | .... | स्मरण-लेख, स्मरण-शक्ति     |
| रंजदिही        | .... | .... | उद्वेजन, खिजाना            |
| रंज पहुँचा हुआ | .... | .... | दुःखित                     |
| रकबा           | .... | .... | क्षेत्र                    |
| रजा            | .... | .... | सहमति                      |
| रजामन्दी       | .... | .... | स्वीकृति                   |
| रफीक           | .... | .... | वाद-भ्रतिनिधि              |
| रसाई           | .... | .... | पहुँच                      |
| रसीद           | .... | .... | पावती                      |
| रसम अदालत      | .... | .... | न्याय-शुल्क                |

|                    |      |                                |
|--------------------|------|--------------------------------|
| रसूम हुकमनामा      | .... | आज्ञापत्र-शुल्क                |
| रहजनी              | .... | वटमारी                         |
| रहन                | .... | बन्धक                          |
| रहन वय विल बफा     | .... | सप्रतिबन्ध विक्रय द्वारा बन्धक |
| रहन विल कब्ज       | .... | भोग-बन्धक                      |
| रहन सादा           | .... | साधारण बन्धक                   |
| रहनुमाई            | .... | पथ-प्रदर्शन                    |
| रहम                | .... | गर्भाशय, दया                   |
| रागिव करना         | .... | फुसलाना                        |
| राज पोशीदा         | .... | गुप्त भेद                      |
| राजीनामा           | .... | समझौता                         |
| राय                | .... | मत                             |
| रायज सिक्का        | .... | चाल. मुद्रा                    |
| रायजुल वक्त        | .... | प्रचलित                        |
| राय दिहन्दा        | .... | मतदाता                         |
| राहजन              | .... | वटमार                          |
| राह                | .... | मार्ग                          |
| राहिन              | .... | बन्धक-कर्ता                    |
| रिआयत              | .... | सुविधा                         |
| रियासत             | .... | राज्य                          |
| रिवाज              | .... | आचार, रीति                     |
| रिस्ता             | .... | सम्बन्ध                        |
| रिस्ता मुनकता करना | .... | सम्बन्ध विच्छेद करना           |
| रिस्तेदार          | .... | सम्बन्धी                       |
| रिस्वत             | .... | धूस ( उत्कोच )                 |
| रिहाई              | .... | छुटकारा                        |

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| रिहा करना ....    | ..... छोड़ना                     |
| रत्नसत रिआयती     | ..... ऐच्छिक हुद्दी              |
| रुजहान ....       | ..... प्रवृत्ति                  |
| रुवकार ....       | ..... आज्ञा-पत्र, प्रस्तुति-पत्र |
| रुयदाद ....       | ..... गुण-दोष                    |
| रुहानी ....       | ..... आध्यात्मिक                 |
| रय्यत ....        | ..... प्रजा                      |
| रोवरु ....        | ..... सामने, प्रत्यक्ष           |
| रोजनामचा ....     | ..... दैनन्दिनी                  |
| लकत्र ....        | ..... पद, उपाधि                  |
| लाजमी ....        | ..... पालनीय, आवश्यक, अनिवार्य   |
| लाताइल ....       | ..... तुच्छ                      |
| लावारिस ....      | ..... उत्तराधिकारहीन             |
| लावारिस माल....   | ..... उत्तराधिकारहीन सम्पत्ति    |
| वकील ....         | ..... अभिमाषक                    |
| वकुआ ....         | ..... घटना                       |
| वकूअ में आना....  | ..... संवदित होना, वदित होना     |
| वक्फ ....         | ..... दान, समर्पण                |
| वर्लीफा ....      | ..... वृत्ति                     |
| वर्लीर ....       | ..... सचिव, मंत्री               |
| वजीरे आलम ....    | ..... प्रधानमंत्री               |
| वजूद ....         | ..... अस्तित्व                   |
| वतै हैवान ....    | ..... पशु नैथुन                  |
| वफादार ....       | ..... राजभक्त, स्वामिमक्त        |
| वली ....          | ..... संरक्षक                    |
| वली दौरान मुकद्मा | ..... वादार्थ संरक्षक            |

|                     |      |      |                                   |
|---------------------|------|------|-----------------------------------|
| चसीका               | .... | .... | अधिकार-पत्र                       |
| चसीयत               | .... | .... | उत्तर-पत्र, उत्तरदान, मृत्यु-पत्र |
| चसीयतनामा मुसद्दिका |      | .... | प्रमाणित उत्तर-पत्र               |
| चसीला               | .... | .... | साधन                              |
| चसूल करना           | .... | .... | उगाहना                            |
| चस्फ                | .... | .... | गुण                               |
| चाकई                | .... | .... | वास्तव में, वास्तविक              |
| चाका                | .... | .... | घटना                              |
| चाका नागहानी....    |      | .... | आकस्मिक घटना                      |
| चाकिफ (चाकफियत)     |      | .... | जानकार (जानकारी)                  |
| चाजिव               | .... | .... | न्यायसंगत                         |
| चाजिवुल अदा....     |      | .... | देय, देने योग्य                   |
| चाजिवुल चसूल        |      | .... | प्राप्य                           |
| चाजेह               | .... | .... | स्पष्ट                            |
| चापिसी              | .... | .... | लौटाना, प्रत्यर्पण                |
| चारिस               | .... | .... | उत्तराधिकारी                      |
| चारिस शरीक          | .... | .... | सह-उत्तराधिकारी                   |
| चारिसे अदी          | .... | .... | भावो उत्तराधिकारी                 |
| चारिसे जाहिर        | .... | .... | प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी            |
| चारिसे माचाद        | .... | .... | प्रत्याशित उत्तराधिकारी           |
| चासलात              | .... | .... | अन्तर्भूत लाभ                     |
| चाहिद               | .... | .... | एकाकी                             |
| चासअत               | .... | .... | विस्तार                           |
| चीरान               | .... | .... | ऊजड़                              |
| चादरुवाही           | .... | .... | दुर्भाव                           |
| चातिल               | .... | .... | व्यर्थ                            |

|                    |      |                            |
|--------------------|------|----------------------------|
| वेवाकी करना ....   | .... | परिशोधन                    |
| शरूस ....          | .... | व्यक्ति                    |
| शजरा ....          | .... | वंशावली                    |
| शदीद ....          | .... | गम्भीर                     |
| शनाख्त करना....    | .... | पहिचानना                   |
| शबीह ....          | .... | प्रतिमा                    |
| शफी ....           | .... | अग्रक्रयाधिकारी            |
| शय ....            | .... | वस्तु                      |
| शरह ....           | .... | दर                         |
| शरायत अवरा....     | .... | हानिरक्षा, निष्कृति        |
| शरायत कम्पनी       | .... | संघनियम                    |
| शरारतन ....        | .... | दुष्टता से, अनुचित रीति से |
| शरीक ....          | .... | साझेदार                    |
| शरीक जुर्म ....    | .... | सह-अपराधी                  |
| शरीक मुलजिम        | .... | सह-अभियुक्त                |
| शरीक होना ....     | .... | भाग लेना                   |
| शर्त (शरायत)....   | .... | निर्वन्ध, प्रतिबन्ध        |
| शहरी ....          | .... | नागरिक                     |
| शहादत ....         | .... | साक्ष्य                    |
| शहादत ताईदी....    | .... | अनुमोदक साक्ष्य            |
| शहादत नकली....     | .... | गौण साक्ष्य                |
| शागिर्द ....       | .... | शिक्षार्थी                 |
| शामिल ....         | .... | सम्मिलित                   |
| शाया कुनिन्दा .... | .... | प्रकाशक                    |
| शाहन्शाह ....      | .... | सम्राट्                    |
| शाही ऐलान ....     | .... | राजाज्ञा                   |

|                            |      |      |                         |
|----------------------------|------|------|-------------------------|
| शाही भाफी                  | .... | .... | राज-शमा                 |
| शिकमी-कास्तकार             | .... | .... | उप किसान                |
| शिरकत                      | .... | .... | साझेदारी                |
| शुबह                       | .... | .... | सन्देह                  |
| शुमार                      | .... | .... | गणना                    |
| शुहरत                      | .... | .... | स्व्याति                |
| शै मुद्दावहा               | .... | .... | वाद-विषय-वस्तु          |
| शौहर                       | .... | .... | पति                     |
| संगीन                      | .... | .... | गम्भीर, गुलतम           |
| सकृत                       | .... | .... | चुप्पी, समाप्ति         |
| सकृत इस्तहकाक इनफिकाक रहन- |      |      | मोचन अधिकार का लोप करना |
| सकूनत                      | .... | .... | निवास स्थान             |
| सस्त                       | .... | .... | गम्भीर, सपरिश्रम        |
| सजा                        | .... | .... | दण्ड                    |
| सजायाफता                   | .... | .... | पूर्व-दण्डित            |
| सजाप मौत                   | .... | .... | मृत्यु-दण्ड             |
| सदर मुकाम                  | .... | .... | प्रधान स्थान            |
| सनद                        | .... | .... | प्रमाण-पत्र             |
| सनदयाफता                   | .... | .... | प्रमाणित                |
| सफाई                       | .... | .... | प्रतिकार                |
| सफौर ( एलची )              | .... | .... | राजदूत                  |
| सवूत                       | .... | .... | प्रमाण                  |
| सवूत कतई                   | .... | .... | अक्राद्य प्रमाण         |
| समन                        | .... | .... | आह्वान-पत्र             |
| समाअत                      | .... | .... | सुनवाई                  |
| समाअत करना                 | .... | .... | ग्रहण करना, सुनवाई करना |



|                |      |      |                |
|----------------|------|------|----------------|
| सगई            | .... | .... | जगदुति         |
| सगइर           | .... | .... | सगइर           |
| सगइरी          | .... | .... | सगइरीय         |
| सगइरी शत       | .... | .... | श्री संवत्सर   |
| सगइरी          | .... | .... | नेत्रा, दुखिया |
| सगइर           | .... | .... | संस्कृत        |
| सगइरी          | .... | .... | पूजा           |
| सगइरी तहशुआव   | .... | .... | संलिप्त विचार  |
| सगइर           | .... | .... | विचार          |
| सगइ            | .... | .... | सगइ, सगइ       |
| सगई            | .... | .... | चोरी           |
| सगई विरु जग    | .... | .... | सगइर           |
| सगइरी          | .... | .... | सगइ            |
| सगइर           | .... | .... | सगइर           |
| सगइर सुद नकार  | .... | .... | सगइर सगइर      |
| सगइर सगइरी     | .... | .... | सगइर           |
| सगइर           | .... | .... | सगइर           |
| सगइर शरीर सगइर | .... | .... | सगइर-सगइर      |
| सगइर विरु      | .... | .... | सगइर-सगइर      |
| सगइर सुगइरी    | .... | .... | सगइर-सगइर      |
| सगइर           | .... | .... | सगइर, सगइर     |
| सगइरी          | .... | .... | सगइर           |
| सगइरी उर सगइर  | .... | .... | सगइर सुगइरी    |
| सगइरी उर सगइर  | .... | .... | सगइर           |
| सगइरिये        | .... | .... | सगइरिये        |
| सगइर           | .... | .... | सगइर           |

|                 |      |      |                       |
|-----------------|------|------|-----------------------|
| साकिन           | .... | .... | निवासी                |
| साकितुल मिलिकयत | .... | .... | स्वामित्वच्युत        |
| सारुत           | .... | .... | निर्माण               |
| साजिश           | .... | .... | पड्यंत्र, कपट मंत्रणा |
| साजिश मुजरिमाना | .... | .... | सापराध पड्यंत्र       |
| साजिशी          | .... | .... | कपट-सन्धि पूर्ण       |
| सादी कैद        | .... | .... | साधारण कारावास        |
| साफ             | .... | .... | स्वच्छ                |
| साविक           | .... | .... | विगत                  |
| सावित करना      | .... | .... | सिद्ध करना            |
| सायल            | .... | .... | आवेदक, प्रार्थी       |
| सारिक           | .... | .... | चोर                   |
| साल             | .... | .... | वर्ष                  |
| सालाना          | .... | .... | वार्षिक               |
| सालाना वजीफा    | .... | .... | वार्षिक वृत्ति        |
| सालिस           | .... | .... | पंच                   |
| साहकार          | .... | .... | महाजन                 |
| सिका            | .... | .... | मुद्रा                |
| सिने बुल्ग      | .... | .... | वयस्काल               |
| सियाक इबारत     | .... | .... | प्रसंग                |
| सियासत          | .... | .... | राजनीति               |
| सियांसी         | .... | .... | राजनैतिक              |
| सिलसिला         | .... | .... | श्रृंखला, क्रम        |
| सिला            | .... | .... | फल                    |
| सिवाय जमा       | .... | .... | अतिरिक्त आय           |
| सीगा            | .... | .... | वर्ग                  |

|                 |      |                  |
|-----------------|------|------------------|
| सीगा मराफेउला   | .... | प्रारम्भिक वर्ग  |
| सुपर्दगी        | .... | अवतरण, सौपना     |
| सुबुकदोश        | .... | भारमुक्त         |
| सुराग लगाना     | .... | खोज निकालना      |
| सुल्तानी कैदी   | .... | राजवन्दी         |
| सुलह            | .... | सन्धि            |
| सुलहनामा        | .... | सन्धिपत्र        |
| सुल्स           | .... | भाग, अंश         |
| सूद             | .... | व्याज            |
| सैलाव           | .... | वाद              |
| हंगामा          | .... | लड़ाई झगड़ा      |
| हक              | .... | स्वत्व, हित      |
| हक आसायश        | .... | सुखाधिकार        |
| हक आसायश कयासी  | .... | आभासित सुखाधिकार |
| हक आसायश रिवाजी | .... | लौकिक सुखाधिकार  |
| हक आसायश जरूरी  | .... | आवश्यक सुखाधिकार |
| हक इन्फिकाक रहन | .... | बन्धक मोचनाधिकार |
| हक तसनीफ        | .... | प्रकाशनाधिकार    |
| हक महदूद        | .... | सीमित हित        |
| हकरसी           | .... | परिशोध           |
| हक राय          | .... | मताधिकार         |
| हक शफा          | .... | अग्रक्रयाधिकार   |
| हकीकी           | .... | वास्तविक, सगे    |
| हकूक जनाशोई     | .... | वैवाहिक स्वत्व   |
| हकूक वाशिन्दगी  | .... | देशीकरण          |
| हक इस्तफादा     | .... | लामदायक, स्वत्व  |

|               |      |      |                         |
|---------------|------|------|-------------------------|
| हक्रियत       | .... | .... | भू-सम्पत्ती             |
| हक्रियत गालिव | .... | .... | प्रमुख स्थल             |
| हक्रियत मगल्व | .... | .... | अधीनस्थ स्थल            |
| हतक आमेज      | .... | .... | निघ                     |
| हादिसा        | .... | .... | दुर्वटना                |
| हदीस          | .... | .... | परम्परा                 |
| हदूद इस्तियार | .... | .... | अधिकार-क्षेत्र          |
| हद            | .... | .... | सीमा                    |
| हव्वुल वतनी   | .... | .... | देशभक्ति                |
| हव्स          | .... | .... | अवरोध                   |
| हव्स दवाम     | .... | .... | आजन्म कारावास           |
| हव्स वेजा     | .... | .... | अनधिकार अवरोध           |
| हमददी         | .... | .... | सहानुमूर्ति             |
| हमला          | .... | .... | आक्रमण                  |
| हमविस्तरी     | .... | .... | सहवास                   |
| हमशकल         | .... | .... | समान रूप                |
| हयात          | .... | .... | जीवन, जीवित             |
| हया           | .... | .... | सुलज्जा, शील            |
| हर्जा         | .... | .... | हानि, क्षति             |
| हरफ           | .... | .... | अक्षर                   |
| हलचल          | .... | .... | आन्दोलन                 |
| इलफ           | .... | .... | शपथ                     |
| इलफ दरोगी     | .... | .... | मिथ्या साक्ष्य, शपथ-भंग |
| इल्का         | .... | .... | कार्य-क्षेत्र           |
| इल्का इन्तलाब | .... | .... | निर्वाचन-क्षेत्र        |
| इवाला         | .... | .... | उल्लेख                  |

|                           |      |                           |
|---------------------------|------|---------------------------|
| हस्त जल ....              | .... | निम्न लिखित               |
| हसद ....                  | .... | द्वेष                     |
| हाजिरी ....               | .... | उपस्थिति                  |
| हामला ....                | .... | गर्भवती                   |
| हारित्र होना ....         | .... | बाधा डालना                |
| हालत ....                 | .... | परिस्थिति                 |
| हासिल करना ....           | .... | उपाजित करना, प्राप्त करना |
| हासिल ....                | .... | उत्पन्न हुआ, प्राप्त      |
| हासिलगुदा ....            | .... | निहित                     |
| हिकारत ....               | .... | घृणा                      |
| हिदायत ....               | .... | निर्देश                   |
| हिदायत करना ....          | .... | निर्देश देना              |
| हिदायत नामा ....          | .... | निर्देश पत्र              |
| हिदायती सवाल ....         | .... | बोधक प्रश्न               |
| हिन्दसे ....              | .... | अंक                       |
| हिफाजत ....               | .... | संरक्षण                   |
| हिफाजत खुद ....           | .... | आत्म-रक्षा                |
| हिफाजत खुद इस्तियारी .... | .... | स्वाधीन-रक्षा             |
| हिफज अनन ....             | .... | शान्ति-रक्षा              |
| हिवा ....                 | .... | दान                       |
| हिम्मत बढ़ाना ....        | .... | उत्साहित करना             |
| हिरासत ....               | .... | निरोध                     |
| हिस्ता ....               | .... | अंश, भाग                  |
| हिस्ता रसदी ....          | .... | भाग दान, सानुपात          |
| हिस्सेदार ....            | .... | अंशधारी, साझेदार          |
| हीन ह्यात ....            | .... | यावज्जीवन                 |

|                     |      |      |                                    |
|---------------------|------|------|------------------------------------|
| हुकूमत              | .... | .... | सत्ता                              |
| हुकूमत विला कैद     |      | .... | निरंकुश शासन                       |
| हुकूमते उमरा....    |      | .... | कुलीन तंत्र                        |
| हुकूम               | .... | .... | आज्ञा, आदेश                        |
| हुकूम इम्तनाई....   |      | .... | निषेधाज्ञा                         |
| हुकूम इम्तनाई दवामी |      | .... | स्थायी निषेधाज्ञा                  |
| हुकूम दरमियानी      |      | .... | मध्यवर्ती आज्ञा, अन्तर्वर्ती आज्ञा |
| हुकूम सजा           | .... | .... | दण्डाज्ञा                          |
| हुकूमनामा           | .... | .... | आज्ञापत्र                          |
| हुदूद अरबा          | .... | .... | चतुः सीमा                          |
| हुनर                | .... | .... | कौशल                               |
| हुसूल               | .... | .... | प्राप्ति                           |
| हैसियत              | .... | .... | स्थिति                             |
| होशियार             | .... | .... | समझदार, सावधान                     |
| हौल                 | .... | .... | आतंक                               |
| हौसला अफजाई         |      | .... | प्रोत्साहन                         |